



गुणात्रयान् विषये, पंक्ति श्री जिनविजयमहाराज विरचित-

श्री

॥ धन्नाशालिभद्रनां शस ॥

गुंरंर लीपिषां उपेला गण कर्ता एण समक्षानुगार ययारे मंगोपन करी
उपायी प्रपिद्ध करनार

डा. ककरात्ताई गोपालदास, धनासूतारनी पडीपोल.
श्रमदायाव-रंकनात्तषा 'गुनियन' मिन्टिग प्रेमषा डा. पेलात्ताई वरगिलदासे उाष्यो.
निक्रम संगत ? एणो

किम्मन गया रुपियो.

पनिहकनांणं भा गुनयने तापसा एणवसा मकषी मने प्रयात्ता इक गोपाने स्वधीन मश्या छ.

आ संसारमां परिब्रमण करता प्राणीत्वेन चुद्धकादि दश दृष्टांते दुर्लभ एवो मनुष्यनो जन्म, आर्यक्षेत्र, उचमकुल अने निरोगीकाया; ए सर्वे पामवुं दुर्लभ ठे. कदापि कोइ सुकृतना उदयथी ते पण पामी शकाय, परंतु श्री जिनधर्म पामवो, ते तो घणोज दुर्लभ ठे! ते धर्म दान, शीयल, तप अने ज्ञाय; ए चार प्रकारे ठे. तेमां दानना प्रज्ञावधी धनसार्थयाहादिक अनेक जीवो सुख संपत्ति पामी सज्जतिना चाजन थया; शीयलना प्रज्ञायथी सुदर्शनशेठने शूली फीठीने सिंहासन थयुं; तपना प्रज्ञावधी दृढप्रहारी जेया चार जीवनी हत्या करनारे पण मुक्ति मेलवी अने चावना प्रज्ञावधी ज्ञरतेश्वर मदाराजने भारीसाश्रुवनमां केवलज्ञान उत्पन्न थयुं. आ प्रकारे दान, शीयल, तप अने ज्ञायनुं फल तिखंतमां प्रसिद्धे ठे. तथापि आंहि दानधर्मनुं प्रधानपणुं होवाथी किंचित् दानधर्मनुं महत्वपणुं देखाडीए ठीए. सर्वे धर्ममां सार पदार्थ ते दानधर्मज ठे. राज, रुद्धि, स्मृद्धि, योग, शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्श तेमज पोताना तथा परना वैशमां जश, महिमा अने मनोवांगित अर्थनो देनार ते दानधर्मज ठे.

रुद्रदेव प्रज्जुए प्रथम धनसार्थवाहना जयमां मुनिजनोने घृतनुं वान बीधुं, तो तीर्थक र पद पास्या; बाहु मुनिये पांचजे मुनियोने आहार पाणी लावी आपवाधी आगद्वया जन्म

मां भरतचक्रवर्तिश्रवानुं पुण्य उपार्जन कर्तुं; श्रेयांसकुमारे रूपभद्रं च जगयाननं इकुरसथा
 प्रतिलान्या, तो संसारतो अंत करी तेज ज्ञयमां मुक्तिं मेलयी; चंदनवालाये अडवना
 बाकुसा महावीर प्रभुने बहोराव्या, तो तेज बखत दुर्दशानो भंत धयो, दीव्य रूप थयुं
 अने पंचदीव्य प्रगट थया; शांतिनाथ प्रभुए पूर्वजन्धे (मेघरथ राजाना ज्ञयमां) पारैयाने
 अन्नयदान दीधुं, जेश्री तीर्थंकर अने चक्रवर्तिपणानुं पुण्य प्रगट थयुं; मेघकुमारे हाथीना
 ज्ञयमां ससलाने अन्नयदान दीधुं, तो महाकृष्मान् श्रेणिकराजाने घेर उत्पन्न थयो; इं
 खराजा अने यशोमति राणी मुनिने दारुनुं पाणी बहोराग्याथ्री नेमिनाथ भने राजीमती
 थयां; मुनिने रत्नकंचल आपवाथ्री रत्नवाइं शेठाली मरुंदवीमाता थयां; सुदत्त मुनिने
 दान देवाथ्री मुवाइकुमर अत्यंत रूपयान थया; वीर प्रभुने वीजेरापाक देवाथ्री रेवती
 आविकाए तीर्थंकरगोत्र थांथुं; तेमज मासलमणने पारणे मुनिने खीरनुं दान देवाथी
 धन्नकुमर अने शालिजन्मकुमर आ ज्ञयमां अगणित कृष्णा ज्ञोगी अइ धैराग्य पामी दी
 क्हा लेइ बने जण सर्वार्थसिद्ध विमानमां गया. त्यांथी ज्यवी महाविदेहकेत्रे कोइ महोटा
 शेठने घेर जन्म पामशे, त्यांपण मज्जुरु समीपे दीक्षा ग्रहण करी कर्म खपावी सिद्धिप
 वने बरशे. धन्नकुमर भने शालिजन्मकुमर मात्र मुनिने दान देवाथी अत्यंत कृष्णियान थइ

सुखी थयां, तथा पावला जवमां मात्र दाननी अनुमोदना करवाथी सुभ्रजादिक आठे ध
 नकुमरनी स्त्रीयो घइ, तेमज घनदत्त, घनदेव अने घनचंद्र; ए त्राण्ये जाइयोए पावला जव
 मां दान देइने त्राणवार पश्चात्ताप कल्यो, जेथी त्राण वखत महाडुःख पाम्या. एम जाणी
 सर्व प्राणीउए दान देवुं. आ प्रकारे दान देवाथी, देवराववाथी अने अनुमोदना करवाथी
 सुख संपदा तेमज मोक्ष देवलोकनां सुख मलेठे अने दान देइने पश्चात्ताप करवाथी दुःख
 उत्पन्न थायठे. ते सर्वे आ रास वांचवाथी पूरेपूरी रीते समजाशे.

पंक्ति श्री जिनकीतिस्वरि विरचित संस्कृत चरित्र ऊपरथी पंक्ति श्री जिनविजय
 महाराजे सुरत शेहेरमां आ रास वनाव्योठे. असल प्रतमां द्वाष्टांतिक श्लोकोना अर्थ नहि
 होवाथी तेना, तथा कठण शब्दोना अर्थ (टिप्पण तरीके) नवा कराव्याठे. पूर्वोक्त श्लोकोना
 तथा कठण शब्दोना अर्थ कराववामां सर्वथकी चतुर्थव्रतधारक श्रावक हीराचंद ककल
 जाईए घणोज श्रम लीधोठे, तेथी आहि तेमनो घणोज उपकार मानवामां भावेठे.

आ रासनी अंदर कानो, मात्रा, मींडी विंगरे जे कांइ जिनाज्ञाविरुद्ध लयाणुं होय, ते
 मज कोफी लखतां अथवां पुफ सुधारतां जे कोइ भूल रहि गइ होय; तो तेने माटे चतुर्विध
 श्री संघनी साले इ मित्रामिडकडं देव ठे.

॥ दोहा ॥ पं० श्रेणि नत क्रम कमल, स्वस्तिश्री गुण धाम ॥ धीर धीर जिनापति
 प्रते, प्रेमे कर्हं प्रणाम ॥१॥ वसुधासं विद्या विमुक्त, वर दाता नितमेय ॥ समरं चित्त चो
 र्हे करी, ते प्रतिदिन श्रुतेश्चि ॥ २ ॥ गुरु चरणायुज मेवया, मुज मन मयुकर लीन ॥
 उपगारी श्वनी तंले, गुरु सम को न प्रवीन ॥३॥ सिंहावल वैजारगिरी, श्यापद गिर
 नार ॥ समेतादि ए पंच नर, तीर्थ नमुं नित सार ॥४॥ संघ चतुर्विधेने सदा, विकरण शुद्ध
 विकल ॥ गंडु विधि वंदन थकी, सुकृत करण सुविद्याल ॥५॥ धर्म चतुर्विध उपविद्या,
 जगपति जन हित काज ॥ दान शिष्य तप ज्ञायना, जलनिधि तगण जिज्ञाज ॥ ६ ॥
 यतः ॥ उपजातिवृत्तम. ॥ दानं सुपात्रे विद्यां च ढीलं, तपो विचित्रं शुभ्र ज्ञायना च ॥
 ज्ञापणोच्चारण यानपात्रं, धर्मं चतुर्बं मुनयो वदंति ॥१॥ ज्ञानार्थः—सुपात्रेने विंये दान
 आपनुं, निर्मल शील पालनुं, विचित्र प्रकारनो तप करयो श्रने शुभ्र ज्ञायना ज्ञाययी;
 ए रीते ज्ञय रूप समुद्धी पार पमाडयाने जात्र समान एयो चार प्रकारनो धर्म, मुनि
 यो उपदिसे वे. ॥१॥ प्रथम दान पद धर्मना, दाल्या पंच प्रकार ॥ अत्रय सुपात्र अमुकं

प तिम, उचित कीर्तिं सुविचार ॥३॥ इहलोके सुख संपजे, लहिये नित नवनीधि ॥ अ
 न्नयदान देते धके, परन्नव रुद्धि समृद्धि ॥७॥ एक शशक ऊगारते, पाम्यो रुद्धि उदार ॥
 गज न्नवथी नर न्नव लह्यो, मेघकुमर मनोहार ॥९॥ तिम सुपात्र दाने करी, शिव सुख
 पामे जीव ॥ चित्त चित्त शुन्न पात्रथी, त्रिकरण शुद्ध अतीव ॥१०॥ पायस्तान्न दाने करी,
 पाम्यो न्नोग रसाल ॥ घन्नशाह धर्माग्रणी, पद पद मंगल माल ॥११॥ शालिन्न इ पिण
 दानथी, सुख पाम्यो श्रीकार ॥ श्रेणिक किरियाणो कियो, नर न्नव सुर अवतार ॥१२॥
 दीजे दान दया धरी, करी चित्त मुप्रकास ॥ मनवंवित सुख पामीए, कळपडुम परे खास ॥१३॥
 घन्नशाह गुण वर्णनुं, वचन धकी लवलेश ॥ निन्न विकथा वाडिने, श्रोता सुणो सुविक्षेप ॥१४॥

॥ दाल १ ली. ॥ जंबूद्वीपना न्नरतमां.ए देशी. ॥

जंबूद्वीप सोहामणो, लाख जोयण परिमाणो रे ॥ नृनाकारे विराजतो, जगति कन
 कमय जाणो रे ॥ जंबूद्वीप सोहामणो ॥ १ ॥ ए श्रांकणी ॥ त्रिएप लाख सोल सहस
 थी, अधिक वस्ते सत्तावीशो रे ॥ कोप त्रिक ऊपर कद्या, धनु शत एक जगीशो रे ॥
 जंबू ॥२॥ अठावीसे श्रागला, अंगूल साडातेर रे ॥ परिधि कही जंबूद्वीपनी, एहमां फार
 न फेर रे ॥ जंबू ॥ ३ ॥ न्नरतक्षेत्र दक्षिण दीशे, सोहे जंबूद्वीपे रे ॥ पांचसे त्थीस त

कला, जोग्यण्धी अति दीपि रे ॥ जं० ॥ ४॥ पट लक्ष्म वताढ्य करी, गंगा सतुका रे
 हे रे ॥ नरततणी दोजा घणी, देवी मुर नर मोहे रे ॥ जं० ॥ ५ ॥ मध्यगंरुमें शोज
 तो, पचन पुरपश्वणो रे ॥ इंद्रपुरी सम उपतो, अति उत्तम अह्निगणो रे ॥ जं० ॥ ६ ॥
 चौरादी चहुटां जलां, गढ मठ मंदिर दीपि रे ॥ देवल श्री जिनराजनां अमर लुयनेने
 जीपि रे ॥ जं० ॥ ७ ॥ पौषयशाला पढवडी, तिम बली पवननी शालो रे ॥ दानशाला
 अति दीपती, इप्सित दान रसालो रे ॥ जं० ॥ ८ ॥ गोदावरी तटिनी तिहां, अह निशि
 गहे असरालो रे ॥ मद्य मयूर किडा करे, सुंदर सोहे मरालो रे ॥ जं० ॥ ९ ॥ वन उपवन
 याडी घणी, वृद्धतणा बहु वृंदो रे ॥ सधन वायाथी शोजता, पंथी पामे थाणंदो रे ॥ जं०
 ॥ १० ॥ जितदात्रु नूपति तिहां, राजे धनवने तोले रे ॥ खाग त्याग गुणथी जलो, लोक
 सहू जय बोले रे ॥ जं० ॥ ११ ॥ यतः ॥ उपजातिनृजम. ॥ इंद्रत नृपत्यं ज्वलनाप्रतापं,
 क्रोधयमाद्विश्रमणाच्च विचं ॥ सन्यस्थिति रामजनादनान्या, मादायराज्ञःक्रियतेशरीरं ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—इंद्रकी राजापणुं, अग्निथकी प्रताप, यमनी पासेथी क्रोध, कुबेरजंमारी पासे
 थी धन, तेमज राम अने जनादननी पासेथी सन्यस्थिति; ए संवं लेइने राजानुं शरीर
 कराप ठे. ॥ १ ॥ सुंदर रूप सोहामणी, गुणसुंदरी पटराणी रे ॥ वचनामृतथी वरसती,

क्षिति सीता जाणी रे ॥ जं० ॥ १२ ॥ ह्ये रति पति सारीखो, सकल कलाये पूरो रे ॥
अस्मिन्नान्ध गुण नीलो, कुमार अगे अति गुरो रे ॥ जं० ॥ १३ ॥ वरण अद्धार वसे
गुरो, नृप आणा प्रतिपाले रे ॥ सहु को निज निज धर्मथी, कुल मारग अजुआले रे
॥ जं० ॥ १४ ॥ कोटीप्वज व्यवहारीया, जोग पुंरंदर सारो रे ॥ दान गुणे करी आगला,
निगरो अति सुग्यकारो रे ॥ जं० ॥ १५ ॥ दृढधरमी गुरु रागीया, उचम कुल आचारो रो ॥
रामरित्तंत सदा धंर, आवकनां व्रत वारो रे ॥ जं० ॥ १६ ॥ दान कडपडुम रासनी, प्रय
म शाल एह ज्ञान्धी रे ॥ जिन कहे श्रोता सांजलो, मन वच तनु थिर राखी रे ॥ जं० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ बडबलती व्यवहारियो, तिहां वसे धनसार ॥ रुद्धि वृद्धि दिन दिन
अधिक, जलधि परे विस्तार ॥ १ ॥ जलधितणा जिम रत्नो, पार न पामे कोच ॥ तिम
धनसारना धन तणो, लेखो कदिय न होय ॥ २ ॥ दानादिक गुणथी अधिक, जिनधरमी
गुण गेह ॥ त्रिणय तत्व सुधा धरे, व्रतधारी शुचि देह ॥ ३ ॥ शीलवती तस गेहिनी, नाम
तिसो परिणाम ॥ दंपति जोडी अति डुरस, जिम सीता ने राम ॥ ४ ॥ पंच दान नितप्रति
दिये, व्रत पञ्चबाण उलास ॥ दोगुंडक सुरनी परे, बिलसे जोग विलास ॥ ५ ॥

॥ शाल २ जी. ॥ कायलो परवत धूंयलो रे लो; ए देशी. ॥

व्यग्रहारी धनसारने रे लो, बिलसंते सुख जोग रे ॥ सोजागी लाल ॥ पुत्र थया
 अति रूपडा रे लो, पूरव पुण्य संयोग रे ॥ सोजागी लाल, व्यग्रहारी धनसारने रे लो
 ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ धनवन ने धनवेवजी रे लो, धनचंद्राभिध बाल रे ॥ सो० ॥ अध्यापक
 पासे ज्ञाया रे लो, शास्त्रादिक सुविद्याल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ३ ॥ विनयादिक गुण अच्यसे
 रे लो, सकल कला प्रदे तेह रे ॥ सो० ॥ अति सुंदर सोहामणा रे लो, वैकुण्ठर सम
 देह रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ३ ॥ योवन यय श्राव्या यदा रे लो, ताते तय ततकाल रे ॥ सो० ॥
 प्रित धकी परणाविया रे लो, कन्या अति सुकुमाल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ४ ॥ धनश्री
 धनदेयी जली रे लो, धनचंद्रा सुगकार रे ॥ सो० ॥ अति रूपडी रखीयामणी रे लो,
 गुणमणि रयण जंकार रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ५ ॥ प्रमदायी प्रेमे रमे रे लो, धनदत्तादिक
 पूत्र रे ॥ सो० ॥ धरम करम विधि साचवे रे लो, राखे धरनो सूत्र रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥
 ॥ ६ ॥ निर्याहक गृह ज्ञारना रे लो, जाणी पूत्र सुजात रे ॥ सो० ॥ धनसारेच्य करे तदा
 रे लो, ल्बीयुत धर्म विख्यात रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ७ ॥ नवपद ध्यान धरे जलो रे लो, प
 श्रिम रात्रि विज्ञाग रे ॥ सो० ॥ श्रावश्यक वे टंकनां रे लो, साचवे मन धरी राग रे
 ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ८ ॥ चैत्यवंदन साते सदा रे लो, देवार्चन विण्य टंक रे ॥ सो० ॥ ति

धांचन युगते करे रे लो, टालवा पापना पंक रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ॥६॥ स्थयात्रा रलीया मणी रे लो, साधूने वसती दान रे ॥ सो० ॥ पडिलाजे ज्ञावे करी रे लो, निरवद्य अस न ने पान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ जयंति यंकचूलाद्या, को द्या चाश्रय दानतः ॥ अवंतिसुकुमालश्च, तिर्णा संसारसागरं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—साधु मुनि राजने रहेवा माटे स्थानक आपवाधी कोदया वेदया, अवंतिसुकुमाल अने यंकचूलादिक; ए सर्वे जयवंता वतों. कारण के, तेउ संसार सागरने तरी गया ॥ १ ॥ दिशना नित्य प्रत्ये सांजले रे लो, दंपति दिल धरी गम रे ॥ सो० ॥ सातकेत्रने साचवे रे लो, नियम धरे हित का म रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ ११ ॥ पुण्य संयोगे अन्यदा रे लो, शीलवती सुकुमाल रे ॥ सो० ॥ गर्जं धरे संयोगधी रे लो, निरुपम ज्ञाग्य विशाल रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १२ ॥ देख्यो सुपनो दीपतो रे लो, फड्यो फूड्यो * सुरवृद्ध रे ॥ सो० ॥ देखी आनंद ऊपन्यो रे लो, कंतने कहे परतकर रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १३ ॥ कंत कहे कामिनी प्रते रे लो होशे पूत्र प्रधान रे ॥ सो० ॥ कुल मंत्रण कुल दिनमणी रे लो, रूपे नूप समान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १४ ॥ * प्रत्यूपे अति प्रेमशुं रे लो, तेड्या शास्त्रना जाण रे ॥ सो० ॥ फल पृथयां सुहृणांतणां रे लो, बोड्या तेह

मुजाण रे ॥सो० ॥ व्य० ॥ १५ ॥ अंगज अन्नत रूपी रे लो, होयो सुगुण नियान रे ॥सो० ॥
 सांनली डोव सुझी भया रे लो, दीयो प्रेम दान रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १६ ॥ अनुक्रमे ग
 जे नये सुये रे लो, मानस सर जिम हंस रे ॥ सो० ॥ जिन कळे वीजी कालमां रे लो,
 पुण्ये कुल अयंत रे ॥ सो० ॥ व्य० ॥ १७ ॥

॥ दोला ॥ अथ वीजे मासे अयल, बोहद उपजे ताम ॥ जिनपूजा गुरु सेवना,
 कर्या उगम काम ॥ १ ॥ सायुने यत्रादिक दिवं, योग्यं संघ उदार ॥ स्वाद्य महाद्यव
 साच्युं, विरनू जैन विहार ॥ २ ॥ पाँयय सामायिक करं, धरं नियम चितलाय ॥ नय
 पनें अह निधि ज्युं, पालू प्रयचन माय ॥ ३ ॥ जीवदया राखण यतन, करंकरानुं सार
 ॥ आनरणादिक अति सुन्नग, पहरें वेडा उदार ॥ ४ ॥ इत्यादिक बोहद सकल, प्रतिदिन
 जेह उपद्र ॥ ते ते दोणे पूरीया, करते कोडि यतद्र ॥ १ ॥

॥ दाल ३ जी. ॥ दान उलट धरी वीजीए.ए देडी. ॥

माग नय दिन माते श्ये, उगम योग तिथि चार रे ॥ झिलवती सुत प्रसवीयो,
 मृत हरे अपार रे ॥ पुण्ये मयल सुग्य पामीये ॥ १ ॥ ए श्रांकणी ॥ यामिये डुरित दुःख
 मूर रे ॥ वंठित विगुल योगे भिजे, फले सुरवृक नरपूर रे ॥ पुण्ये ० ॥ १ ॥ बाल नाल स्त्रा

पन नरणी, भूमि खनन करे जाम रे ॥ कनकनिधि परगट थयो, देखी प्रसुदित थया
 ताम रे ॥ पुण्ये० ॥३॥ शोवने दीधी वयामणी, सुणी हरख्यो धनसार रे ॥ लाख पसाय
 तेहने कीयो, लीयो सुजस सुप्रकार रे ॥ पुण्ये० ॥४॥ उछव रंग वयामणां, बवल मंगल
 नवरंग रे ॥ याचक दान देवरावीयां, बांध्यां तोरण चंग रे ॥ पुण्ये० ॥५॥ चंड सूर्यादि
 दर्शन कीयां, तृतीय दिने ततखेव रे ॥ रात्रि जागरण ठेहे दीने, धर्मकार्यं जिनसेव रे
 ॥ पुण्ये० ॥६॥ दश दिन स्थितिपतिका करी, अशुची टाले ततकाल रे ॥ असन वसना
 दिके स्वजनेने, पोख्या नक्ति सुविशाल रे ॥ पुण्ये० ॥७॥ जन्म समय धन प्रगटीयो,
 ते गुण हृदय संज्ञार रे ॥ नाम धनकुमर ताते दीयो, हूउ सुजस विस्तार रे ॥ पुण्ये० ॥
 ॥८॥ रूप लावण्य गुणे करी, अधिक उपे शुचि देह रे ॥ पंच धावे करी पालते, सुखमें
 वधे गुणगेहे रे ॥ पुण्ये० ॥९॥ अनुक्रमे अष्टवार्षिक थयो, पाठव्यो पितृ निशाल रे ॥ यत
 नथी पवन करे तदा, धन्नकुमर उजमाल रे ॥ पुण्ये० ॥१०॥ यतः ॥ अनुष्टुबृचम् ॥
 माता वैरी पिता शत्रु, बालोयेन न पावितः ॥ न शोभते सन्नामध्ये, हंसमध्ये वको
 यथा ॥१॥ ज्ञावार्थः—जेमणे बालकने नणाव्यो नथी, ते माता पिता बालकनां शत्रु जा
 एवां. कारण के, ते अन्नण राखेवो पुत्र, हंसोमां बगलानी पेठे विद्वानोनी सन्नाम्यां को

जतो नथी ॥१॥ ह्ये विद्याना गुण कहे वे. ॥ शार्दूलविकीर्तितवृत्तम् ॥ विद्यानाम
 रूपमधिकं प्रद्यन्न गुप्तं धनं, विद्या जोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ॥ विद्या
 वयुजने विविदा गमने विद्या परं देवतं, विद्या राजगुरु पूज्येतेन हि धनं विद्या विद्विनः
 पशुः ॥२॥ ज्ञाचार्यः—विद्याज गुरुपुत्रं अधिक रूप, दाकेतुं गुप्त धन, जोग, यश, सुखने
 आपनारी, गुरुनी पण गुरु, प्रयासमां वाटे जतां वयुजन समान अने परम देवत रूपवे;
 राज दरवारमां विद्याज पूजाय वे, पण धन पूजानुं नथी; माटे विद्या रक्षित पुरुषने ज
 नावर समान जाणयां. ॥३॥ बली पण विद्याना गुण कहे वे. ॥ उपजातिवृत्तम् ॥ न चोर
 हार्ये न च राज हार्ये, न ब्राह्म ज्ञायं न च ज्ञारकारि ॥ व्यये कृते वल्लि एव नित्यं,
 विद्या धनं सर्व धन प्रदानं ॥३॥ ज्ञाचार्यः—विद्या रूप धन, चोर तथा राजाथी लेश लेयातुं
 नथी, ज्ञाथीथी बहूंची लेयातुं नथी, कांड ज्ञार करतुं नथी अने कोडने आपवाथी घट
 याने बंदले निरंतर कथे वे, माटे विद्या रूप धन सर्व धनमां मुख्य धन वे. ॥३॥ अनुष्टुप् वृत्तम्
 रूप यौवन संपन्ना, विद्याल कुल संज्ञयाः ॥ विद्या हीनान शोभन्त, निर्गथा इव किंशुकाः
 ॥४॥ ज्ञाचार्यः—रुपात्ना, युवान अने महोटा कुलमां उत्पन्न आप्ला, एवा एण जो विद्या
 हीन होय, तो सुगंध विनानां कंदूडानां फूलनी पेठे शोभता नथी. ॥४॥ विद्वत्वं च नृपत्वं

प, नीर नृद्वयं कदाचन ॥ ह्येवंशो पृथ्येत राजा, विद्वान् संयंत्र पूज्यते ॥५॥ नावायत्रः—निवा
 न्नालं अने राजापलं ए कदि पण वरोवर उेज नहि. कारणेके, राजा पोताना देदामां पूत्राय
 उे अन्न विद्वान् संयं उक्ताणे पूजाय वे. ॥५॥ लिखित गणितादि वहेतर कला, तिम बली
 शूरान् विचार रे ॥ गीत नृत्पादि विधि प्रह्नी, शब्दशास्त्रादि व्यवहार रे ॥ पुण्येण ॥१॥ जो
 तिर निमित्त वेयक नलां, अन्न प्रपासर्थी तेह रे ॥ विस्मृत स्मरण ज्यं कीजीए, तेम
 न्नायां परि नेह रे ॥ पुण्येण ॥२॥ बुद्धि चारतलां उदधि ते, तिम बली नीतिनो जाण रे ॥
 विणज व्यापार दुशालपलां, परिकक मांहि सुप्रमाण रे ॥ पुण्येण ॥३॥ नीपन्यो पूत्र ते
 निररथीन, दिल परी अधिक श्राणंद रे ॥ अध्यापक धन आपने, संतोप्यो अतिहि अमंद
 रे ॥ पुण्येण ॥ १५ ॥ बाल नय ठाडि बलवंत ते, शयो यौवन वेदारे ॥ अतुड्य अति रूप
 सावणपथी, प्रगद्यो जाले सुरेश रे ॥ पुण्येण ॥१५॥ पंच मिली पूत्रपूवे जीके, उचार दिये
 तम जीकरे ॥ नीति रीते करी दागये, साहसपणे निरन्नीकरे ॥ पुण्येण ॥१६॥ धन सु
 तपी पनसाग्नो, कथो सुजस जगमांह रे ॥ रुद्धि स्मृद्धि पामी घणी, दिन दिन अतिहि
 उभाह रे ॥ पुण्येण ॥१७॥ धवल पदके जिम चंडमा, प्रतिदिन अधिक दीपंत रे ॥ तेम कुम
 र धवली उगा कोण न नाम नीपंत रे ॥ पुण्येण ॥ १८॥ उक्ताणे पण अत्रां लिखित

वचन प्रतिपाद रे ॥ दान कष्टकुमु रासनी, जिन कहे श्रीजी दाल रे ॥ पुण्य ० ॥ ११० ॥
 ॥ दोहा ॥ कला कोप देगी करी, रूपवंत शिरदार ॥ ज्ञान्याधिक जाणी करी,
 चित्त चिंते वनमार ॥१॥ पुण्योदयथी माहरे, श्री जिनयमे पसाय ॥ अंगज अन्नूत ऊर
 न्यो, सयण सयल सुखदाय ॥२॥ एहथी धन वाच्यो अधिक, यज्ञ हुत्त जगत विख्याता ॥
 पंचमे पति वधती अरु, वारु वनी ए वात ॥ ३ ॥ सदगुण स्तयना कीर्त्तीए, तेहमां कोरे
 न लाज ॥ सुत पिण चित्त राजी रहे, एक पंच दोरे काज ॥४॥ पंचमे बेसी शेठजी, धन
 सुततणां वखाण ॥ प्रतिदिन जांले प्रेमदुं, विविध परे सुप्रमाण ॥५॥ जन्म काले ए वा
 लना, धन प्रगट्यो अति भूर ॥ दुःख दोहग हरे टट्यां, अम कुन्न अंवर सूर ॥६॥ विनयं
 त विद्या निळो, अर नहो को आज ॥ अग्रजात ए आगले, काय न थावे काज ॥७॥

॥ दाल ४ थी. ॥ पुण्य न मूकीए. ए देसी. ॥

वयण गुणी निज तातनां रे, अग्रज सुत अकुलाय ॥ शिण्ये मिलीने तातना रे, आ
 वी प्रणमे पायो रे ॥ तातजी सांजलो ॥ ए अमची अरदासो रे, मूकी आमलो ॥ मन रा
 खी विसवासो रे, तातजी सांजलो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ धनकुमर अम अनुज ठे रे, रूप
 कला अन्निराम ॥ तिले करी अमे प्रमुदितपणे रे, रहीए सदा शुभ कामो रे ॥ ता ० ॥ २ ॥

ए श्रमने श्रति वालहो रे, प्राणश्रकी निरधार ॥ माडी जाया दोहीला रे, जाणे सयल सं
 सारो रे ॥ ता० ॥३॥ पिण सुतनी गुण वर्णना रे, न घटे तुमने रे तात ॥ नीति शास्त्रमें
 पिण कही रे, ते शूं वीसरी वातो रे ॥ ता० ॥४॥ यतः ॥ अनुदुवृत्तम् ॥ प्रत्यके गु
 रवः स्तुत्या, परोक्षे मित्र बांधवा ॥ कर्माते दास ऋत्याश्च, पुत्राश्चैव मृतास्त्रियः ॥ १ ॥
 ज्ञावाथः—प्रत्यक्षमां गुरुनां, परोक्षमां मित्र अने बांधवोनां, आपणुं कार्य श्रइ रह्या पठी
 दास अने अनुचरोनां; तेमज पुत्र अने स्त्रीनां मरण पठी बखाण करां ॥१॥ ॥ आर्यावृत्त
 म् ॥ बन्निष्कइ त्रिच गुणो, न परस्के न य सुअस्त पञ्चस्कं ॥ महिलाउ नोत्तयावि इ, न
 नस्तए जेण माहृष्यं ॥१॥ ज्ञावाथः—सेवकना गुण प्रत्यक्षे कक्षाथी, पुत्रना गुण परोक्षे
 कक्षाथी अने स्त्रीना गुण कदि पण नहि बोलवाथी पोतानुं महोटाश्यणुं सचवाय ठे. तेम
 ठतां जो कदि बोले, तो मानतो नाश आय. ॥१॥ सुत गुण वर्णवते शके रे, लघुता लहीए
 रे आप ॥ सुत पिण विनय न साचवे रे, मानतणो होय ज्यापो रे ॥ ता० ॥ ५ ॥ कुल
 मर्यादाथी टले रे, न गणे मातने द्रात ॥ तातने पिण नवि लेखे रे, प्राज्ञक होय जो जात रे
 ॥ ता० ॥ ६ ॥ ते मोटे हवे श्राजथी रे, सुत गुण वर्णन वात ॥ मत करज्यो कोइ श्रागले
 रे, ए श्रम बचन विख्यातो रे ॥ ता० ॥१॥

नहि, कारण के, एक घेद आरा जगतना अंधाराने दूर करे वे, पल तागानेनो समुद्र
 फरतो नथी. ॥५॥ तात वचन सुणी ततकणे रे, घटकी बोड्या रे तेह ॥ एक पलो इम
 ताणतो रे, जाणयो तुमचो नेदो रे ॥ तातजी सांजलो ॥१३॥ व्यवसायाथं जलधिमें रे,
 भमे जाके षति दूर ॥ कष्ट समू तोफानतां रे, जिहां नथि दीसि मुरो रे ॥ ताण ॥१३ ॥
 तिहां जइ पन लानू भमे रे, रागुं भमे व्यवहार ॥ वजि परंदो अत्रयंटे रे,
 जाउे परण व्यापारो रे ॥ ताण ॥१४॥ तडका ताड घणी खमुं रे, बरांकांले रे वृष्टि ॥ नृव
 तृया सहवी मरा रे, पंथ भ्रम जुठ दयो रे ॥ ताण ॥१५॥ बली सेवा राज्ञातली रे, भ्रमे
 कठे अह निशि मार ॥ ते पिण धनने कारणे रे, जांवा हृदय विमागो रे ॥ ताण ॥१६ ॥

मंदासंताधुगम्, ॥ मोनाग्नूकः प्रयचनपटुः बाहुजोजडरकोवा, कांत्यार्त्नीह यदि
 मोजातिजातः ॥ दृष्ट्वा पार्श्वे जयति च मदा दूरतथाप्रगल्भ, सेवाधर्मः
 धिनामप्यगम्यः ॥ ६ ॥ भावार्थः—मौन धारण करवाथी मूगो, बोलयामां
 र अथवा बडु बोलकणो, कमागुणथी वीकण, सहन गुण न हेत्वा
 भते रेहनारो होय तो जोनारो, अन दूर रहेतो होय तो गरिब; ए प्रका
 षलो ज आररो वे, अर्थात् ते योगी जनोने पण अगम्य वे. ॥६॥

कृषिकर्माधिक बहु कर्म रे, यन्नि नेस्ती व्ययसाय ॥ दोशीयट नागायटी रे, कण व्यापार
 कदायो रे ॥ ता० ॥१७॥ इत्यादिक उरक्रम कगी रे, अर्जन कर्ह धन कोड ॥ अमे सामर्थ्य
 सदा अर्तु रे, किम धनो अम जोडो रे ॥ ता० ॥१७॥ ए अथ निदि रमतो फरे रे, न करे
 घरनी रे सार ॥ चोथ्री दाले जिन कहे रे, पुण्ये जय जयकार रे ॥ ता० ॥१७॥

॥ दोहा. ॥ धनाने अमथ्री अधिक, दायो कवण प्रकार ॥ नचन अयुक्त कला
 तणो, उचम नदी आचार ॥१॥ तातने तनुज सेये सददा, लंगय्या दित साय ॥ नयन
 सददा गणया मदा, लोक कहे ए न्याय ॥२॥ सुतमं अंतर रागते, यो विगैथ निव्याता ॥
 ददा लागे लोकमं, हीणप पांमे जात ॥३॥ तात स ददा सदा करे, सुत वांछित सुप्रका
 र ॥ जो मुतने पांगे नदी, तो दो सगण सा ॥४॥ ते माटे तुमे तातजी, गरिया
 गणग्यो सर्व ॥ यिधि व्यवहारे चालतां, केहेने न च्हे गर्व ॥५॥

॥ दाल ए मी. ॥ (र्खो र्खो र्खो चालदा. ए देशी.)

दोष कहे सुत सांजलो, दु गुणानो आसक दाल रे ॥ जात सददा सधि मादरे,
 पिण तुमे दो अल्पक दाल रे ॥ दोष कहे सुत सांजलो ॥ ए आंकणी ॥१॥ यतः ॥ अनु
 पुत्रवृत्तम्. ॥ गुणाः सर्वत्र पूर्यंते, पितृयशो निरर्थकः ॥ वासुदेवं नमस्यंति, यमुदेवं नत

नराः ॥१॥ न्नायार्थः—सर्वे ठेकाले गुणो पूजाय ठे, पण पितानो वंश पूजातो नथी. अर्थात् ते नकामो ठे. केमके, सर्वे लोको वासुदेवने नमस्कार करे ठे, पण तेमना पिता वसुदेवजीने नथी करता. ॥१॥ नहि जन्मनि जेष्ठत्वं, जेष्ठत्वं गुण उच्यते ॥ गुणानुरूपत्वमायाति, दधि दुग्धं घृतं यथा ॥३॥ न्नायार्थः— जन्मने विषे मद्दोटापणुं नथी, परंतु गुणने विषे ठे. गुणानीज मद्दोटाइ आवे ठे. जेमके, दूध, दही अने घी; ए सर्वमां घी मद्दोडुं गणाय ठे, ॥१॥ कुतुम प्रमुख गुणानी सदा, गुंश्या नर धरे शीश लाल रे ॥ गुणयुत वंशादिक प्रते, नृप कर धरे सुजगीश लाल रे ॥शेठण॥१॥ सुरभिगुणे मृगमद ज्ञानी, कीधो अतिही अमूढ्य लाल रे ॥ वाचनाचंदन काष्ठने, सहु चाहे बहु मूढ्य लाल रे ॥ ॥शेठण॥३॥ यतः ॥ आनल फूल अति फूटडां, पगे न पूजा होय ॥ चंपा फूल अमूढ्य गुण, शीर चढे सहु कोय ॥३॥ न्नायार्थः—जो के, आवलनां फूल देखीतां घणां सुंदर जणाय ठे, तो पण तेमां सुगंधनो गुण नहि होवाथी, कोइ पगे पण अडाडतुं नथी; अने चंपानां फूल देखीतां फक्त घोलां ठे, परंतु तेमां सुगंधनो गुण वयारे होवाथी सर्वे लोको तेने उचम फूलोनी पंक्तिमां गणी माथे चढावे ठे अर्थात् सहु तेनो उपभोग करे ठे. ॥३॥ पुण्यप्रकृति गुण एदमां, प्रगट अठे अहो पूत्र लाल रे ॥ ए अंगज जनम्या पवी, अधि

क थ्यो परमृत्र लात्र रे ॥श्लो०॥४॥ व्ययसायाधिक पाथग, थाये ठे थहो जात लाल रे
 ॥ सख्य समीक्षित संपदा, पामी जगत विख्यात लात्र रे ॥श्लो०॥५॥ जो तुमने ए वा
 लना, गुग न गमे मनमालि लात्र रे ॥ तो तुमे जाग्य पोतात गो, परलो मतिदि उछालि
 लात्र रे ॥श्लो०॥६॥ प्रीडा प्रीडा मासा सुयणना, लेर करा व्ययसाय लात्र रे ॥ लात्र
 कमाडि लेदना, पोगो स्वजन समयाय लात्र रे ॥श्लो०॥७॥ इम कही चारे पुत्रने, थे
 मागा प्रीडा प्रीडा लात्र रे ॥ पंकेक दिन जोजन तुमे, केज्यो घरी मुजगीडा लात्र रे ॥
 ॥श्लो०॥८॥ ते वेडेने थाप थापणे, स्थानके ऋर ततंग्य लात्र रे ॥ घन अर्जन चिंता
 धरे, मनमं अति अहंमेग लात्र रे ॥श्लो०॥९॥ जोजन जकि जणी तदा, प्रथम दिने धनदण
 लात्र रे ॥ व्ययसायोधमथी करे, पिण फल जाग्यथी ऊजि लात्र रे ॥श्लो०॥१०॥ यतः
 ॥ मनशुभ्रानमः ॥ उद्यमं कृतंतां पुंगं, जाग्य मयंत्र कागणं ॥ ममुत्र मयनालेजे, हरि
 नंदमा हंगे निरं ॥१॥॥ ज्ञानार्थः-उद्यमकर्ता पुरुषानं वेधं वेकाणे, जाग्य कारणभूते ठे,
 कागणं के, ममुत्र मयन कग्याथी, हरि लक्ष्मीनि प्राप्त करता हया अंत शिय ऊरने मे
 लगता दगा. ॥१॥॥ बहुत्र प्रयाग थकी तिणे, लात्र लहो अति स्वडर लात्र रे ॥ निते
 जोजन डी निंगं, केजुं अतिदि अन्डर लात्र रे ॥श्लो०॥११॥ बाल जिया सविशेषथी, तेल

मही तैलिंगार लाल रे ॥ अथरादे खोजन शियो, तेडी निज परिवार लाल रे ॥ दो०
॥१२॥ तिम व्ययस्ताय घमी निदा, दिन बीजे धनदेव लाल रे ॥ जोजन चपलने तैलनो,
ते पिल ये हरयंगर लाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥ बीजे दिन धनचंदनी, करी उद्यम असमान
लाल रे ॥ स्वोर्गाजिन धनघा शिये, मारने तैल निदान लाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥ १॥ कुटुंब अ
घा अति आरुगो, तुष्टोदनपी। प्रशंग लाल रे ॥ उदर व्यथा अरु भाकरी, वायु प्रकार वि
शंग लाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥ १॥ अण्ये मुत ऊंगरा थया, शंग कहे तव तास लाल रे ॥ देखो
देवे धन मुमरने, जगत्य प्रवल सुप्रकान जाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥ १॥ मौन करीने ते रद्या, अण्ये
मुत रिय तास लाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥ १॥ जाल कही जली, जिन मन धरी वजमाल लाल रे ॥ शंठ० ॥ १॥

॥ दोहा. ॥ अथ चोथे दिवसे प्रवल, सज करी सत्रि शृंगार ॥ पितृ दत्त
माता मदी, हवे ते धनकुमार ॥ १॥ शुक्रन विचारी चित्तमें, स्वर साथी शुभ्र काम ॥
प्राण्यो चहुटे चौपटुं, व्यापाराथें ताम ॥ २॥ दोहीने नाणावटी, नेस्तीने मणीहार ॥
गांधी. सापरिया तिमज, लोहकार मोनार ॥ ३॥ फडिया मुखहिया बली, जोतो ऊबेरी
उर ॥ शरड चौपट प्रमुग्ना, पूजे पाड सतोड ॥ ४॥ मदेश्वर इत्येदाने, हाटे वेगो हेव

॥ नदी उग्रक उजाग्यो, गमर श्री गुरु देव ॥५॥

॥ वात्र व ही. ॥ (गुरांती ध्रं मने गोडे न राख्यो. ए वेदी.)

एहं देसांतरि एह प्रण्यक आयो, महेश्वरद्वज मन आयो हो ॥ मुजग सनेही
साजन, अचरित्र पंलो ॥ ए आंरुली ॥ लेव प्रनोपम तेणे तत्तकण दीयो, महेश्वरेकर
धरी लीयो हो ॥ मुजगण ॥ गुतरणे तेणे वचनत्र कीयो, मनद मनोरथ सीधो हो ॥
मुण ॥ नेलमं निल्यो मित्र मुमित्रे विचारी, स्थानपुरथी मुखकारी हो ॥ मुण ॥ उचर
द्विद्विथी ए गांध्र मूगे, सरत्र कयाणके पूगे हो ॥ मुण ॥ प्राये ठे ए पडवाणपुर पासे,
अरासायंत्रं यितामं हो ॥ मुण ॥ ॥३॥ तेद जगी एने तुमं सनमुख जाग्यो, जेट मूकीने
मित्र भाग्यो हो ॥ मुण ॥ दाय उपाय करी दाये करेज्यो, पठे क्रियाणक सवि लेज्यो हो
॥ मुण ॥ ॥४॥ तान घणो ठे एहमां सांजलो जार्ड, गोट नही ठे एहमां कांड हो ॥ मुण ॥ ए
क पांती अमंन तुमं देज्यो, पिण एह काज करेज्यो हो ॥ मुण ॥ ॥५॥ एहयो अयतर कि
रीने नही प्रांध, पणु पणु जिले दु थाये हो ॥ मुण ॥ पत्र गान्तीने महेश्वर मन हरख्यो,
मित्रने सांचो करी परख्यो दा ॥ मुण ॥ ॥६॥ निचमं चिंते एह कायं ठे मदेदो, उग्रकपणो
तं जेसे हो ॥ मुण ॥ एहमां हो घेए जड जोजन फीजे नीति वचन चिच लीजे हो ॥

॥१०॥३॥ पतः॥ अन्तर्दृष्टम् ॥ इतं विहाय लोकव्यं, सहस्रं खानमाचरेत् ॥ तदं
 विहाय वातव्यं, वीरिं स्थित्वा जिनं जनन् ॥१॥ नावायः--सो काम पट्टा मूर्धनि न
 म्, हज्जार काम पडता मूर्धनि तहानु, लार काम पडता मूर्धनि दान देतुं अने कोउ
 राम पडता मूर्धनि जिनराजने राज्या ॥१॥ एदयो प्राज्ञोन्वी ज्ञोजन ज्ञानी पहाल्यो,
 मोक्षर मन गहगदतो हो ॥१०॥ महेश्वरने जे पत्र पिवाण्यो, ते वने सवि 'जाण्यो
 हो ॥१०॥६॥ पन्नानुर दिचमांही विचारं, एह विज्ञ कुल हारं हो ॥१०॥७॥ ए व्यवसाय
 पी ज्ञानज घांश, सरुज कुंदुष संतोषांशो हो ॥१०॥८॥ चिंतव तणो इव समप न दीसे,
 सापं रुके सुजगीसं हो ॥१०॥ इमं चिंती मित्र मंदिर आयो, रुडो ते वेदा वनायो हो ॥
 ॥१०॥९॥ पतः॥ सनायां व्यवहारं च, वैशिशु श्वसुरोकनि ॥ आनंत्वाणि पूर्यंते, स्त्रीपु
 राजपुरेण ॥१॥ नावायः--सज्जाने शिषे, व्यवहारने शिषे, वैशियोने शिषे, सासराने घ
 र, स्त्रीपाले शिषे अने राजकुलेने शिषे आनंवर पूजाप वे. ॥१॥ अथ चहीने मित्रयुत
 मूल संगे, आन्यो प्रतिही नमंगे हो ॥१०॥ सार्थपने साहमो जर मित्रीयो, विनय वि
 पेके करी जतीयो हो ॥१०॥११॥ कुशलगम पृवी स्नेह जगायो, सार्थपने मन ज्ञायो

• राजतपी सरला अरुं बायो.

॥ सु० ॥ यस्तु क्रयाणक सवि साटवी लीधो, सत्यकार तस दीधो ॥ सु० ॥
 कार्य करी चिन आणंद पाये, धन्ना वेवो बढवने हो ॥ सु० ॥ एद्वेय महेश्वरवच सार्थप
 पासे, माये अधिक उद्वारसे हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ दुइलालाप पूठे हित भाणी, मुल कहे म
 दुरी वाणी हो ॥ सु० ॥ क्रय निकयतणी बात जणाये, सार्थप तय समजावे हो ॥ सु० ॥
 ॥ ४ ॥ धनसारेन्यने पुत्रे अमारो, प्रहो ए सर्वे सुचिचरो हो ॥ सु० ॥ देवो देवो ह्ये ए
 हनी सात्रे, एह धनदाता अमारो हो ॥ सु० ॥ १ ॥ महेश्वरवच कहे वांक अमारो, दोप न
 कोई तुमारो हो ॥ सु० ॥ भाइत भीधो तस फज लीधो, चिंतित राज न सीधो हो ॥
 ॥ सु० ॥ ६ ॥ यतः ॥ भालस्यं हि मनुन्याणां, इरीस्थो महानरिपुः ॥ नास्त्युद्यम समो वं
 धुः कल्यायं नावसीदति ॥ १ ॥ जावार्थः भालस ए माणसांना नाइ धना नश्री ॥ १ ॥
 वरी ठे, उद्यमना जेयो कोइ जाई नश्री, जे करवाथ्री माणसांना नाइ धन्य लान थ
 आइत सम कोइ धेरी न दाल्यो, नीतिमें एद्वयो जांख्यो हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ सार्थप महेश्वर विहु मिली जांगे,
 ज्ञाने दिवारो, काज अमारो सुयारो हो ॥ सु० ॥ ए सवि क्रियाणां अमने दीजे, लक लान थन लीजे हो
 धन्नागुं हित राखे हो ॥ सु० ॥ ५ ॥ धनपति चिंते मुज कारज सीधो, मे मनमान्यो कीधो हो ॥ सु० ॥ कए एक
 ॥ सु० ॥ १ ॥

भोजन विधि नली साचवी, संतोष्यो परिचार ॥च०॥१०॥ वली भोजाने नलां, चूय
ण विविध प्रकार ॥ मणिमय मन गमतां घणां, कीधां धनकुमार ॥च०॥११॥ एहमां गु
ण ठे अति घणा, जोवो हृदय विचार ॥ महर मूकी मन तणो, सेवो सुपरे सार ॥च०
॥१२॥ महर धर्यो मनमें घणो, कौरवे पांरुय साय ॥ तां ते दुःखीया अति थया, हा
र्या सपडी थाप ॥च०॥१३॥ व्रतमांहे महर धर्यो, पीठ अंन मद्दापीठ ॥ तो खीवेद जहो
इहां, झाली सुंदरी दीठ ॥च०॥१४॥ एहवा उपनय अति घणा, दाख्या शास्त्र मजार ॥
जिन कंहे सातमी दालमां, समजावे धनसार ॥च०॥१५॥

॥ दोहा. ॥ गुण लीजि गिरुआ तणा, नवि दाखीजे दोप ॥ जाति हीन पण गुण
धकी, पामे सुखनो पोय ॥१॥ जाति रूप हीणो इतो, हरिकेशी चंमाल ॥ तेहने तपना
गुण धकी, सेवे गुर नूपाज ॥२॥ गुण देवी ते अपूज्य ठे, गुणवंतो पूजाय ॥ उपनय इ
हां सहु को कहे, यायस कोयल न्याय ॥३॥ यतः॥ अनुदुवृत्तम्. ॥ काकः कृष्णः पिका
कृष्ण, को त्रैवोपिक काकयोः ॥ वसंतमास संप्राप्ते, काकः काकः पिकापिका ॥ १ ॥
ज्ञापार्थः—कागडो अने कोयल, एवे कालां होय ठे, त्यारे कागडो अने कोयल ए वेमां जो
फेर ? ते वसंतमास भविंठेते कागडो ते कागडोज रहेठ अने कोयल ते कोयलज रहेठे. ॥

॥ बाल ८ मी. ॥ (माननी मोहनरी रे, अथवा नयानो नाहलो रे. ए. देशी.)

क्षेत्र कहे सुत सांजलो रे, मनोहर मादरी बाल ॥ धन धन सागुजी रे ॥ शाल्यप्र
की में संझलो रे, अन्नोपम ए श्रयदात ॥ धन धन सागुजी रे ॥१॥ ए श्रांकणी. ॥ मुनि
वर एक महाबली रे, तपसीमें शिववार ॥४॥ पंच मदावत जालये रे, साचये पंचाचा
र ॥४॥१॥ नकायनी जयणा करे रे, पाले प्रवचन माय ॥४॥ मनु श्रांते बलगा धरे रे,
टाले चार कगाय ॥४॥३॥ मासखमयने पारणे रे, विकरण शुद्ध श्रदीन ॥४॥ गौच
रिये पद्मेत्यो तिदां रे, संयमश्री लयलीना ॥४॥ इर्यासमितिये चालतो रे, कोडक नगर
मजार ॥४॥ करतो शुद्ध गयेपणा रे, ते गयो इन्ध्र श्रगारा ॥४॥ श्राव्यो देवी सागुजी
रे, श्राविका थर उजमाल ॥४॥ पकानादिक जूजूभा रे, लायो जरी श्राद ॥४॥
॥६॥ स्वामीजी अनुप्रद करते रे, बहोरो एदज श्रादार ॥४॥ देवी मक्षोप ते सागुजी रे,
करे अन्यत्र विहार ॥४॥३॥ श्राविका चिच विलनी यई रे, वेवी घरने वार ॥४॥ एद
वे फिरतो गौचरी रे, भाव्यो अवर भणगार ॥४॥ सरलपणे विचरे सदा रे, गुणश्रा
हक गुण लीन ॥ अक्गुण एक जोये नदी रे, गुविहितशुं लयलीन ॥४॥४॥ धर्मश्राज
देई करी रे, कन्नो घरने वार ॥४॥ विकसित बढने श्राविका रे, बहोरोये ते श्रादार ॥४॥

ण चक्षि, ४ करजोडिने रे, पूढे मधुरी वात ॥धण॥ तुमने अप्रीति न करजे रे, तो ज्ञा
 ण रे ॥धण॥ १॥ तुम सरिलो एक साधुजी रे, भाव्यो हतो इणे ठाण ॥धण॥ विण
 ५दोर विनय्यो सही रे, नवि बोड्यो मुखवाण ॥धण॥ २॥ तेहनो कारण साधुजी रे,
 दारयो करीय पसाय ॥धण॥ तव बोड्यो मुनिवर तिहां रे, सुण जेइ सुखदाय ॥धण॥ ३॥
 ते मुनिवर महांटो यती रे, सम दम गुण संयुक्त ॥धण॥ व्रतधारक वारू परे रे, पंचेडिय
 धी गुप्त ॥धण॥ ४॥ दोष वेतालीश साचवे रे, एदणाना मन शुद्ध ॥धण॥ मंढलिक दोष
 ते पांचने रे, टाले ते अविहूद्ध ॥धण॥ ५॥ तिणे मुनिवर ए पिंढमां रे, दोष दीगो हसो
 कोय ॥धण॥ तिणे कारणे लीधो नही रे, सुविदित लक्षण ज्ञाय ॥धण॥ ६॥ यतः ॥ आ
 यांचूतम् ॥ सत्तरीरेवि निरीहा, वाहिप्रंतर परिगह विमुक्ता ॥ धम्मोयगरणमिंनं, वदं
 ति चारिणरक्खण ॥१॥ ज्ञावार्थः-पोताना शरीरने धिये इच्छा विनाना, वाह्य अने अ
 न्यंतर परिप्रदधी मूकाएला तथा चारित्रने रक्षण करवाना अर्थि एवा मुनियो, मात्र ध
 मोंपरकरणेज रागे वे. अर्थांत वीजुं काई पण पासे राखता नथी ॥१॥ ते मुनि सुरम
 णि सारिगा रे, हूं नूं लोणु समान ॥धण॥ हूं वायस ते हंस ठे रे, मुनि गुण रयण निधा
 न ॥धण॥ ३॥ हूं गंगाव त गज समो रे, हूं मृग मृगपति तेह ॥धण॥ उदरवृनि कारक

थमे रे, ते समता गुणगेद् ॥१७॥१७॥ इम स्तयना करी सायुजी रे, विचर माइयल
 मांह ॥१७॥ जिन करे आठमी दालमां रे, श्रोता गुणो उग्रद ॥ ध० ॥१७॥
 ॥ बोदा. ॥ सांजलीनि ते श्रायिका, हरखी चिच मजार ॥ प्रमुदितरणे आग्ले ५
 शुं, धन धन ए अणगार ॥११॥ निवा नदी एहंमं निकट, गुणप्रादक गंजीर ॥ डांत दांत
 शुचि भातमा, तारण तरण सचीर ॥२॥ कृपायंत कोविद प्रथम, आत्मशुद्धि अचिस्कार ॥
 सुविहित सायु शिरोमणी, रत्नययी नेमार ॥३॥ मासखमणने पारणे, पिण नयि लीये
 सक्षोय ॥ कायानी ममता नही, करे गुणयनो पोय ॥४॥ तिम वीजो पण सायुजी, गुण
 प्रादक विख्यात ॥ आप निवा पर स्तुति करे, धन धन एहनी मात ॥५॥

॥ दाल ए मी. ॥ (मन जमरा रे. ए वेडी.)

एह्ये एक बलि मुनि तिहां, मन हरखे रे ॥ फिरतो भादरने काज ॥ लाल गुण
 परखे रे ॥ आब्यो तेहने आंगले, मण ॥ ये धर्मलाज समाज ॥१७॥११॥ ए आंकणी ॥
 देव्यनि ते श्रायिका, मण ॥ बहोरावे भद्र पान ॥१७॥ पृठे भंजनी जोडने, मण ॥ विन
 यानत शुचि ध्यान ॥१७॥१२॥ अयुना सायु भाव्या हता, मण ॥ गौचरीये गुणवंत ॥१७॥
 प्रथम देखी पावे बड्यो, मण ॥ मुख नयि बाड्यो संत ॥१७॥१३॥ वीजो मुनि भाव्यो त

श, म०॥ वदोम्बो षत्र बाहार ॥ज्ञा०॥ तेहने में पूवयो तदा, म० ॥ पूवंगत व्यवहार
 ॥ज्ञा०॥३॥ गुण वर्जन तिले मुनितणा, म०॥ कीधा निपट प्रत्यंत ॥ज्ञा०॥ ते निमुली म
 न माहरो, म०॥ प्रस्तत्र पयो प्रति संत ॥ज्ञा०॥५॥ ए वे मुनिवरमें तुमे, म०॥ ज्ञांखो क
 रीय परसाय ॥ज्ञा०॥ अधिक गुले करी कुण हसे, म०॥ ते दाखो सुखदाय ॥ज्ञा०॥६॥ तव
 ते इति बोड्यो तिहां, म०॥ मनमें मछर आण ॥ज्ञा०॥ स्व प्रसंशा पर निंदता, म०॥
 करतो बोजे वाण ॥ज्ञा०॥३॥ मथस ते मुनि जन रंजवा, म०॥ मायाकारक जोर ॥ज्ञा०॥
 धूर्णपरे फिरतो फिरं, म०॥ न करे मुखधी सोर ॥ज्ञा०॥७॥ शुद्ध भशुद्ध गवेयणा, म०॥
 पर रचनेने हेत ॥ज्ञा०॥४॥ गलां जेरे, म०॥पिण नही धर्म संकेताज्ञा०॥८॥ बीजो
 जे श्राव्यो हतो, म०॥साधुने वेदो षत्र ॥ज्ञा०॥९॥ चटुक वचने करी, म०॥ वदय करे जन स
 रंत्राज्ञा०॥१०॥यतः॥मायावीया माणसां, केम पतीजण जाय॥मोरपीठ मधुरो लये, साप
 संपूढा खाय ॥११॥ज्ञा०॥११॥-जे माया कपटी माणसो वे, तेनी दी रीते परतीज पडे? केम
 केपीनायालो मोर मीधु बोले वे, परंतु पूंढा सहित सापने खाइ जाय वे॥१२॥ वंज रहित
 जे अनि ज्ञा, म०॥ धेराबारी साथ ॥ज्ञा०॥ सत्य वाक्य बोवूं सही, म०॥ विचरूं
 ॥ज्ञा०॥१३॥ षष्टात्रय बहोके सदा, म०॥ परिमित भवने पान ॥ज्ञा०॥

भ्रम सरिखा शुद्ध साधुने, मण॥ देजो सदा बहुरमान ॥लाण॥२॥ अम पिप पूर ॥
 मण॥ विरची माया जाल ॥लाण॥ जनरंजन कीथा ग्रणा, मण॥ हेये ते सवि विसराल ॥
 लाण॥३॥ इम कही ते मुनि संचखो, मण॥ नगरीमें तिणताल ॥लाण॥ यचन सुणी ते
 आविका, मण॥ पामी डुःख असराल ॥लाण॥४॥ चिंते एह्ठे निर्गुणी, मण॥ पासडा
 दिक डुष्ट ॥लाण॥ जे शुद्ध साधु निंदा करे, मण॥ ते कहीए निर्घुष्ट ॥लाण॥५॥ प्रथम
 साधु अति ही जलो, मण॥ सुविहितमां शिरदार ॥लाण॥ वीजो पण गुण रागीयो, मण॥
 जग जन तारणहार ॥लाण॥६॥ वीजो ए गुण मधरी, मण॥ पापी मांही प्रचान ॥लाण॥
 एहनो मुख अचलोक्ते, मण॥ डुकुत होये निदान ॥लाण॥७॥ ए दृष्टांत सुणी तुमे, मण॥
 मधर ठोडो पुत्र ॥लाण॥ मधर मूक्याथी सदा, मण॥ लहेसो यदा संवत्र ॥लाण॥८॥ इम
 धनसार अंगज प्रते, मण॥ समजावे अरुनीश ॥लाण॥ नवमी दाले जिन कंडे, मण॥

विनय वहे सुजगीश ॥लाण॥९॥

॥ दोहा. ॥ अथ धनसार तणा तनुज, अणिये मूढ मंदंत ॥ पितृदत्त शिखा सुणी,
 मनमें देय धरंत ॥१॥ अक्सर पामी एकदा, कंडे तातने जात ॥ मया करी मुज ऊपरे,
 सुणो तातजी वात ॥२॥ यंत्रे जे कारज कियो, तेहयो न करे कोय ॥ इण विधि उज क

रते श्रुके, जगमें हांसो होय ॥३॥ कागल वांची कपटथी, सार्थपने समजाय ॥ गजा वि
ना गौरव धर्यो, कख्यो सकल व्यवसाय ॥४॥ दाम काम जव ऊपन्यो, तव तिहां सत्यं
कार ॥ देई करनी मुद्धिका, जिम तिम राख्यो कार ॥५॥ एहवे वखते आवियो, इन्ध
मदेश्वरदत्त ॥ लक लाज देई करी, ग्रह्यां क्रयाणक ऊच ॥६॥ आज पठी हवे एहवो, नवि
करयो व्यवसाय ॥ तेह लाज शा कामनो, जिणे करी ईजत जाय ॥७॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (कपूर होय भति ऊजलो रे. ए देखी.)

निसुणी सुतनी वीनती रे, तव बोड्यो घनसार ॥ ए शी वात कही तुमे रे, अण
जाणी इणिवार ॥ पुत्र जी, समजो शील सुजाण ॥ तुमे म करो ताणा ताण ॥ पुत्र जी,
तुमे लदेशो डःखनी खाण ॥ पुत्र जी, समजो शील सुजाण ॥१॥ ए भांकणी ॥ दाम
विना पिए कीजीएरे, बुद्धि बले व्यवसाय ॥ घननो इहां कारण नहीं रे, सडु को कहीए
न्याय ॥पुणासण॥२॥ यतः॥ वलथी बुद्धि आगली, जो उपजे ततकाल ॥ वानर वाघ वि
गोरया, एकलडे शीयाल ॥१॥ व्यापारे घन हारवे रे, बुद्धि विना घनवंत ॥ बुद्धे सुर नर
यश हूवे रे, बुद्धे यश परंत ॥पुणासण॥३॥ घनकुमरे निज बुद्धिरी रे, लीधा लक बीना
र ॥ तुमने बुद्धि नहीं तीसी रे, जिणे करी होय जयकार ॥पुणासण॥४॥ हांस होय जो

नुम तणे रे, तो फिरी कते व्यतराय ॥ एकेको दिन भाजथी रे, जोजन जगत कराय
 ॥ पु० ॥ ॥ ॥ ॥ इम कही माया सुवर्णना रे, चारेने स्वयमेव ॥ चोदाव चोदाव थापीया
 रे, व्यापगमंत्रं हेय ॥ पु० ॥ ॥ ॥ सुख्य तनुज त्रिणये तदा रे, पहेल्या इणयागार ॥ फिरि
 याणां वीथां घणां रे, जाणी लाज अगार ॥ पु० ॥ ॥ ॥ कर्मचदो ते वस्तुमां रे, लाजना
 न रत्नो लाग ॥ अर्थो दाम नृब्यो तदा रे, अति उद्यमथी अजाग ॥ पु० ॥ ॥ ॥ जोजन
 विधि नृत्री गयां रे, त्रिणये द्विमे तेज ॥ शाम वदनथी ते तदा रे, वेग आवी गेह ॥ पु० ॥
 सणा ॥ अथ चोत्रं दिन साहमी रे, धनकुमार उदार ॥ शुक्रनादिक अयलोकन रे, निश्च
 य करे तिणियार ॥ पु० ॥ ॥ ॥ लाज होदो पशुथी जज्ञो रे, धारी इम मन धीर ॥
 नगरमां कौतुक जोगतो रे, पहेल्यो चोहटे सथीर ॥ पु० ॥ ॥ ॥ पशु क्रय आय ठेजी
 हां रे, तिहां भाव्यो निरन्त्रीक ॥ वेगो सस्थानक ग्रही रे, चावंतो सुख पीक ॥ पु० ॥ ॥
 ॥ १२ ॥ तेहने एक थाव्यो तिहां रे, हुंड वेगण नर कोय ॥ लक्षणा पूर्ण देखी करी रे, ली
 जो धमे सोय ॥ पु० ॥ ॥ ॥ एदने नृप जितदायुनो रे, अरिदमनात्रिध जात ॥ * मय
 ज्ञणी क्रीडाव्या रे, भाव्यो ते सुविख्यात ॥ पु० ॥ ॥ ॥ देखी 'उरत्र धना तणो रे,

† करिपाणा वादानो उराने. † शोकदो. * पांचपाणा सुवर्णआपीपेटोसीपो. † शोक्रदो. † बोकदो.

बोलाये नृप जात ॥ युद्ध करावीजे इहां रे, तुम अम ठाग साक्षात ॥ पुण॥ सण॥ १॥ ॥
 जीते जेहनो वोकडो रे, ते पामे धन लक्ष ॥ स्वर साधीने आदख्यो रे, पिण धने परतक्ष
 ॥ पुण॥ सण॥ १६॥ अन्योन्ये मस्तक थकी रे, घेटा युद्ध करंत ॥ हाख्यो अज अरिदम
 ननो रे, धन उरत्र जीपंत ॥ पुण॥ सण॥ १७॥ देखी पराक्रम अज तणो रे, चित्ते राजकुमा
 र ॥ ए हूड जो हुवे आपणे रे, तो लढीये जडा सार ॥ पुण॥ सण॥ १८॥ लक्ष दीनार देई क
 हे रे, ते अरिदमन आशंद ॥ ए आपो हूड अम प्रते रे, इप्सित युग्ने अमंद ॥ पुण॥ सण॥
 ॥ १९॥ धनकुमर कहे क्रीड्यारे, हूड राख्यो महाराज ॥ लक्ष मुख्य द्यो अम प्रते रे, जो
 तुम घेटा काज ॥ पुण॥ सण॥ २०॥ ततक्षण रायकुमर तिहां रे, देई लक्ष दीनार ॥ अज ले
 ईने चालीयो रे, परिवृत निज परिवार ॥ पुण॥ सण॥ २१॥ लाख द्योय धन लेईने रे, आव्यो
 धन आगार ॥ मात पिता हरपित हूआरे, तिम सघलो परिवार ॥ पुण॥ सण॥ २२॥ न्नव्य
 भोजन सवि सयणने रे, नक्ति विशयथ्री दीध ॥ ढाल दशमी श्रोता सुणो रे, जिन कहे
 पुण्यथ्री सिद्ध ॥ पुण॥ सण॥ २३॥

॥ दोहा. ॥ भोजन विधि करी नक्तिथी, शेष ह्य सुप्रकार ॥ भोजाईने भापी
 यो, बहचिने तिणिवार ॥ १॥ भोजाई लिये नामणां, दिनमें दो दो वार ॥ जीजीकार स

तदा जयं, स्वाग्ध जगमं तार ॥२॥ यतः॥ धाया भायो आवर त्रिये स्वर्णं रुप्यादि दृष्ट्वा,
 पांसु कोट्येभ्यः न द्विये निर्धनानां जनानां ॥ तुमे अमारे जीवितप्राणाः स्वार्थं एको द्वि
 त्रयं, धाल्या विना अमे कोण तुमे कोण स्वार्थहीनाश्च नर्दति ॥१॥ ज्ञानार्थः-सोनुं अने
 रुपुं ज्ञानं भाप पथांगे साह्रैव ! एवी गीतनो आवर आपे अने निर्धन पुरुषोने कोटि
 पांसु येसवा पण न दे. तमे अमारे जीवितप्राण वो, ए यथामां एक स्वार्थज सारो दे.
 स्वार्थं रक्षित पुरुषोने एम कदे ठेके, अमे कोण ? अने तमे कोण ? ए रीति सद्दु स्वार्थनी
 सगाइ ठे. ॥१॥ मयण सगज सुज उगरे, धन धन धन्नकुमार ॥ बुद्धिकी लक्ष्मी नरे,
 नहि भंजिण विगार ॥३॥ ते सुणि धनवजादि सुत, त्रिण्ये करे विचार ॥ धना आगत था
 पणो, किम चक्रदो व्यवहार ॥४॥ इम आलोचनी चिचमं, चीनवियो धनसार ॥ तात सु
 लो इक चीनती, अम मननी इणिचार ॥५॥ युद्ध प्रतिक्षाये करी, लाब्यो धन दे लक्ष ॥
 निष् जे पेटो सारतो, तो फल देत प्रत्यक्ष ॥६॥ अग्निचाख्यां एदयां करे, धृतादिकना
 यज्ञ ॥ तिणं करी ज्ञाणां गं दये, रक्षेदो नही घर लाज ॥ ७॥ तुमने लोचन कथ्यो घणो,
 तिणं ते गह्वर पाय ॥ जो जूळ्यो दुये अति घणो, पिण कर दय न जिमाय ॥८॥ ते माटे
 नरजो तुमे, ह्यप करी सुनिचार ॥ आज पवी एये एश्यो, न करे धन्नकुमार ॥९॥

॥ ढाल ११ मी. ॥ (माला क्यां ठेरे. ए देसी.)

कहे धनसार ते त्रिएय तनूजेने, ए तुम वात में जाणी, भाग्यहीनेने काई न सूजे,
 भाग्यवले सुखखाणी रे ॥ मछर मूको रे ॥ मादवथी सुखवास, ते मत चूको रे ॥ १ ॥
 ए थांकणी ॥ तुनने ए धनकुमर संग्गथे, पूर्य वेर कोई दीसे ॥ एहनो वचनादिक पिण
 तुमने, न गमे विसवाचीसे रे ॥मण॥१॥ यतः ॥ अनुष्टुबृत्तम्. ॥ यं दृष्ट्वावर्त्ते क्रोधः, स्ने
 हश्च परिहीयते ॥ सविज्ञेयो मनुष्येण, एय मे पूर्यं चैरिकः ॥१॥ भावार्थः—जेने देखीने
 कोय वधे ठे थने स्नेह घटे ठे, ते उपरथी माणसे एम जाणयुं के, जरूर भा पुरुप महा
 रो पूर्वजानो वैरी दशे. ॥१॥ धन अर्जीने सयण संतोपां, कारज उत्तम कीधां ॥ मणि
 मय आभूयण मन गमतां, भोजाईने वीधां रे ॥मण॥३॥ ए निस्पृह निज कुलनो पोयक,
 सद्गुं हित बहु राखे ॥ तुम विण सयल सयण ए सुतना, अह निशि गुण मुल जांखे
 रे ॥मण॥४॥ मछर मनमें अधिक धरंते, पंकप्रिय दुःख पान्यो ॥ ते दृष्टांत सुणो एक
 चित्ते, तस न थयो कोई कामो रे ॥मण॥५॥ नयरी अयोबा कोशल देशे, नृप काकुस्थ
 सोदावे ॥ न्यायवंत दाने अति शरो, राम समान कदावे रे ॥मण॥६॥ ते नगरीमें एक
 प्रजापति, पंकप्रिय इशे नामे ॥ खी पुत्रादिक परिकर परिधल, तिले करी सवि सुल पा

मेरे ॥म०॥३॥ पिण तिगमें ठे एक श्रयत्कण, गुण कोइनो नत्रि सांसे ॥ इव्याये करी
 ने सहु जनना, गुण ते श्रयगुण जसिरे ॥म०॥७॥ जो कोइनो गुण श्रयश्रयपणाथी, सां
 ज्ञे तो शीर वृत्ते ॥ पांच मिल जो गुणना रागी, तो तेहडुं श्रति रुसे रे ॥म०॥९॥यतः॥
 पिशुन कयाय न परिदरे, जो कीजि सो लक्ष ॥ श्रंवा गिरिमप्रे नसे, तो हि कयायणि
 गुल्ल ॥२॥ जायार्थः-जो कदि सो सारां काम करीए, तो पण चाडियो माणस कवापि
 कयाय त्याग करे नही. जेम थांयो पर्यंत उपर वसे, तो पण तेनी गोदली तो कयायेली
 न कयायंती ज रहे. ॥३॥ जो यारे कोइ सज्जन धइने, तो निज शिर 'श्रास्फाले ॥ वा
 र्यो केहनो न रंइ पापी, कोपे तनु परजाले रे ॥म०॥१०॥ यतः ॥ श्रायार्थवृत्तम्. ॥ क्रोयःप
 रितापकरः, सयस्योविंगकारकः क्रोधः ॥ वैरातुयंग जनकः, क्रोधेन सुगति हर्ताः ॥ ३ ॥
 जायार्थः-क्रोध परिताप उपजायनारो, सयने उडेग करायनारो, वैरनुं अनुसंधान करना
 रो श्रने सुगतिने हरनारो ठे. ॥३॥ तव तस पुत्र विचारे चित्ते, तातने वन मूकीजे ॥ तो
 गहूना मनमें सुग्न थांने, गृहकार्यादिक कीजे रे ॥म०॥११॥ इम निश्चय करी तातने ज्ञां
 ने, तुमे ह्ये वनमां पधारो ॥ इष्टेवयनुं नाम जपीने, निज श्रयतार सुधारो रे ॥म०॥

श्रवण मुजमें म्दोटी, राजि परगुण न सहू धई ओटी ॥रा०॥ राजि नित्य कलहो हुवे
बहु साथे, राजि तिले लाज न रही मुज हाथे ॥रा०॥६॥ यतः॥ अगणिङ्कतिथ नामसइ नि
जा, पिङ्कतिथ नामसइ पजा ॥ कुट्टिङ्कतिथ नामसइ जजा. अश्वोलंतिथ नामसइ लजा
॥१॥ ज्ञावार्थः—फेरव्या विना विद्या नाश पामे, पीडवा थकी प्रजा नाश पामे, बहु मार
वार्थी ज्ञार्थी नाश पामे श्रने घणुं बोलवार्थी लजा नाश पामे. ॥१॥ राजि तय आलो
ची निज मनमें, राजि तय वास कीयो ए वनमें ॥रा०॥ राजि निज पिंज जणी प्रतिपा
दू, राजि मनथी उदवेगने टालू ॥रा०॥३॥ राजि मुणी वाक्य ईशां भूपाले, राजि चित्ते
तव चित्त विचाले ॥रा०॥ राजि देखो एह दुःखीयो दीसं. राजि एतो दुःख पामेठे रीसे
॥रा०॥१॥ राजि पिण एह माहरो उपगारी, राजि मुज सेवा कीधी सारी ॥रा०॥ राजि
श्रवसर लही जेह न चूके, राजि सज्जनता पिण नधि मूके ॥रा०॥९॥ राजि तेदनी जइए
बलिहारी, राजि तस कीजे सेवा सारी ॥रा०॥ राजि कीधा गुणने जे लोपे, राजि तेहने
परमेश्वर कोपे ॥रा०॥१०॥ राजि एणे श्रत्र उदक मुज दीधो, राजि एणे जीवित कारज
कीधो ॥रा०॥ राजि बली सुंदर स्थानक आपी, राजि मुज सेचे ठे गुणव्यापी ॥रा०॥
११॥ राजि हवे एहने सुखीयो कीजे; राजि उपकृति गुण संजारीजे ॥रा०॥ राजि उर

ण अडेये एणे टाणे, गजि तो यटा जगमें गहु जाले ॥ गण ॥ १ ॥ यतः ॥ आर्यायिजमः ॥
 दो पुगिमे धरणी घेरे, षट्ठगा दोणहिं धारिया धरणी ॥ उययांग जस्स मंडे, उययांरं जो
 न उडेउं ॥ २ ॥ नागायेः—जगवने निये ये पुरुयो धरतीन धारण करनारा ठे. अयया वे
 पुरुसां गे पृच्छी भागण करायंठे. तेसां एरुता एके, जेनी उरकारा नो वडो गज्जे ते. ॥ ग ॥ राजि इम
 धी जे जे उरकार उडेउं नदी ते. एट्ठे केजे उरकारा नो वडो गज्जे ते. ॥ ग ॥ राजि इम
 विज विंती नृप वंजे, गजि पंरुप्रियथ्री निज रिज गोले ॥ ग ॥ राजि तुं गाचो धंथय
 मझांगे, गजि तिण मांटे नगर पयांगे ॥ ग ॥ ३ ॥ गजि दुने अग्न वग्न वहु वेडूं, रा
 जि यली नगनि निडोरे केडूं ॥ ग ॥ गजि ग्हे ाने 'मदन गजोडां, गजि वेडूं वहु दा
 श्री पोडा ॥ ग ॥ ४ ॥ गजि मुह मागी लग्गमी लेगो, गजि मुज पासे वेवा रहग्यो ॥
 ग ॥ गजि नुम पूग्य वात जे केडो. गजि ते तो तस्कर दंरु लडेडो ॥ ग ॥ ५ ॥ गजि
 इम क्ली नृप ययो अगवागी, गजि पासे पंरुप्रिय पुंजकारी ॥ ग ॥ गजि निज न
 गरी नणी जय नांजे, गजि तय मेना भित्री ममकांज ॥ ग ॥ ६ ॥ राजि मंत्री सामंत
 मंगेसा, गजि धारीने थया सह जेजा ॥ ग ॥ राजि इम वाग्मी दाल ए जाली, राजि

जिन कहे पुण्य सखेले नाखी ॥ रा० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ चालंते वनमें नृपे, दीठी कन्या एक ॥ बृके बोरा वींशती, कुडापरे
थई ठेक ॥१॥ मृगनयणी चंचाननी, चंपकवरणी देह ॥ देखी नृप चित चितवें, अं रति
रंजा एह ॥२॥ के वलया मुजने इहां, आवी ठे वनदेव ॥ के इंद्राणी अयचरा, रमया का
रण हे ॥३॥ रूपयंत रत्नियामणी, शामामें शिरदार ॥ पूछुं एहने प्रेमअं, नाम वाम सु
प्रकार ॥४॥ इम चिंती पूछे नृपति, ते वाजा प्रते ताम ॥ रे जई मुजने कहे, नाति
नाम तिम वाम. ॥५॥

॥ दाल १३ मी ॥ (योगिणी मनमानी. ए देशी.)

तव बोली वाजा मुकुमाला, करी लाज धुंघट सुधिशाला रे ॥ कामिनी मन मानी ॥
अहे भूनाथ सुजो मुज वाणी, हुं रे कहुं मुज कर्म कदाली रे ॥ कामिनी मन मानी ॥
॥१॥ ए आंकली ॥ अंगदेश चंपानो यासी, मुज तात हुतो सुग्यासी रे ॥ काण ॥ निर्या
मिक धिया अच्यासी, तत तनया हुं वूं तुम दासी रे ॥ काण ॥ नाम खल्का मुज ताते
दीधो, मुज यतन घणो तेण कीधो रे ॥ काण ॥ तातजी मुजने लेई संगे, चाढ्या जलचट
वाटे रंगे रे ॥ काण ॥ ३ ॥ देवप्रयोगे प्रवदश जंग्या, एक फलग दाश्रे तव लाग्यो रे ॥ काण ॥

तिणे तरती तरती उपकळे, आनी हूँ समुद्रं केवे रे ॥काण॥ ४॥ ईण यनमं रद्दी काल
 गमायुं, वननां फल वृक्षने खानूं रे ॥काण॥ ब्रत तात सनि ग्हा परवेदो, हूँ एकाकी ए
 णे वेदो रे ॥काण॥ राय मुणी मन प्रमुदित थावं, तय मंत्रीने समजाये रे ॥काण॥ ए
 कन्यानां यत्न करेज्यो, लेईं बाहनी मांडी घेरज्यो रे ॥काण॥ ६॥ राजा कुठाले नगरे
 आव्या, घणां जीत निठान वजाव्या रे ॥काण॥ रूप अधिक गव्दानो जाणी, तस राये
 करी पटराणी रे ॥काण॥ ७॥ हिन घरी नाम लोलायती थाप्यो, वद्वि आरंवर बहु था
 प्यो रे ॥काण॥ कामजोग तिगंमंती विलने, राय अहनिदि मनशुं हग्ये रे ॥काण॥ ८॥
 पंकप्रियने पिण मनमान्यो, कीधो गुण ते सवि जाणयो रे ॥काण॥ असन विसन थाया
 म अनेग, दीया तम अतिहि जलेरा रे ॥काण॥ ९॥ गाममं पडह वजाव्यो जाणी, सहु
 मांजलज्यो सुप्रमाणी रे ॥काण॥ पंकप्रिय गव्का यात जे कडेदो, ते तस्कानो फल वहे
 शे रे ॥काण॥ १०॥ मुग्य विलगंतां दियस गमांय, पुनरपि वली ते कुतु थावे रे ॥काण॥ रा
 जा रयवाडीए जाये, गणीयुत अति वडदाये रे ॥काण॥ ११॥ सांय्र पंकप्रिय पिण थावे,
 तय राणीने राय बोलाये रे ॥काण॥ 'वदरी वृक्ष देखीने पूजे, एहनो नामने गुण कक्षो

न्योतेरे ॥११०॥२॥ राणी कहे तव वृक्ष ए केहनां, हे नाम न जालुं एहनां रे ॥का०॥
 एहनां फल कहे प्रिय कृण राये, मुज मनमें अचरित्त थावे रे ॥का०॥३॥ निसुणी चटक
 पायी पंरुप्रियने, केहे ईम शुं कहे ठे एहने रे ॥का०॥ मुजथी गिण बोड्युं न रहेवाये, ए
 ह वचन ते सिम संदवाये रे ॥का०॥४॥ ईम कही निज मस्तक आस्फाले, अदी इट्टप
 व थरी ततमाले रे ॥का०॥ पाखन ठेद दायक जाले, मन शंरु किदी नवि राखे रे ॥
 गा०॥५॥ पतः॥ काले वारां वीणतां, आज न जाले खस्कर ॥ पुनरपि अटवी करीश
 पर, पिलन सह ए प्रलसक ॥१॥ नृप अवदात सुर्णी मन कोप्यो, इले वचन अमारो लो
 प्यो रे ॥का०॥ मे लीलावर्तनाम आरोप्यो, एणे खस्का नाम नलोप्यो रे ॥का०॥६॥
 मनपी ताज बले नही जेहने, शुं कीजि कहो देवे तेहने रे ॥का०॥ पुनरपि अंतारे लेई
 मूयो, ते मयला मुरथी चूयो रे ॥का०॥७॥ पूर्वपरे तृण गृह करी वेगे, पिण चिंता
 सागरमां पेजे रे ॥का०॥ व्याघ्र आवी जय शब्द सुणोये, तय पंकप्रिय दुःख पावे रे ॥
 का०॥८॥ मरण जये तेले 'गनां कीधी, लयु मुखपी मुपरे सीधी रे ॥का०॥ संध्या स
 मये तेहमां पेसे, अंग संतुलित करी वेमे रे ॥का०॥९॥ छाड पकी वाहिर जय भावे,

तय मरण समय तस श्राने रे ॥१॥ गाथा ॥ गाथा ये लिखे ते चिह्न पास, पुत्र आया याच
 न्यासे रे ॥१॥ गाथा ॥ गाथा यथा ॥ आर्यावृत्तम् ॥ ॥ गद्य ज्ञेयण पवित्रे, तुहाहच निगमं
 मि श्रसमद्यो ॥ श्रटयसद्यो वसच, पुत्र य पत्तो अहं निदणं ॥ १ ॥ जायाथः—याचना ज्ञय
 श्री खाडमां पंगतो, दुयाये पीडाण्तो, खाडमांथी वहार नीकलयाने श्रसमर्थ श्रने आ
 हट दोदट चिचयालो एयो इ मरण पामुहुं ॥ १ ॥ इह लोमंमि डुरंतं, परलोग वियाहगे
 डुदुनियामे ॥ वद वयणेणं पाने, वज्जिजा पुत्र आणखं ॥ १ ॥ जायाथः—य रूप वचनथ्री
 जीन भा लोक श्रने परलोकने विपे डुःखना विपाकने पामे. ते कारण माटे हे पुत्र ! त
 मे श्रदेव्याश्नो त्याग करजो. ॥ १ ॥ ते गाथानो श्रथ चिचारी, शया धर्मतणा श्रधिकारी
 रे ॥१॥ अणव्य श्रदेव्याई दूर निचारी, उपेवडा अनोपम धारी रे ॥१॥ पंकप्रिय
 पेरे तुम डुःख लहडो, जो मद्यर मनमां वदडो रे ॥१॥ कहे धनसार सुणो सुत सा
 नो, ए वातमें काई न काचो रे ॥१॥ तेहजणी मन मद्यर चारी, धरो प्रीति घ
 नाथी सारी रे ॥१॥ तेरमी दाल कही मुचिचारी, जिनविजये श्रति जयकारी रे ॥१॥
 ॥ दोहा. ॥ तय बोड्या विणये तनुज, साच कही तुमे वात ॥ अणव्य श्रदेव्याई
 तणां, फल विरुमां सहि तात ॥ १ ॥ अमे कडुं दुं हित वचनथ्री, दूत व्यसन डुःखदाय

॥ इहलोकें ईजत पेटे, परन्तुच पिण न खटाय ॥२॥ होड न कीजे होंश्या, होड अकी
 धन दाण ॥ नतराजा होडे करी, पास्यो दुःखनी साण ॥३॥ पांढ्य पांचे वन वट्या,
 होडे तारी राग्य ॥ मात वपसन मांही प्रथम, एहिज कार्य अकार्य ॥४॥ यतः ॥ उप
 जतिजगत्, ॥ दूतं १ च मांसं ७ च मृग ३ च वट्या ४, पापडिं ५ चोरी ६ परदार
 सेवा ७ ॥ एतानि सप्त व्यसनानि लोकं, घोरान्घोरं नरकं नरपति ॥१॥ जायार्थः—जू
 वटुं, मांस, मदिरा, वट्यागमन, भांडईकर्म, चोरी अने परस्त्रीगमन, आ सात व्यस
 नां प्रति पोर नरकंने विरे लेई जाय ठे. ॥१॥ जे माटे ए होइथी, लाव्यो धनवे लक्ष ॥
 प्रमने ते कारण धर्या, हेर कथे परतक्ष ॥५॥ तात कहे तमे दूतनी, वात कही दित
 यात्रा ॥ पिण जुंढ करी लोजिज, वंजित सिद्धि समाज ॥३॥ जाग्यत्रले जुंढ करी, चिंतित
 कार्य करंत ॥ जाग्यहीन उयम कर, ते सवि निष्फल जंत ॥७॥

॥ जाल १४ मी. ॥ (तें तरिया जाई, तें तरिया जाई. ए देदी)

कहे धनसार सुणां रे पूता, तुमे कां एम विगूता रे ॥ कुमति रूप कावयमां गूत्या,
 बोलां वो जेम दूता रे ॥ कहे धनसार सुणो रे पूता ॥१॥ ए भांकणी ॥ जाग्यहीन तुमे
 परतत दीसे, शुं कहीए करि रीसे रे ॥ मूल रूप संज्ञागे लीसे, पठे जांखो मुजगीसे

रे ॥ कहेण ॥ ७ ॥ थोंडा तुमारे ठे हज्जी विलमं, व्ययसाये धन चर्या रे ॥ इम कही
 'दात दात मासा भापे, व्यापारादिक कर्या रे ॥ कहेण ॥ ३ ॥ तय त्रिणये ते मासा लेई, दो
 डीचटमां थारे रे ॥ वल मनोरम चणये दातनां, लेई ग्रंथी थंयां रे ॥ कहेण ॥ ४ ॥ चंटे
 भावी निज विमामी, एक गयो जल पीया रे ॥ एक तिळां क्रीडाविधि निगले, एक म
 शुनीने कर्या रे ॥ पहेण ॥ ५ ॥ एद्वेचे तस्कर मयसर जाणी, ग्रंथी लेई नांवा रे ॥ वल थ
 कां तेले त्रिणये थूत्या, हवय करीने काजो रे ॥ कहेण ॥ ६ ॥ त्रिणये मिली ते वस्तुनें जाये,
 गूणे कजा गंवे रे ॥ ग्रन्योन्ये अत्यंत विगोवे, लाज पोतानी खोवे रे ॥ कहेण ॥ ७ ॥ का
 जना मम निज वदन करीने, गृहमें थावी वेसे रे ॥ तात वात जाणी मन चिंते, शुं
 देणे निव्वल्ल दंडो रे ॥ कहेण ॥ ८ ॥ चोत्रे दिन धनकुमर विचारे, चतुर शुक्रन स्वर धारे रे ॥
 काष्ठरीठ चंटे मलपंतो, व्ययसायाथें पयारे रे ॥ कहेण ॥ ९ ॥ एद्वेचे त नगरे व्ययहारी, धनप
 ति नामे कहावे रे ॥ वायठ कोडि विनार तणो पति, कृपणमें सुख्य सोहावे रे ॥ कहे
 ॥ १० ॥ फाट्यां थूट्यां वध पूराणां, परनां लेई उठे रे ॥ तुष्ट अन्न मायादिक खावे, 'ऊ
 वरले नित पोठे रे ॥ कहेण ॥ ११ ॥ कहे घृत ठामे तैलादिक जीमे, मुनिपरे स्नाननो त्यागी

१ मो सो पाया मुखणं. * अस्त्रादिक. † काई पाथल्या विना गृहं रे.

रे ॥ तांशु गमे कसेतो लेवे, परगृह प्रोजन रागी रे ॥४०॥१२॥ देवतणो दर्शन न
 वि गंठे, देव इत्यने चाहे रे ॥ गुरुने गृहमें परमण नापे, गुरुनुं लेण उमाहे रे ॥४०॥१३॥
 निरुणर देखीने भापे, चार दई समकालं रे ॥ बली विद्यापे गजहथ देई, संतोपे तस
 गाले रे ॥४०॥१४॥ कांडी व्यय करं कोईक काजे, तो विषमग्वर आवे रे ॥ दान देतां
 देगे जो ततरुण, मस्तक पीडा थावं रे ॥४०॥१५॥ देवानी तो वात न जाणे, लेवा
 यज्ञा गुरो रे ॥ निंदा करवा तत्पर थापे, पाप धकी ते पुरो रे ॥ ४०॥१६॥ यतः ॥
 ॥ मास्त्रिनीकृणम्, ॥ कणकण त्रिम मेले कीटिका धान्य करो, मयुकरी मयु संचे ज्ञो
 गे को भनेरो ॥ तिम धन कृषिकेरो नोपकारे दिवाये, इम हि विज्ञय जाये श्रन्यथा अ
 न्य रापे ॥१॥ ज्ञावार्थः—जुठ! कीडियो दाणो जेगो करीने धान्यनो संग्रह करे
 ठे, माखीउ टोपे टोपे करी मधनो संचय करे ठे. परंतु ते धान्यने अने मधने जेम वी
 जो कोई जोगये ठे, तेम रुपलनुं धन पण उपकारने विपे न अपातां, एमने एम जंतुं
 रडे ठे अथवा वीजो कोई खाई जाय ठे. ॥१॥ पाणिगृहणादिक कोई कामे, उत्तम ज्ञो
 जन रागि रे ॥ संपन न करे ते वीजे दिवसे, अतिसार तस थावे रे ॥४०॥१७॥ पुत्रने

• साधनीया कपुका.

पिण एक पैसो नापे, कण कणथी धन मेले रे ॥ सयण कुटुंब मिला साथ तदन,
मांतंग माहि जेले रे ॥१०॥ मरणतणो जय मनमां न गणे, न गणे सुजस सया

इ रे ॥ चीदमी दाले जिन इम जाले, कृपणनी कुटिल कमाई रे ॥११॥

॥ दोहा. ॥ चित्तं चित्ते कृपण ते, लोभज्यो धरी गयो ॥ वज्र करी मादरा पुत्र ए,
रखे लीए धन सर्व ॥१२॥ इम शालोचीने तुरत, लीयां रत्न उदार ॥ वाशठ कोडि दिना

रना, स्वड्यपणाथी सार ॥१३॥ मंचक जूधी करायने, कोरी घाड्यां तुरत ॥ सयनासन

ते ऊपरे, कृपण करे दिन रात ॥१४॥ इम करते तस एकदा, माव्यो अंगे रोग ॥ धन व्य

यथी वीदतो थको, न करे श्रीयय योग ॥१५॥ मरण समय निज पुत्रने, तेडी करे थर

दास ॥ में धन कोडिगमे विपुल, विजडया जोग विलास ॥१६॥ इम कहेतो ते

तीय परे मुज साथ ॥ प्रतयने संस्कारज्यो, शेष सकल तुम साथ ॥१७॥ बोढा

मृमति, पर्यंके तिलिवार ॥ विजगी मूर्छंगत थयो, पहोत्यो जम भागार ॥१८॥ बोढा

यो नूटे नही, मृतक खाटथी जाम ॥ तव तेहनी स्त्री तनुजने, कहे निसुणो गुणयाम

॥१९॥ खाट सहित एहने तुमे, करो अधि संस्कार ॥ सुणी कृपण सुत तेहने, लई चा

* चंमात्र. १. स्मनान भूमिमां. २. बाकी रहे ते तमे लेग्यो.

कहे वचन अमंद ॥ पू० ॥ १५ ॥

॥ बोहा. ॥ पंचाचार विचारधर, परिवृत बहु परिचार ॥ क्रिया कुशल विद्या बहू
ज, रुद्रचार्य गुणधार ॥१॥ चार सायु ते गछमें, सुविवेकी सुविख्यात ॥ वानादिक जिन
धर्ममें, शोभनीक साक्षात ॥२॥ बंधुदत्त मुनिवर प्रथम, ज्ञानतणो जंभार ॥ पटदर्शन
ना शास्त्रनो, जाणे सकल धिचार ॥३॥ वादलब्धिप्री विविध परे, जीत्या ताकिंक जो
र ॥ जितकाशी जिनशासने, विरुद वदे कधि मोर ॥४॥ प्रन्नाकराख्य बीजो जलो, त
पसीमें शिखार ॥ मासखमणने पारणे, अविछिन्न व्यवहार ॥५॥ कनकावली रत्नावली,
वज्रावली विचित्र ॥ सिंहनीक्रीडित तप प्रमुख, आराधे सुपवित्र ॥६॥ त्रीजो सोमिल
नाम मुनि, निमित्तशास्त्रनो जाण ॥ कालधय वेत्ता निपुण, श्रुतज्ञानी सुप्रमाण ॥७॥
कालिक नामे मुनिवरू, क्रियापात्र शुचि गात्र ॥ चोथो चिहुं गति टालया, पाले प्रयचन
मात ॥८॥ चारे साधु शिरोमणी, रत्नधय जंभार ॥ पंचाश्रव दूरे करे, निर्मम निरदंका
र ॥९॥ गुण देखीने जन सकल, करे सेवा सतकार ॥ मान दान मुनिवर प्रते, साथे
विविध प्रकार ॥ १० ॥

॥ दाल १६ मी. ॥ (श्री जिनशासन जग जयकारी. ए देखी.)

रुद्राचार्यं ता मुनिर पूजा, देवनि दुःख पाये रे ॥ मध्यस्थी मन एम विचारे, ए
 हंमं द्यो गुण नाये रे ॥ अणिव्य तजो रे, अणीव्य तजो रे ॥ अणिव्य थकी दुःख लदीए
 रे ॥ पापस्थानक ए दुःखवाता, ते साचो सहहीए रे ॥ अणिव्य तजो रे, अणीव्य तजो रे
 ॥१॥ ए आंकणी ॥ हू आचार्य सकल गुण वरीयो, विद्यामृतथी जरीयो रे ॥ पंचाचारा
 दिक अनुमरीयो, तप जप संयम वरीयो रे ॥ अणिव्य ॥२॥ सुत्र मूकीने एदने बहु जन,
 बहु मानादिक भापे रे ॥ यदा विस्तार करे सवि अद निशि, गुणमंदिर करी थापे रे ॥
 अण॥३॥ एदयो मअर अद निशि रागे, जन आंगं पिण जांगे रे ॥ गुण लेने नहि निया
 दिकनो, तेदने नृण सम वागे रे ॥ अण॥४॥ एदने कुमुपुरे पर्यायी, पटशाखी मद्र ज
 रीयो रे ॥ पटदोना नादने जीते, गत्र थकी परवरीयो रे ॥ अण॥५॥ जीतकाडी अई
 जेनजतीनि, निंदे मअर मातो रे ॥ टाँटोटी परे मन मद्र रागे, शिद्यमतथी अति रातो रे
 ॥ अण॥६॥ कुमुपुरेधी संघे भिल्लनि, सागु दे शीघ्र पठाया रे ॥ रुद्राचार्य समीने ते पि
 ण, विदार करंता आया रे ॥ अण॥७॥ यात करी आचारज आंगे, जो वादी जीताये रे ॥
 तो जिनदासन केरी उन्नति, अधिकी सहुंमं थाये रे ॥ अण॥८॥ सांजली रुद्राचारज ति
 णि दिसे, ततरुण कीध प्रयाणो रे ॥ हीन शुक्नथी विलंब विचारे, बहुश्रुत देणे दाणो

रे ॥ अ० ॥ १० ॥ बंधुदत्त निज साधुने प्रेरे, ते वादी जनिवारे ॥ गुरुज आगे तेज न मोद्रे,
 ओ श्रीजे सर बंधारे ॥ अ० ॥ १० ॥ तिम ते सूर्य समोचड मुनिवर, पाटलीपुत्रे प्रेरे ॥
 राभारनामो वादस्थरधी, परवादीने हरांचे ॥ अ० ॥ १० ॥ सौगत मतवामी ते वादी,
 कृष्ण क्षयता मत धांचे ॥ स्यादवादथा सुपरे तहने, उत्तर उत्तम धांचे ॥ अ० ॥ १० ॥
 समजांचे तस न्याय निगुणथा, कुमति कदाग्रद ठेसारे ॥ शिवमारगने जो तुम बंधो,
 तो जिनमतसु रड मंसां ॥ अ० ॥ १० ॥ वादा नमाने मुनिवर चरणे, मान तेजे तिलि वे
 सां ॥ जैनतलो जय जय सट् बोल, जैनमतां धरे जेलां ॥ अ० ॥ १० ॥ अनुक्रमे रुजा
 चारज चरणे, बंधुदत्त मुनि धांचे ॥ संध सकज मिजां ते मुनिवरना, विरुदावली वो
 सांचे ॥ अ० ॥ १० ॥ वादी कंदलां कृपाण नूं सांचो, वादी गज शिर सिंह रे ॥ वादि गरु
 ड गौरिद विपद नूं, वादीश्वर मांही लोहर ॥ अ० ॥ १० ॥ वादी धृकने जास्कर सरिखो,
 वादी कर कृशलो ॥ वादा गोधुम धंष्ट विराजे, वादी जन नृपालो ॥ अ० ॥ १० ॥ म
 रस्यति वेडाजरण नूं सोह, जिनदासन शिखगारो ॥ सोलमी बोलें जिन इम जांचे,
 दुष्टे विरद उसांचे ॥ अ० ॥ १० ॥

* दोहांचे, ० दुर्नित्य धांचे, १. केजने बापरा घांटे स्वर्ण बेबां. २ पडें. ३ पंथो.

॥ दोषाः ॥ धर्मजनना मुग्य अक्षी, गुणि विरुदावली सार ॥ यमयमाया राय
 क्ली, मन्त्रानांयं निणिगार ॥ १ ॥ सायाडी ते सायुने, देवी तो रही दर ॥ पिण मउरथ्री
 रुन्ने, कोप चढ्यो नएर ॥ २ ॥ बंधुदुज ऊंवां अयो, देवी गुरु अपमान ॥ संये पिण

आचार्यनो, मउर ललां अगमान ॥३॥

॥ गाल १३ मी. ॥ (इंर आंचा आंचली रे, इंर दाडम डाण. ए देडी)
 एद्वे संकितनपने रे, कृपापाल विख्यात ॥ नृप हिसक ते अति घणो रे, असत्य
 वन अयदात ॥ नेरगर, पापी मांठी प्रयान ॥ नरक तणो ए निदान, नेरसर पापी मां
 ही प्रयान ॥१॥ ए आंकणी. ॥ पंचाश्रय पूग करे रे, मियांल्य शुति राग ॥ अश्वमेव
 अत्रमेगना रे, नग्मेधादिक याग ॥ न०॥३॥ दान दीये 'याडन प्रते रे, जाणीनि गुरु जोग
 ॥ तिल तैलादिक नृकन्यका रे, लयणादिक दुज याग ॥ न०॥३॥ जेनतणो देवी घणो रे,
 सायुनि थे अति डुःख ॥ परदेडी राजा परं रे, पापतणो करे पोय ॥ न०॥४॥ साकेतनपुर
 परल्ल्या रे, उपमर्ग कगी माधु ॥ नीजाना मुनि मृग कला रे, विचरे सदा निरावाय ॥
 न०॥५॥ रुजनायं ते अन्यया रे, सांजड्यो ते अधिकार ॥ तग सोमिल मुनि चोत्रिया रे,

अनुमति यो एह सार ॥न०॥६॥ गुरु षाड्माथ्री आवीया रे, साकेतनपुर मांदि ॥ गुप्तपणे
मंत्री परे रे, पहेत्या अतिहि उर्छांदि ॥न०॥७॥ पुष्य नक्षत्रे निपाईया रे, जूपे लुवन उ
शर ॥ वसगानी वेला ज्ञणी रे, पूष्या विप्र तिवार ॥न०॥८॥ नृपने वसवा मंदिरे रे, जे
दिन बाह्यो विप्र ॥ सोमिले मंत्री आगले रे, उत्राप्यो ते क्षिप्र ॥न०॥९॥ यामिनी मध्य
समय सदी रे, आशे विद्युत्पात ॥ नृप मंदिर पडशे तिले रे, जोज्यो ते साक्षात् ॥न०
॥१०॥ मंत्रीये सवि जूपने रे, ज्ञाप्यो तेह वृक्षांत ॥ राय कहे मंदिर तजी रे, रहिजुं जई
एकांत ॥न०॥११॥ रात्रि समय नृप मंदिरे रे, विद्युत्पात ते आय ॥ देखी नृप विस्मय
अयो रे, प्रशंसे मुनिना पाय ॥न०॥१२॥ धर्मोपदेशे ईई करी रे, कीधो समकितवंत ॥
गाडव मान मदन कीयो रे, नैमिच शास्त्रधी तंत ॥न०॥१३॥ वंयुदन परे आवीयो रे,
आमंवरथी पूर ॥ शोभा तेहनी सांजली रे, कोप्यो ते रुचसूर ॥न०॥१४॥ प्रजाकर तप
सी जलो रे, कालिक तिम क्रियावंत ॥ देखीने गुण तेहना रे, स्तवना करे सहू संत ॥न०
॥१५॥ ते श्लाघा रुचचार्यने रे, सांजलतां न सुहाय ॥ तिणे करीने चारे मुनि रे, शिथि
लाचारी ते थाय ॥न०॥१६॥ गद्य शिथिल गुणथी अयो रे, व्ययहारे पिण दीण ॥ सरो
वर पिण फाटे सदा रे, पाल देवे जो स्वीण ॥न०॥१७॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम्. ॥ राज्ञिथ

मिणी धर्मिष्ठाः, पापे पापाः समे समाः ॥ राजान मनुजन्तं, यथा राज्ञास्तथा प्रजाः ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—धर्मिं राजा वते प्रजा पण धर्मिष्ठ थाय. पापी राजा वते पापी, सम वते स
 म; ए रीते प्रजा राजनि अनुसरीने चाले वे, माटे जेवो राजा तेवी प्रजा. ॥ १ ॥ गुणान
 गमे तस कोयनो रे, थाप मुरारी थाय ॥ तिले करी रुद्रचार्यनो रे, पापे करी मुरलोकमं
 न ॥ १ ॥ किडियप ध्यानशकी मरी रे, श्रयो किडियप मूर तेह ॥ पापे करी मूर तेह ॥ रो
 रे, पेसी न शेके जेह ॥ न ॥ १ ॥ तिहंश्री चधि ब्राह्मण कुले रे, दोदो मूक दरिद्र ॥ रो
 गाक्रांत दुःखी घणो रे, व्यसनादिक डात विद्र ॥ न ॥ १ ॥ जय पूरण करीने पणे रे, ज
 मशे जयजल मांय ॥ कर्म हय करदो यदा रे, तव लहेदो सुग्न थाय ॥ न ॥ १ ॥ चारि
 त्रियो सूयो हतो रे, ज्ञान क्रिया पिण सार ॥ ते मुनिवर मधर शकी रे, पाम्यो दुःख सं
 सार ॥ न ॥ १ ॥ ते माटे तुमे चित्तश्री रे, मधर टालो हेव ॥ ए लघु बंधव तुम तणो रे, ए
 हनी करज्यो सेव ॥ न ॥ १ ॥ लघु तो पिण गुरु गुण धकी रे, गुरु करी जाणे संत ॥ इम
 समजाने पुत्रने रे, सुपरे तात भत्यंत ॥ न ॥ १ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्. ॥ हस्ति
 स्थूल तरःसचांकुशवशः किं हस्तिमात्रांकुशः, दीपे प्रज्वलितं प्रणश्यति तमः किं दीप
 मात्रं तमः ॥ वज्रशनिहताः पतंति गिरयः किं वज्रमात्रांगिरिः, तेजो यस्य विराजते स

ली, लीजे कडू शिर नामी ॥ तु० ॥ ४ ॥ यात सुणीनि नरपति ततकण, प्रमुदित मनमें
 थावे ॥ तु० ॥ सयांत्रिक सन्मान लहीनि, निज निज शानक जावे ॥ तु० ॥ ५ ॥ योनपात्र
 गोदाचरी माहे, वाहक श्राले वारू ॥ तु० ॥ नागर नांखीनि जलकंठे, ठेले केईक तारू ॥
 तु० ॥ ६ ॥ *जांफादिः तयलां कृताख्यां, प्रवदणथी तेणी वेला ॥ तु० ॥ लवण जख्या ति
 हां कलश अनोपम, दीठा तेह समेला ॥ तु० ॥ ७ ॥ लवण कुंज देखी नृप चित्ते, परदेसे ह
 शे मोंयो ॥ तु० ॥ ते माटे ए प्रवदण मांही, पूस्यो ठे लेई सोंधो ॥ तु० ॥ ८ ॥ राजा तय व्य
 वहारी सयला, तेडीने ईम श्राले ॥ तु० ॥ लेई 'क्रियाणकने धन श्रापो, धमचे ए कुण
 राखे ॥ तु० ॥ ९ ॥ ते व्यवहारी समग्र मिढ्या जिहां, धनो पिण तिहां भावे ॥ तु० ॥ लव
 णाधिक किरियाणां निरखे, ते पिण सरल स्वप्नावे ॥ तु० ॥ १० ॥ मृंगमद प्रमुख समस्त
 क्रियाणक, वडेंचीने ते लेत्रे ॥ तु० ॥ वालक जाणी लवण कलश ते, धनाने सवि वेवे ॥
 तु० ॥ ११ ॥ धत्रे बुद्धिची सवि तेहने, उपमाने करी लीधा ॥ तु० ॥ तेजमतूरीना जाणीने,
 तात प्रते जई दीधा ॥ तु० ॥ १२ ॥ तांत्र धमीने प्रतिदिन धनो, तेजमतूरी मडले ॥ तु० ॥
 कंचननी निष्पत्ति अनोपम, पाये ध्रमिय ते शहेले ॥ तु० ॥ १३ ॥ हरख्यो तात स्वजन स

वि हरख्यां, बुद्धि नियान ते जाणी ॥ तुण ॥ दाल प्रथम ए था ज उ २०११, २०

ये वखाणी ॥ तुमं०॥ ४॥

॥ दोहा ॥ भूपे ज्ञाग्याधिक लही, धन्नाने तिण ताल ॥ नगरदोठ पदवी विये, जा
णी बुद्धि विद्याल ॥१॥ सामंतादिक सचिव सवि, थापे अति सन्मान ॥ नगर लोक जी
जी करे, भूप विये बहुमान ॥२॥ एक वियस दरवारथी, ह्य कर असवार ॥ परियुक्त
बहु परिचारणुं, थाये निज आगार ॥३॥ नाटक विविध प्रकारतां, आगल ह्य गय थाट ॥
धंदीजन बोलै विरुद्ध, याचक नोजक जाट ॥ ४ ॥ भतुल रुद्धि देखी अचल, हरख्या मा
तने तात ॥ पिण त्रिण्ये जांला थया, धन्नाना अप्रजात ॥ ५ ॥

॥ दाल २ जी. ॥ (सनेही यहाला, लाग्यो नेह निवाधो. ए केशी.)

द्वे धनदत्तादि विचारे, धनकुमरथी रोश वधारे रे ॥ सनेही प्यारे, ए दुःख केम
खमीजे ॥ कहो कहने उलंनो वीजे रे, सण ॥ ए धनुज थयो अधिकारी, एणे अयमनी
संगति धारी रे ॥ सण ॥ एतो कूड कपट बहु राखे, तिले सहु को रुडो जाले रे ॥ सण ॥
एणे कूड करी धन मेढयो, जिहां तिहांथी कीधो जेलो रे ॥ सण ॥ जोयो सार्थपने उल
कीधो, तिहांथी एणे धन बहु लीधो रे ॥ सण ॥ वली होडे घेटो लडाब्यो, तिहांथी पिण

यो सान्प्रधान, मध्य रात्रे कीघ प्रयाण रे ॥स०॥१२॥ शुक्रन सखल तव थावे, मालव न
एी सिद्धि सोहावे रे ॥स०॥ कौतुक क्रीडा वद्दू करतो, मनमांदि उमेद धरतो रे ॥स०
॥१३॥ मध्यान समय जब थाये, तव पंथनो खेद जणाये रे ॥स०॥ तिहां खेत्र खेडंतो
हाली, एक दीगो नयण निहाली रे ॥स०॥१४॥ तरु शीतल ठाया देखी, तिहां वेगो पंथ
उवेखी रे ॥स०॥ ढाल वीज्जे उब्हासे ए वीजी, कही जिनविजये मन रीजी रे ॥स०॥१५॥

॥ दोहा. ॥ हालिक धन्नाने निरखि, विकसित वदन सुबोल ॥ भोजन आणे न
क्षिपी, शाल दाल घृत गोल ॥१॥ धन्नो कहे उपक्रम विना, न करुं भोजन अिगार ॥ मृ
गपति परे निज उपक्रमे, सधि राखुं विवहार ॥२॥ ते मांटे तुम हलतणां, एक बे वालुं
चास ॥ पठि तुम आग्रहधी सही, करणुं भोजन खास ॥३॥ इम कही हल खेड्यो तुरत,
धन्नकुमर ग्रही राश ॥ प्रगव्यो ततक्षण देखते, चूमिधी निधि सुप्रकाश ॥४॥ हाली कहे
तुम आग्र्यथी, प्रगव्यो एह निधान ॥ धन्नो कहे हाडिक प्रते, ए तुम पुण्य प्रमाण ॥५॥
उपकृति करी भोजन कर्यां, श्रम टाली तिण वांहि ॥ 'कार्यिकणुं मैत्री करी, गमन क
रे उठांहि ॥६॥ कृपि जाई निज नृप प्रते, सकल कह्यो भयदात ॥ *दुमापति पण प्रमु

दित त्रणे, धनकुंभर द्युन जाल ॥७॥ जो वन वने तुम प्रते, वीथो ए परमान ॥ तो मे
 विण वनदो नुने, जोगनो जोग प्रथान ॥८॥ तव द्युतिक हर्षित भई, निवि प्रगद्यो जि
 ल ग्राम ॥ गार्धु तिण धानके जनु, धनपुर नामे गाम ॥९॥ उचम नर थाव्या थकी, पा
 मी कठि विद्याल ॥ दाली ते तलदण थयो, ग्राम तणो चूयाल ॥१०॥ यतः॥ आयांगृजम ॥
 उचम जण संगगो, मीत्रदग्दि कुण्ड मीत्रदं ॥ जद मेरुगिरिनि क्षगं, तिणमवि क
 लयनणमुंई ॥१॥ नागायैः-जम मेरुगिनि जोगलां तृणां पण सुवर्णपयांन पांमे ठे,
 तंम उचम जननो संगगं पण डीत्र रदित पुरुयंने डीत्रगुक्त करे ठे. ॥१॥

॥ दाल ३ श्री. ॥ (प्रचक्षण तिदांथ्री पृरीयां रे लाल. ए देवी.)

दये धनकुंभर तिदां थकी रे लाल, पंथ चाव्या जाय रे ॥ गुगुण नर ॥ जोगे देवा
 विद्यानां रे लाल, कौतुक षति सुखदाय रे ॥ सुगुण नर, पुण्य मनवंचित मिले रे लाल
 ॥१॥ ए भांकणी. ॥ पुण्य मयात्र संयोग रे ॥ मुणु॥ पुण्यं गुरु साद्विध्य करे रे लाल, पुण्ये
 वंचित जोग रे ॥ मुणु॥ पुणु॥३॥ तिदां कणे वन दंगे जलां रे लाल, वृकतणां तिदां जाल
 रे ॥ मुणु॥ थांचा जांनू करमडां रे लाल, दादिम गृफेने जाल रे ॥ मुणु॥ पुणु॥३॥ लाल त
 माल राजावनी रे लाल, बढ पौपलने निव रे ॥ मुणु॥ धयगुरादि हरीतकी रे लाल, चंद

न अग्र कंदव रे ॥सु०॥पु०॥४॥ सोपारी श्रीफल घणां रे लाल, ताड अशोक अखोड
 रे ॥सु०॥ जार अदार तथा तिदां रे लाल, सोहे वृक सजोड रे ॥सु०॥पु०॥५॥ जाई
 जूई केवडा रे लाल, मदेके केतकी फूल रे ॥सु०॥ बोलसिरी वालोवली रे लाल, सेवंत्री
 जासूल रे ॥सु०॥पु०॥६॥ नमरो मरुच मोगरो रे लाल, कणपर करेणा खास रे ॥सु०॥
 पुत्राग नाग अंकोजनां रे लाल, मालती प्रमुख सुवास रे ॥सु०॥पु०॥७॥ गिरि महोटा
 तिदां अति घणां रे लाल, नूकामिनी कूच जेम रे ॥सु०॥ शिखर सोहे तस ऊपरे रे ला
 ल, कंचुपरे अति तेम रे ॥सु०॥पु०॥८॥ स्तनधारा पर नीसरी रे लाल, तटणी तोय
 उदार रे ॥सु०॥ जाणे मुगताफल तथा रे लाल, नूनामिनी उर हार रे ॥सु०॥पु०॥९॥
 पंथी जलक्रीडा करे रे लाल, मोर चक्र मराल रे ॥सु०॥ चकवा चकवी कपोतनां रे
 लाल, बकनी पंक्ति विशाल रे ॥सु०॥पु०॥१०॥ उपकंठे मुनि आश्रया रे लाल, उडवले
 एकत्र रे ॥सु०॥ तपस्ती तप विधि साचवं रे लाल, असन करे फल पत्र रे ॥सु०॥पु०॥११॥
 सबर तथां स्थानक घणां रे लाल, पुलिंद प्रमुख केई पक्ष रे ॥सु०॥ नर रूपे पशु सारि
 खा रे लाल, शाला मृग प्रत्यक्ष रे ॥सु०॥पु०॥१२॥ गज टोलां वनमें जलां रे लाल, उ
 न्मूले केई वृक रे ॥सु०॥ वानर यूथ विशेषथी रे लाल, मक्षिप तथां तिदां लक्ष रे ॥सु०

॥पु०॥१३॥ मृग चित्रक शायर सत्ता रे लाल, व्याघ्र विक्षेपनो चार रे ॥सु०॥ मृगपति
 पिण तिदां संचरे रे लाल, करता कुल अन्यास रे ॥सु०॥ पु०॥१४॥ इत्यादिक जोतो प्र
 को रे लाल, कौतुक विविध प्रकार रे ॥सु०॥ अनुक्रमे मालय देशमां रे लाल, आढ्यो पु
 ण्यप्रारंभार रे ॥सु०॥ पु०॥१५॥ तटनी तीरे ग्रन्थदा रे लाल, करी वेनुक संथार रे ॥सु०
 ॥ अयन करे यद्यो तिदां रे लाल, ध्यान धरी नवकार रे ॥सु०॥ पु०॥१६॥ निर्जन्यथी निज्ञ
 करे रे लाल, सादस्तिकमें शिरवार रे ॥सु०॥ वीजे उब्ढांस जिन कहे रे लाल, ढाल व्री
 जी मनुहार रे ॥सु०॥ पु०॥१७॥

॥ दोहा. ॥ एदने योमिनीए तिदां, याम रही जय शेष ॥ शिंया शब्द तिदांसां
 नदयो, चमकयो चिच विक्षेप ॥१॥ शुक्ल शाल्व अनुसारथी, करे निश्चय चिच मांदि ॥
 रात्रि शिंया डुरंगा दियस, शब्द ते निष्कल नांदि ॥२॥ वसंतराज्य ग्रंथादिके, शुक्ल त
 पो अधिकार ॥ ते आलोचे चिचमें, शुक्लपरं धनकुमार ॥ ३ ॥ शिंया कहे शंभ पासत्री,
 धन ग्रहीने दृढ चिच ॥ अमने नरकल जे दीये, ते नर अति सुपवित्र ॥४॥ निश्चय करी
 निमिगनो, शिंया शब्द अनुसार ॥ तटनी तीरे ततकणे, चाढ्यो धनकुमार ॥५॥ शंभ

वीजो एतः श्रावतो, नीर पूर्यथी जाम ॥ पत्ने प्रह्री शव निरखते, खराशि लही ताम ॥६॥
रख प्रयां शव काशिनै, दीषो जंचूक जक ॥ देखो नैमिन शाखनां, पाभ्यो फल पर
तरु ॥३॥ अनुगमे अल्लंघ्यो तिहां, बंध्याचल नंगराज ॥ उच्छयनी श्राव्यो तुरत, साहसि
कसां शिरताज ॥७॥

॥ बाल ४ थी. ॥ (चित्रोडा राजा रे. ए देवी.)

उच्छयनी निरखे रे, मनमांही परखे रे ॥ शुं दीसे ठे रे, सरिखी स्वर्गपुरी समी रे
॥१॥ लंका पिण लाजी रे, इण भागल जांजी रे ॥ मनमें नही राजी रे, तब जलमें प
डी रे ॥२॥ रुंदे करी पूरी रे, सुभ्रंटे करी शूरी रे ॥ कोई वाते न भवरी रे, सुंदर शोन
ती रे ॥३॥ संभ्रप्रयोत राजा रे, जश अधिक दिवाजा रे ॥ वसुधामें ताजा रे, यश ठे जे
हना रे ॥४॥ गज रघने घोडा रे, पायक दल जोडा रे ॥ नहि तेहने थोडा रे, नृपने पाय
के रे ॥५॥ शिवादेवी राणी रे, सीता सम जाणी रे ॥ पटराणी थपाणी रे, उत्तम गुण
धरणी रे ॥६॥ एक दिन नृप चिते रे, मन केरी खंते रे ॥ बुद्धिंत संकेते रे, मंदि न मा
हरे रे ॥७॥ तेदन्तली निरपारी रे, करी परिक्रा सारी रे ॥ मतिवंत विचारी रे, कीजे

मंत्रनी रे ॥७॥ पढहो यजडांवे रे, नूर निज मन जागे रे ॥ करे अति नडकाय रे, ए उर
 पोयणा रे ॥७॥ सरोवर लागेरे रे, जे ठे मति उंटे रे ॥ ते धंनने नींटे रे, बेठो पांल्यी
 रे ॥१०॥ नूर तत्र थन आये रे, मंत्री पद आये रे ॥ यडा तेहनो व्याये रे, बुद्धिबले जलोरे
 ॥११॥ गुण्या यजकुमार रे, मनमें तत्र घोर रे ॥ एड वात निगारे रे, बिलंब न कीजीए
 रे ॥१२॥ पढहो उनी आये रे, सर कंठे सोदांवे रे ॥ अति हर्ष न माले रे, नृपने निरख
 तां रे ॥१३॥ एक बोधी ते लीनी रे, तंर मूत्रमें मीनी रे ॥ यतने करी बांघी रे, संर पा
 जत्र किम्यो रे ॥१४॥ रञ्जुत्री नींटाणों रे, वेग्वी तत्र राणो रे ॥ बुद्धिंत यथागयो रे,
 आप्या मंत्रवी रे ॥१५॥ पुरजन गहु सरख्यां रे, गुणी बुद्धि परिदा रे ॥ तस पुण्य आ

० गांधारनी वरुण, १ ते तज्जावनी पाळे वेणीने गज्जावनी वरुण रंज्जा गंजने वणे. २ तज्जावनी
 पाळे एक वृद्धना पुत्रे दोरबानी ठेरो बाळ्यो. ३ पवी वीतो ठेरो लेदने तज्जावनी एक कोरेवी चोकर फ
 बी आवी, मणप वृद्धना पुत्रे शथिता दोरबाना ठेरा गाथे, या ठेरावनी आशि देखने मणप बाळ्यो ह्यो, ते
 परक पाळ्यो, मणप ठेरो बाळ्यो ह्यो, मेनी गल्पप पाळे नदने ठेरो मेळ्यो एदले संजे गांव नद परोनी,
 एदले पाळो नेर मागे बली आळ्यो, पवी वे ठेरा जेगा रायसा लेह पत्रकुमर वेठो त्यारे राताये जाणुं के,
 या बुद्धिंत न रे.

व्यने माटी समान, परस्त्रीने माता समान; एवी रीते जे पुरुष जाणे ठे, तेज पुरुष ज
गत्ने विषे पंक्ति ठे. ॥ १ ॥ पराणी विलसे ते अति सुंदर कव्हा रे, पर जेवे ते हीन ॥
वीजे उब्ढासे ढाल उठी जिने कही रे, शील धकी सुख चीन ॥४७॥१९॥

॥ दोहा. ॥ रे जेइ जिनधर्मना, वान शियल तप ज्ञाव ॥ तेदमां शील विशेष ठे,
जयजल तारण नाव ॥ १ ॥ सिंह सर्प गज अनलना, जय सवि शील जाय ॥ शील वं
ठित सवि फले, शील वढो सुखदाय ॥ २ ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्. ॥ तोयत्यग्नि
पि स्रजत्यहिरपि व्याघ्रोपि सारंगति, व्यालोप्यश्वति पर्वतोप्युपलति द्वेडोपिपीयूषति
॥ विभ्रोप्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यपां, नाश्रोपिस्वगृह्यटव्यपिनृणांशीलप्र
ज्ञावाद्भुवं ॥ १ ॥ ज्ञावार्थः—शीलना प्रज्ञावधी मनुष्येने, अग्नि जल रूप आय ठे, सर्प
फूलनी माला रूप आय ठे, वाघ हरण रूप आय ठे, दुष्ट गज अश्व रूप आय ठे, पर्वत पा
पाण जेवो आय ठे, विष अमृत समान आय ठे, विघ्न उत्सव रूप आय ठे, शत्रु मित्र
रूप आय ठे, समुद्र क्रिडा करवाना सरोवर रूप थाय ठे अने अटवी पंताना घर रूप था
य ठे ॥ १ ॥ शीलं प्राणभृतां कुलोदयकरं शीलं यजुर्भूषणं, शीलं शीचकरं विपन्नयहरं दो
र्गत्य दुःखापहं ॥ शीलं दुर्जगतादि कंदवहनं चिंतामणिःप्रार्थितो, व्याघ्रव्याल जलान

ज्ञादि शमनं स्वर्गपयर्गप्रदं ॥२॥ ज्ञायार्थः—प्राणियोने शील, कुलना उवप करना, २१
 रीनें चूपण रूप पवित्रता करनाहं, विपत्ति श्रने ज्ञपने हरनाहं, दुर्गति श्रने दुःखनो
 नाश करनाहं, दुर्भाग्यादि कंदने दहन करनाहं, प्रार्थना करेज चिंतामणिरत्न सरखुं, वा
 घ, सर्प, जल श्रने श्रत्रिना उपसर्गने शमन करनाहं तंमज स्वर्ग भने मोक्ष आपनाहं ठे
 ॥२॥ शरीर अनित्य संसारमें, रोग शोग जंमार ॥ मल मूत्रादिकयी जरी, प्रशुचि नहे
 नित दार ॥३॥ आयु वायु सम अधिर वे, जोग रोग सम जोय ॥ घन मव संध्या रंग
 सम, सयण सुपन सम होय ॥४॥ यतः ॥ अनुशुश्रुत्तम. ॥ अनित्यानि शरीराणि, वैजयो
 नेच शाश्वतः ॥ नित्यं समीहतो मृत्युः, कर्तव्यो धर्मसंग्रह ॥३॥ ज्ञायार्थः—शरीर अनित्य
 वे, वैजय अशाश्वता वे श्रने मृत्यु नित पासे भायतुं जाय वे; माटे घर्मनो संग्रह करयो.
 ॥३॥ तिल कारण माता तुमे, महिमायंत मंदंत ॥ पुत्र विनती सांजली, धरो धर्म गुणवंत ॥५

॥ दाल उ मी. ॥ (शिरोदीनो सालू हो के, ऊपर योधपुरी. ए देशी.)

तय वचन सुणीने हो के, धनकुमार तणां ॥ शील रतन यतननां हो के, अतिदि
 सोदासणां ॥ ते सांजली देवी हो के, गंगा मन दरखी ॥ निज मन उब्बासे हो के, कुम
 रनु मुख निरखी ॥१॥ करजोडी बोले हो के, कुमर प्रते वाणी ॥ तुम हवयतणी में हो

के, पात सथल जाली ॥ नृ धर्म धुरंधर हो के, मनुष्यमहि मोटो ॥ वीजो नुज आगल हो के, नर सपक्षो जेटो ॥२॥ तुमे पर उपगारी हो के, गुणमणिना दरिया ॥ तुमे महज सुरंगा हो के, सेतोपे जरिया ॥ सुखिकेक विचारी हो के, सारी तुम करणी ॥ जिनमत धनुयंगी हो के, पुण्यतर्णा जरणी ॥३॥ तुम मुजने तारी हो के, वारी हुं जाउं तुमची ॥ समक्षित सुरमणिशुं हो के, सति जागी श्रमची ॥ संसार जज्ञविमं हो के, पडतीनि रा सी ॥ समजार्ण विगते हो के, मयुर वचन नार्खी ॥ ४ ॥ उपकृति दये तुमची हो के, उरण शिम थाऊं ॥ तुम धर्मता धारी हो के, जामण्डे जाऊं ॥ इम कहनि कुमरने हो के, गंगादेवी तिहां ॥ शुन रयणा चितामणि हो के, आपं आणि तिहां ॥ ५ ॥ देइ रत्न समृत्तिक हो के, कुमर प्रते बोले ॥ जिनधर्मने आगल हो के, एइठे कुण तोलो ॥ करिने विधि बंदन हो के, देवी ठाम गई ॥ धन्नकुमरना मननी हो के, चितित यात थई ॥६॥ लेइ रखने संगे हो के, रंग प्रयाण करे ॥ अनुक्रमे नृ क्रमता हो के, मगधे पाउ घरे ॥ अति देसा रंगीलो हो के, नीलो उपवनथी ॥ सवि देसामें मदेदो हो के, ग्राम नगर पु

१ जिनस्य साथे भीति जे. २ तुसारें वारणे जाऊं. ३ तपे घने उपकार करयो, ते गुणउधो मण केच घसे ?

रथी ॥ ७ ॥ तिण देवा दीपती हो के, नगरी मांदि नडी ॥ उपमान एहन हो के, धन
 न कोय जढी ॥ तोले करी सुत्रतां हो के, सुरपुरी हीण भई ॥ तय ते कारणथी हो के,
 कंठी स्वर्ग गई ॥ ७ ॥ लंका पिण लाजो हो के, जलवीमें ऊप नई ॥ मलका तिम सल
 की हो के, अलगी नात गई ॥ मुरलोक समाणी हो के, जे जगमें जाणी ॥ परसिह
 गवाणी हो के, उंगम नर ग्याणी ॥ १० ॥ गढ कोट डुरंगा हो के, चंगा कोदीदा ॥ को
 ता नररगा हो के, ऊलक थारीमा ॥ तिहां नाल विराजे हो के, मेघपरे गाजे ॥ जस
 नाव अयागे हो के, वेगी बल जाजे ॥ १० ॥ पोल पिण अति पोन्ही हो के, बोन्ही प्रति
 दीपे ॥ हागर्गन सारी हो के, जारी प्ररि जीपे ॥ चहुटां चोरदाही हो के, विविध वा
 णिग्य तणां ॥ तिहां हाट नगरे हो के, कीरियाणां रे घणां ॥ ११ ॥ वसे वरणा अठारे
 हो के, ते सयना सुखीया ॥ निज पुण्य प्रबलथी हो के, वीसे नही डुःखीया ॥ अति
 उन्नत मंदिर हो के, सुंदर सुनिशाजा ॥ गोख मन हरखे हो के, रमण करे वाला ॥ १२ ॥
 प्रासाद सोलावे हो के, जेनेन डोकतणां ॥ तिहां पूजा नाटक हो के, बत्रिदावह घणां ॥
 नउष्ठप्र व्यवहारी हो के, धनथी घनद समा ॥ वाने करी झूरा हो के, सुरतरु सम ठ

॥ रामथी नगरी. ५ देवलोक गरयो. ६ जया उपम पुरुषो थया. * कागरी. † परोदी पोज.

पमा ॥ १३ ॥ गौत्रश्च सुदर्शन हो के, श्री जिनवास जिज्ञा ॥ कोटीध्वज कहीए हो के,
जिनमत चिग नशा ॥ जिल नगरे सुपरे हो के, चौद चोमास किया ॥ श्री वीर जिये
रे हो के, धर्मोपदेश दिया ॥१४॥ बैतार शिखर हो के, कंचन देव गिरी ॥ उदयाचल
नाम हो के, ए पंचे शिखर ॥ तिले करि पुर सोहे हो के, कहे जिन एम वली ॥ वीजे
उद्धासे हो के, सातमी दाल जली ॥१५॥

॥ दोहा ॥ ते राजगृहीना जलो, भ्रजमार राजन ॥ अरियणेने अहि गरल सम,
सङ्गने ये मान ॥१॥ कर करवाले कंपीया, वंगी व्रत विकराल ॥ त सेवे नृप पदकम
ल, मानसरे ज्युं मराल ॥२॥ दान्द मान्द ॥ अः डः डः, साहसिकमां शिर ताज ॥ ज्ञानी
ध्यानी जिन गुण, सदा रहे सुखसाज ॥३॥ क्रायिक समकित आचंर, अक्रय पदने हेता ॥
अष्टोत्तर शत जय थकी, स्वस्तिक जिन संकत ॥४॥ नंदा धारणी चक्षणा, प्रमुख एक
शत नार ॥ भजनय मेघ कोशिक प्रमुख, शत कुमार सुखकार ॥५॥ चारें इतिशो उ
वधि, अन्नयकुमार प्रथान ॥ राज काज सवि साचये, भूयनो बहुमान ॥६॥ अरि क
टक अलग्नां करी, न्याय मार्ग करे शुद्ध ॥ भनय ध्यांत टाले तुरत, सुनय तेज अविहृद ॥७॥

१. श्रेष्ठिक राजा. २. गधुर. ३. माकूने माटे. ४. एकगां. ५. गमानुं बहुमान १३.

॥ बाल ८ मी. ॥ (हां रे महारं दीतल जिनहुं लागी पूरण प्रीतजो. ए देखी.)

द्वे ते राजगृही नगरीए नगरनो शेठ जो, कुमुमपाल नामे ते जगमें जाणियो रे
लो ॥ नृप श्रेणिकनो ठे अधिको तसुपरी मान जो, वानानिक युग निपुण विशेषे वला
णियो रे लो ॥१॥ तस कांता डांता कुमुममाला मनोहार जो, पुत्री ठ गुणवंती कुसुम
श्री जन्नी रे लो ॥ कला चोडाठनुं गृह रूप रति भवतार जो, बुंदे जारति वानगुणे लक्ष्मी
वली रे लो ॥ २ ॥ तस डोठनें वन हुता नंदनवत सम एक जो, कोई कारण वदाश्री सु
काइ ते गयो रे लो ॥ एद्वे ते धनकुमर तिहां थांयं रंग जो, पुणय प्रजाये वन सत्रि नय
पद्मय अयो रे लो ॥ ३ ॥ ते देखी पुरजन हरशित हृदय मजार जो, भायीने प्रत्युंये भा
यी यथामणी रे लो ॥ सुणी प्रमुदित मनश्री शेठ सकल पशियार जो, भायीने निरखे
तय वन दोजा घली रे लो ॥ ४ ॥ मन चिंते विस्मित अइने एहवी वात जो, कहने पुण्ये
वन सर्वे पूढ्यो फढ्यो रे लो ॥ तय वन हुंढतां चंपक तरुवर देठ जो, वेगो रे वीगो ते
जाग्यथी अटकढ्यो रे लो ॥ ५ ॥ तस इगितने आकारे ते गुन रूप जो, देखी रे मन हर
मी परले ततदणे रे लो ॥ जिम रत्नपिकक परले रबेन काच जो, बुद्धिजीने परि
का तिम कथियसा गणे रे लो ॥ ६ ॥ हवे थावी धना पासे शेठ तियार जो, कुशावालाप

पूढीने प्रमुदित मन कियो रे लो ॥ कहे स्वामी पधारी भ्रम मंदिर महाराज-जो, तुम
 मिलयाथी लाज घणो प्रभु भ्रम थयो रे लो ॥३॥ इम ज्ञांखी शेठ ते धन्नाने ततखेव
 जो, अश्वारूढ करीने घर तेढी गया रे लो ॥ तैलादिक मर्दन जगटणादिक चंग जो, छा
 न सुगंधी जलथी करी पावन थया रे लो ॥७॥ मन गमतां जोजन कीधां एकण धाल
 जो, वेठा रे करे क्रीडा तिहां यातायने रे लो ॥ कहे शेठ धन्नाने सुपरे भ्रमची बाल जो,
 परणाने प्रेमे खेमे शुभ्र मने रे लो ॥९॥ तव बाले धन्नो शेठ ज्ञणी सुविचार जो, विण
 उलखियां भ्रमने किम परणावशो रे लो ॥ कुल जाति पृथया विण एवडां म्होटां काज
 जो, कीजे जे कहो किण विधि मन उछाहमा रे लो ॥ १० ॥ तव बोड्या शेठ धन्नाने क
 रि मनुहार जो, रूप कजा गुण लावण्यथी तुम कुल लह्यो रे लो ॥ बली आचारथी जा
 णी उत्तम जाति जो, भ्रम वन फलेथी भ्रमे मनमें निश्चय ग्रह्यो रे लो ॥ ११ ॥ तव मौन
 करी रखा धन्नोशाह तिवार जो, शेठे तव विवाहनां पररण तिहां कियां रे लो ॥ तव गो
 री गाये कोकिल स्वरधी गीत जो, श्रीफलने सोपारी पान प्रमुख दियां रे लो ॥ १२ ॥
 हवे धम्माशाहे चित्यो मनमें ताम जो, सुतराने घेर रहेतां लाज वधे नदी रे लो ॥ बलि
 पाणिगृहणनो किम होंचे उतरंग जो, नात प्रमुखने पोख्यो पिण माहरे सही रे लो ॥ १३ ॥

यतः ॥ उग्रम पाप गुणे नग्या, मध्यम तात गुणेण ॥ अग्रम मुण्या मातुत्र गुणे, अग्र
 भागम सुगंण ॥१॥ नाचार्यः-यैताना गुणार्थी उच्यन्त्याय ते उग्रम, यिताना गुणार्थी उ
 च्यन्त्याय ते मध्यम, माताना गुणार्थी उच्यन्त्याय ते अग्रम अने ससराना गुणार्थी अर्थात्
 ससराना नामार्थी उच्यन्त्याय ते अग्रममां पण अग्रम ज्ञाण्यो. ॥१॥ इम चिंती लीयां त
 तद्गण मंडोटां धाम जो, काम चलायो सयशो मणि मद्धिमा थकी रे लो ॥ जस चिंता
 मणि गर तंदने डी उ ग्योड जो, मनचिंतित सधि पाये इम सयल्ले वकी रे लो ॥ १४ ॥
 द्ये मुग्मणि पृथ्वी जे जे निते काज जो, ते ते रे ततकाले अरु भवि जलो रे लो ॥ वडु
 मंत्रक भेना ह्युग्य ग्य पग्नार जो, मंत्रे रे करजोडी यटा विण कज्जो रे जो ॥ १५ ॥
 जे नाग्यार्थी जे तेदने पग पग रुठि जो, विण उद्यमार्थी आये ज्ञाने आपदा रे लो ॥
 जिम उरार नुस्तमं विण आयासे वृढ जो, आगे रे तिम आंय मित्री सधि गंपदा रे लो
 ॥ १६ ॥ जेणे पूग्ने मुकृत कग्तां राखी ग्योड जो, तेदने रे मनचिंतित कळा किदांथी
 भित्ते रे लो ॥ एह चीज उच्यन्त्याय भागमी दाल रगाल जो, कहे जिन रं गे पुण्ये चंठित
 सधि फले रे लो ॥ १७ ॥

॥ शेषः ॥ शुभमपाल देणे नुस्त, तेराव्या श्लोक ॥ आवर वेई अति घणो, पूरे

लगन सुधेरा ॥ १ ॥ जोशी जोई टीपणुं, गुन मुहूर्ते गुन वार ॥ कुसुमश्री पुत्री तणे,
लगन कर्यो निरपार ॥ २ ॥ हवे वियाह तणां तिहां, महोटां करे मंन्याण ॥ आगनयो
पापड घडी, प्रमुख शाक परियाण ॥ ३ ॥ कंदोई वेगा करे, विविध ज्ञात पकवान ॥ दी
गधी दाट्यो गले, सुख लेहे सुलतां कान ॥४॥ मंरुप वांध्या मोटका, पंचरंगी परगट ॥
रगना जोवाने रतिक, आवे नरना थट ॥५॥

॥ दाल ए मी. ॥ (करडो तिहां कोटवाल, ए देसी. ॥

हवे ते धमोसाह, लगन दिवस जव आयो रंगशुं जी ॥ पकवाने करी पांति, पोखे
परिखल प्रति उवरंगशुं जी ॥ १ ॥ उपर शाखि ने दाखि, तिम घृत ताजां पिरसे प्रेमशुं
जी ॥ व्यंजन नवि नवि ज्ञात, आणे ने वली टाणे सह जिमे खेमथी जी ॥ २ ॥ गोरस
सरस भादार, करीने सह को मन प्रसुदित थया जी ॥ ऊपर फोफल पान, ते लेझेने सह
निज मंदिर गया जी ॥ ३ ॥ लगन येला थर जाम, तव वरयोडे वयु वरया जणी जी ॥
चडिया मन परी चौप, आनूरणनी ते शोभा अतिहे वनी जी ॥ ४ ॥ हय गय रथ परि
पार, शेज सामंत सचिवत्री परिवर्या जी ॥ देतां दान उदार, सुंदर सुंप ते शिर ऊपर
पण्या त्री ॥५॥ याजे नूर उत्रीश, नादे अंबर सवि गात्री रणे त्री ॥ दक्खनिनां गीत,

तेदुनो वर्णन किम जाण कळो जी ॥६॥ सुगते लेई ज्ञान, धन्यतात भाव्या सुखी जा
 णे जी ॥ सुसंगे श्रयां रलीयात, सामु पण मनमें धन्य दिन ते गणे जी ॥७॥ पूंलणे पां
 ली ताम, लीधा जमाइने हरये मांये जी ॥ तेढी कन्या तियार, वर कन्याने करमेतो
 करे जी ॥८॥ चोरी मणिमय चंग, रंगे बांधी ते जली जांतिशुं जी ॥ फेरा फेरे तिदां
 सार, मंगल वरत्यां चारे गांतिशुं जी ॥९॥ वेद जणे द्विज ताम, स्वर चढामे होम हवन
 करे जी ॥ करमेचननां वान, सुसरो सामू वेचे बहु परे जी ॥१०॥ आरोग्या कंसार, दंग
 तिनां द्विज हेजे दरव्हीयां जी ॥ मांडो मांडे श्रयो गंग, गुण लक्षण सुपरे सवि परव्हीया
 जी ॥११॥ परिजन पोग्ब्यां ताम, शेजे सुपरं सघडो आपणो जी ॥ वीधां याचक वान,
 लाडो लीधो लग्नीनां प्रणगायां जी ॥१२॥ इण विध कीथ विवाह, जय जय वोलेंच
 विहुं तणे जी ॥ विष्टुं मन श्राणं व पूर, हेज वळो तिम विहुंने अति घणो जी ॥१३॥ कुसुमश्री
 लेड संग, रंगे धनां पाव्यो गृह भापणे जी ॥ जोगे जोग चित्तान, सुर सुखं पिण तृण
 सरियां गणे जी ॥१४॥ पुणयतणे संयोग, सगिया सरियो जांडो श्रायी मिले जी ॥
 नयमी बीजे उब्ढारत, जिन कडे दाल ए सोहनामं जले जी ॥१५॥

॥ दोदा. ॥ एहेने मालववेडा पति, चंरुप्रद्योतन प्रू ॥ कोटक वयण विरोधश्री,

धारवाला बाणवेडे युद्ध करवानी तो वातज शी ? कारण के, युद्धवेडे जीतनो संदेह ठे
 अने तेमां प्रधान एटले उचम पुरुषोनो कय थाय ठे. ॥१॥ अन्नपकुमारे बुद्धि नपाई, घ
 न धरतीमें धराव्यां ॥ गुप्तपणेशी शैन्य स्थलमें, अति प्रबल कराव्यां ॥ देण ॥ ९ ॥ पत्र
 लिख्यो प्रेमे करी युगते, विनयानत श्रद्ध अन्नये ॥ स्वामी तुम पूज्योपम अमचे, सुणो
 वात इक निजये ॥ देण ॥ १० ॥ शिवादेवी तुमची पटराणी, चेलणा सम में जाली ॥ तेह
 न्नी स्नेह अमने अधिको, तुमची ठे गुणखाणी ॥ देण ॥ ११ ॥ अम ताते धन आपी बहु
 लो, सामंत सवि पतलाव्या ॥ ते ग्रही तुमने देशे सुपरं, जे साथे इहां आव्या ॥ देण
 ॥ १२ ॥ जो अम वचननो प्रत्यय नावे, तो जोज्यो निरधारी ॥ सामंतादिक पटकुटी पा
 से, सुक्ति लेज्यो सारी ॥ देण ॥ १३ ॥ धन देखो तो वचननो प्रत्यय, निश्चेशी चिरा धरज्यो
 ॥ तुमणे समयतणा उपलक्षक, जिम जाणो तिम करज्यो ॥ देण ॥ १४ ॥ इम लिखी पत्र
 प्रबन्तपणेशी, प्रद्योतरायने प्रेक्षो ॥ तिले पण एकांते अयसरथी, वांचीने सवि देख्यो ॥
 देण ॥ १५ ॥ प्रत्यय माटे नृप पटकुटीने, पासे तय जोयराये ॥ नृपति निधि देखीने तत
 कण, व्रांति अधिक मन थावे ॥ देण ॥ १६ ॥ यामिनीये निज प्राण ग्रहीने, चंमप्रद्योतन
 नाणे ॥ मरण तथा नयथी मति हीणो, कीधो तिहां मन कागे ॥ देण ॥ १७ ॥ यतः-

॥ उपजातिवृत्तम्, ॥ विपक्षवर्गेण बलाधिकेन, स्वयं विवावो विडुया न कायः ॥ नद्रुप
 रकं हिल जीवित्त्यं, जीवन्नरो न्न शतानि पश्यति ॥२॥ न्नायाश्रः—अधिक बलवान्ना
 शत्रुनी मांये विवान् पुरुषं वाय विवाय् अथत् कजीयो न करयो. नासीनि पण जीवित
 व्यन राव्युं जोङ्ग. कारणके, जीवतो माणम डोकडो सुखेन जूण वे. ॥२॥ मैव्य स
 कन्न पिण चिहुं दिदि जाये, नृपनी शुद्धि करंतो ॥ अनुक्रमं उल्लयनी ते पहेल्यो, नृप म
 न शोक वरंतो ॥ देण॥१०॥ सामंत राय नन्नामं बोड्या, शं इम म्यामी न्नाग्या ॥ इजत
 सहुनी एडे गमायी, कहेने कहेणे लाग्या ॥ देण॥११॥ चंरुप्रयोत कहे तुम धनथ्री, लप
 टाणा में जाणया ॥ तय ते कहे अमे किम पलटाडं, फोगट तुमे न्नरमाणा ॥ देण॥ २० ॥
 अन्नयकुमागनी चंरुप्रयोत, कपट यात ते जाणी ॥ चिंत मनमें ए शं कीधुं, गोंड लाज
 पुराणी ॥ देण॥१२॥ देव कोइ दाय उपाय करनि, अन्नयकुमर्गेनं श्राणुं ॥ चरण नमायी
 ने यडा राणुं, कोइक जोई टाणुं ॥ देण॥१३॥ देखा ह्ये प्रयोत नरसर्ग, कपट उपाय ते
 करडो ॥ दाल दाममी वीजे उड्डाले, जिन वचने सुख वरडो ॥ देवोण॥१३॥
 ॥ बोहा. ॥ मन्ना समक एकश दिन, कहे प्रयोतन राय ॥ अन्नयकुमार्गेने जे ग्रहे,
 तेहने कहे पसाय ॥१॥ कोइ गूगे कोड नाइसी, कोइ वल बल्लनो जाण ॥ जे ग्रही अ

नयकुमारने, लावे ते सुप्रमाण ॥२॥ सुणी कहे सामंत सवि, स्वामी ए नवि थाय ॥
इंइ चंइ नगेंइश्री, अन्नय उढयो नवि जाय ॥३॥ समुइ तरंतां सोहलो, मृगपति ग्रहण
सुकाज ॥ व्याघ्रने वश करयो मुलन्न, पिल ए दुर्वन्न काज ॥४॥ पडहोदघोपण नगर
में, ताम कराये राय ॥ अन्नयकुंमर आणे जिके, ते लेहे लाख पसाय ॥५॥ पडह उढयो
गणिका तुरत, राय लहो आदेश ॥ परिकर युत आवी प्रवञ्ज, मगधदेश सुविशेष ॥६॥

॥ दाल ? ? मी. ॥ (वाह वाह बनायो वींऊणो. ए देशी.)

द्वये ते गणिका कपटी मजी, करे कपट आविका वेशो रे ॥ मुखवस्त्रादिक उपग
रणे, मुखे राखी दिये उपदेशो रे ॥ तुमे देखो कपट गणिकातणां ॥१॥ ए आंकणी. ॥
एतो परिपाटी आविका तणी, सवि शीखी सुपरे राखी रे ॥ तेणे वेश धत्या आविकात
णा, वचनादिकथी मूडु ज्ञापी रे ॥ तुण २ ॥ केइ धवयुत केइ विवया थइ, केइ वृद्ध अने
केइ बाला रे ॥ जीवाजीवादि पद जणे, करे त्रस आवर रखवाला रे ॥ तुण ३ ॥ इम वेश
बनावी विगतगुं, राजगृही नगरीमें आये रे ॥ उपचनमें मरा आपीया, अति उन्नति अ
धिकी फावे रे ॥ तुण ४ ॥ प्रत्युपे पुष्पादिक मही, थई जेही नगरीमां जाये रे ॥ फिरती

अग्नि शब्दे चर्चते ॥ अन्नं च वीथी जिनमर्दिरे, विधि सहित जिनार्चना करती रे ॥ तु०
 ॥६॥ देवी कंडे अन्नपुमर इंधुं, तमे कोणजे किल्लं र्दो चांरे ॥ किण कारण आख्यां
 जो इहां, तिहां जाडो कंडो जिन लांडे रे ॥ तु० ॥ ७ ॥ तय बोली विमासीने तिहां, एक वृ
 द्धा विग्या वेदो रे ॥ सुणो अन्नपत्री प्रथे ए नयणनो, जिडो पाख्यो गुरु उपवेदो रे ॥
 तुंमं ॥ ८ ॥ अंमं वेतना कटणथी मही, उज्ज संसारी शुन्न प्रणोये सायया, शुन्न
 मागमां, योनी चोगडी छव म्हाणी रे ॥ तु० ॥ ९ ॥ कोड निमित्त विडोये सायया, शुन्न
 कन लडो नर प्रयतांगे रे ॥ तिहां मायन शिवपुर पदोचांडे रे ॥ तिहां जाया
 ॥ तु० ॥ १० ॥ सायंर श्री वीरजिणं व मिट्या, निन्नय शिवपुर पदोचांडे रे ॥ तिहां जोडिलो,
 नो मही मन र्दं, पिण तनु आलम वेयांडे रे ॥ तु० ॥ ११ ॥ सायु मारग अति बोडिलो,
 मंवेया परिमहना मांडो रे ॥ पंय मदावत नार उगाड्यो, ते वेदतां र्हे पग मांडो रे ॥
 तुंमं ॥ १२ ॥ पाळ लंकी उल कवी चाल्यो, तेवीडा विरय नश करवा रे ॥ पचवीडने
 पागे न मालवा, पांन वेरी विश्वास न धरवा रे ॥ तु० ॥ १३ ॥ एक जिह्वाधिय विचे डुटडे,
 तय मेवकंठे वेड मागो रे ॥ तंथेने पिण यतने वज्रया, जेइ डुजंयठे अति कावो रे ॥ तु०
 ॥ १४ ॥ इम उदसवी पंथे चाततां, चोडने वासे पठोने रे ॥ ए मागं विरम सुसार्थपे, वे

खाड्यो मननी होंशे रे ॥ तु० ॥ १५ ॥ पिण ते पंथनो पूरो नवि पडे, तव सार्यप वली इम
 ज्ञाने रे ॥ एक वाट सुगम वीजी अठे, शिवपुर जावा जे मन राखे रे ॥ तु० ॥ १६ ॥ अ
 पुत्रतनो जार अज्ञप ग्रही, दानाविक रक्क संगे रे ॥ तप विनयादि अश्वे चढी, पहेचे
 शिवपुर मन रंगे रे ॥ तु० ॥ १७ ॥ तव ते मारग मनमें वशो, ते पंथे अमे हवे चालुं रे ॥
 पंथवाहक साधुने पूवतां, शिव नगरने नजरे जालुं रे ॥ तु० ॥ १८ ॥ तिहां जइ वसवानुं म
 न अठे, सुखगाम नणी थिर जाणी रे ॥ इग्यारमी वीजा उडहासनी, ढाल जिनविज
 ये वखाणी रे ॥ तु० ॥ १९ ॥

॥ दोहा. ॥ अन्नय कहे साहमिणी सुणो, तुमे कही ज वात ॥ जाव थकी सवि
 अनुजयी, ए तुमची अखियात ॥ १ ॥ इय थकी हवे दाखवो, नाम गमने काम ॥ तव
 वोलें ते यत्थी, अन्नयने करी प्रणाभ ॥ २ ॥ चंपाये प्राहिं रुहुं, वहुं सदा जिन आण ॥
 सत्य वचन मुखथ कहुं, लहुं अद्यात्म प्रमाण ॥ ३ ॥ संसारिकना कार्यथी, धर्मकार्यगुं
 रंग ॥ राहुं तुं निश्चय थकी, अविहड रंग अजंग ॥ ४ ॥ देवार्चन गुरु सेवना, पात्रदान सुप
 वित्र ॥ तप जप काया दक्ति सम, कलं अमे सुचरित्र ॥ ५ ॥ सिद्धचल यात्रा निमित्त,
 मन राहुं तुं प्रादिं ॥ नैत्यालय नमया जणी, भाव्यां तुं अमे प्राहिं ॥ ६ ॥ यतः ॥ आयां

वृत्तम. ॥ भनन तल चौर गानक, नृप गल वायाव संहृतंयाति ॥ धन्यो सो यस्य धनं,
 जिनयात्रावी शुभे लभं ॥ ! ॥ ज्ञानार्थः-धनने भद्रि, पाणी, चौर, यानक, राजा, गल
 लोकौ धने गोत्रीयो हरण करी जाय वे. माटे तेज पुरुयने धन्य वेके, जेनुं धन जिन
 यात्रादिक शुभ कार्पने विषे यपराय वे. ॥ १ ॥

॥ दाल १२ मी. ॥ (भांठे लाल. ए. वेडी.)

वचन मुणी तेणीवार, इगळ्यो भनयकुमार ॥ सेजागी लाल ॥ धन्य धन्य ए शु
 व श्राविका जी ॥ जीयात्रीयादिक ज्ञाण, शिर वदे श्री जिन श्राण ॥सोण॥ जिनमतनी
 ए शोनायिका जी ॥१॥ एह ते उचम पात्र, एदनो निर्मल गात्र ॥सोण॥ यात्रा थइ मुज
 ने नजी जी ॥ एहनी नक्ति उबार, कीजे विविध प्रकार ॥सोण॥ सारपशाथी वली वली
 जी ॥२॥ इम श्रालोची चिच, वोढ्यो भनय पवित्र ॥सोण॥ थम घर तुमे पावन क
 रो जी ॥ तं वोली ततलेव, धर्मवांधव तुम हेव ॥सोण॥ वचन थमार्क चिच धरो जी
 ॥३॥ श्रात्रंठे तीश्रॉप्यास, सवि साहमिणीने ग्यास ॥सोण॥ भोजन हठ किम कीजीए
 जी ॥ सुणि चमय्यो चित्तमांदि, वचन भनेणम त्यांदि ॥सोण॥ लाज प्रत्युपे लीजिये
 जी ॥४॥ बीजे दिन सुप्रकार, नक्ति करे मनुदार ॥सोण॥ भनयकुमार भोजन तणीजी

॥ तव ते कपटी वेदा, अन्नय थकी सुविशेष ॥सो०॥ प्रीति करे वचने घणी जी ॥५॥
 पतः ॥ अनुदुःखचम. ॥ सुप्रयुक्तस्य देवस्य, ब्रह्माप्यं तं न गच्छति ॥ कोलिको विश्व रूपे
 ण, राजकन्यां निरयंते ॥१॥ ज्ञावार्थः—सारी रीतिं करेला कपटना पारने, ब्रह्मा पण जा
 ली शकता नथी. जेम कोलांण विष्णुनुं रूप करी राजकन्या जोगवी तंम. ॥१॥ आर्मंत्रे
 उष्ठांहि, अन्नपनें मर त्यांहि ॥सो०॥ अन्य दिवम अक्तर लहीजी ॥ पिश्यां भोजन
 मार, द्येजन विविध प्रकार ॥सो०॥ शालि दाजि घृतर्था सही जी ॥६॥ तदुपरि गोरस
 जाम, चंद्रहास्य इशे नाम ॥सो०॥ मदिगने मन मोंदंजुं जी ॥ जमतां देत तिवार, घू
 णित नपन विमार ॥सो०॥ निजलंदे आणंदंजुं जी ॥३॥ घाली रथमें ताम, चालीने क
 र्तिने काम ॥सो०॥ गलिमा राजगृहं थकी जी ॥ पोइतीं उज्जयिनी तेह, नृपने कहे स
 रानेह ॥सो०॥ अन्नय आणयो अमे ठल थकी जी ॥७॥ सुणि प्रद्योतन राय, कीधो ला
 र परमाय ॥सो०॥ गलिमानं अति सादर जी ॥ अन्नयकुमरने ताम, तेडावी तिण ठाम
 ॥सो०॥ गलिमा गृहर्था आदर जी ॥८॥ तव प्रद्योत नरेडा, अन्नय थकी सुविशेष ॥सो०॥
 पार्याधिक विधि बहु करे जी ॥ युज्जिणो नंभार, देवी अन्नयकुमार ॥सो०॥ चंरुप्रयो
 त पिण हिन घेरे जी ॥१०॥ अन्नय कहे सुष राय, ठंमी अवर उषाय ॥सो०॥ धरम त

पांजर मुत्र कस्यो ज्ञी ॥ एह पयटतो काम, तुजने न लागी काम ॥ गोण ॥ नान वचन
 निग ननि धर्यां ज्ञी ॥ ११ ॥ धिग धिग तुज पवनार, कूड कण्ट कोणार ॥ सोण ॥ तिन
 तने मंत्रा कस्यो ज्ञी ॥ मुत्र मान्नीने गेह, गंधेद्युं धरी थडु नेह ॥ न नमुं तुजने चीफर्या
 ज्ञी ॥ १२ ॥ इम कस्योने मुविनार, मासीन आगार ॥ गोण ॥ अजय ग्ने आणवनें ज्ञी ॥ दाल
 ए शर्या गाम, कस्यो चीने उट्याल ॥ गोण ॥ तुय तिननिजये मन गमे ज्ञी ॥ १३ ॥

॥ दोटा ॥ एहेय गजगृह नगर, नृप श्रंणिक दग्धार ॥ तेचन गज मध्या श्रयो,
 गिरुत विर्य निगर ॥ १४ ॥ सालानयन उराडने, पांडे गोगुर पांड ॥ मंदिग दाने मोजध्री,
 चंर दाटनी दुंय ॥ १५ ॥ नाणावटी फडिया प्रमुण, देनि दिजो दिशि जाय ॥ निवेरी त
 म वधुने, वनि आयत कुजाय ॥ १६ ॥ नार सहम अयमय निविड, चोडी सांकल ताम ॥
 पुरजनेन श्याप्रधी, प्रहे कडाने काम ॥ गगल नगरने ततदणे, कीयां दाल कहेल ॥
 नगर लोक पारुत चयो, गजधी अतिहि अंतलि ॥ १७ ॥

॥ दान १३ मी. ॥ (कोड शूर सुचटने जांगो रे. ए देदी.)

गज नटां देकीने नृगति, मनमां एम यिमासेरे ॥ बुद्धिंत बलध्री निण शूरो, थ
 नय नही मुत्र पागेरे ॥ तुमे लागेरे, कोर गयधर पकडी लागेरे ॥ कोड वाय उपाय

वताचोरे ॥१॥ ए आंकली ॥ तेह अचति मांहे विराजे, प्रद्योतन गृह गाजे रे ॥ अवर न
इण नगरे कोइ एहवो, जे ए कोइ संकट भाजे रे ॥ तु०॥१॥ सुन्नट सकल सेना थइ चि
हुं दिशि, पिण गज दाय न आवे रे ॥ विलखा थइने वीर हुता ते, नासीने घर जावे रे ॥
तुमे०॥३॥ पडह वजाव्यो प्रगटपणे तव, जे गज वश्य करी लावे रे ॥ सोमश्री पुत्री ते
परणे, ग्राम सहस्र बली पांवे रे ॥ तु०॥४॥ पडह सुणीनि धन्नकुमर तव, सुरमखिने पर
जावे रे ॥ गजदमनी विद्याना वलथी, गज ततरूपा वडा आवे रे ॥ तु०॥५॥ फेरवी गज
आकुल करी तडुपरि, वलथी वेठो कुंजे रे ॥ मस्तकमें अंकुश देइ गजने, आण्यो आला
न यंजे रे ॥ तु०॥६॥ बांध्यो गजने स्वल्प प्रयांस, सहको अचरिज निरखे रे ॥ नर रूपे
ए देव ठे कोइक, इम मनमें सह परखे रे ॥ तु०॥७॥ नृप निरखी परखी तस गुणथी, नि
ज वच प्रत्यय थपे रे ॥ सोमश्री पुत्रीनं श्रीफल, धनाशाहने आपे रे ॥ तु०॥८॥ लगन
थापीने तिलक वधावी, धवल मंगल देवरावे रे ॥ उद्य अथिक करी धनाने, सोमश्री
परणावे रे ॥ तु०॥९॥ गाम सहस्र दीधां मनगमतां, दीधा गज रथ वाजी रे ॥ श्रेणिक
राजाये मनमोवे, कीधा जमाइ राजी रे ॥ तु०॥१०॥ धन्ने पिण पाणिगृहणने देते, धन
व्यय बहुलो कीधो रे ॥ स्वजनाविक जन सधि संतोप्या, धान याचकने दीधो रे ॥ तु०

॥१॥ तदा क्षीनो जुगते जग नरलो, पूर्य पुण्य संयोगेरे ॥ देव स्वीथी आसक्त रदे
 निम, चेतन देव उरयोगेरे ॥ तु०॥१॥ देव योगेदकनी परे विज्ञसे, योग संयोग सयाडि
 रे ॥ तेरमी शाले चीजे छन्दसो, बुध जिनविजये गाडरे ॥ तु०॥३॥

॥ दोहा ॥ धनादाद प्रसंगथी, आनिजत्र संवय ॥ वर्णयदुं संकेपथी, सुगुजो
 तद प्रवय ॥१॥ राजगृह पाले प्रये, आनिमम मुनिल्यात ॥ पडुपात्रिक तिहां कणे र
 हे, भंगमं करो तान ॥२॥ धना तेहनी दुचमती, धरणी पुण्य पवित्र ॥ संगम सुत ठे
 तेहने, तपु नगथी मुचस्त्रि ॥३॥ गंग योगथी मन्यदा, धना धय बुल्यत्र ॥ लक्ष्मी
 विण सांगे गर, कर्म योग निर्यत्र ॥४॥

॥ शाल १५ मी. ॥ (देवी नणदलनी.)

तय धना मुतने प्रही, गजगृहीमें याम हो ॥ मुंदर ॥ यतीने इत्यादिक धर, करे ति
 हां कर्म श्रन्याम हो ॥ मुंदर ॥ पुण्यतलां फल सांजो ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ पुण्य विना
 नरि सिदि हो ॥ मुं० ॥ पुण्य अधिक जगमें कळो, पुण्यथकी नय नीधि हो ॥ मुं० ॥ पु० ॥१॥
 भंगम चार सामटां, वाठक्यां नन मांदि हो ॥ मुं० ॥ एक विरस पायस तणो, जोजन

० पशुपतिक नामे गोवाल. १ धना नामे घोने धणी वरण पाप्यां. ३ मसुरी करे उ.

देखे त्यांहि हो ॥सुं०॥ पु०॥३॥ माताशुं हठ मांडने, मागे पायस ताम हो ॥सुं०॥ श्रांखे
 श्रांसु नांखती, माता बोले आम हो ॥सुं०॥ पु०॥४॥ न मिले पूरा कूशका, ज्ञोजन वेला
 जात हो ॥सुं०॥ तैलादिक पिण बोहिलो, तो पायसनी शी तात हो ॥सुं०॥ पु०॥५॥ रुदन
 करे बालक हवे, माता तच उःख दीन हो ॥सुं०॥ देखी पाडोशणो मीली, पूजे ते सुप्रवी
 न हो ॥सुं०॥ पु०॥६॥ वात कही सवि बालनी, मागे ए परमान्न हो ॥सुं०॥ ते बोलीयो
 हसी ततकणे, एदमां शंठे अज्ञान हो ॥सुं०॥ पु०॥७॥ दूध खांड घृत शालिने, आणी
 ये एकंक हो ॥सुं०॥ सर्व संजोगे नीपनी, खोर ते अति ही सुठेक हो ॥सुं०॥ पु०॥ ८॥
 बासक तेडी हर्पंशुं, पिरसे ते परमान्न हो ॥सुं०॥ पवन अकी शीतल करे, राखी निअय
 ध्यान हो ॥सुं०॥ पु०॥९॥ एहवे मुनिवर गौचरी, फिरता आहारने काज हो ॥सुं०॥ मा
 सखमणने पारणे, तिहां पद्दोत्या सुखमाज हो ॥सुं०॥ पु०॥१०॥ देखी मुनियरने तिहां,
 जागी वाननी बुद्धि हो ॥सुं०॥ समकित कायोपसम धकी, आत्म अयो सविशुद्ध हो ॥
 सुं०॥ पु०॥११॥ दान दियो ऊजठ धरी, न करी धिमासण कोय हो ॥सुं०॥ कोइक जाव
 विशेपथ्री, षट्ठ संसारी होय हो ॥सुं०॥ पु०॥१२॥ मुनिवर दहोरी संचख्या, संगम चाटे

प्रायः हो ॥सुं०॥ देवी माता चिंतये, ब्रूलो वे इजी बाल हो ॥सुं०॥ पु०॥ ३॥ पिण्डी
 होय हंती तिंके, स्वार्थी ग्वीर स्याद हो ॥सुं०॥ ब्रूलो बालक मुज रहे, इम धेर मन चि
 प्याद हो ॥सुं०॥ पु०॥ १४ ॥ माता आगल मुनितणी, वात न कीनी कांय हो ॥सुं०॥ रा
 त्री समय ठवरे व्यथा, अच अजीर्ण ते थाय हो ॥सुं०॥ पु०॥ १॥ यतः ॥ भनुटुब्रुचम. ॥
 भंजीर्णतपसःक्रोधो, ज्ञानाजीर्णमदंक्रुतिः ॥ पग्तापिक्रियाजीर्णं, मद्याजीर्णं विपृचिक्र
 ॥१॥ ज्ञार्थः—तपनुं भजीर्ण क्रोध, ज्ञाननुं भजीर्ण अदंकार, क्रियानुं अजीर्ण पग्ने
 परित्ताप उपजाययो तेमज अन्ननुं अजीर्ण उलटी अने जाडो जाणनुं. ॥१॥ ते पीडात्री
 मृत्युने, पामे संगम बाल हो ॥सुं०॥ बीजे उब्ध्यासे जिन कंठे, चांदमी बाल रमाल
 हो ॥सुं०॥ पु०॥ १६॥

॥ दोहा. ॥ ते राजगृहमें नसे, गौजइ डोठ गुणयंत ॥ धनत्री धनद समान ठे,
 न्याय नीति पुणयंत ॥१॥ जज्ञ जामिनी तेहनी, रस कला भागार ॥ राया कल्यातपी
 परे, बिलसे विविध प्रकार ॥२॥ हने ते संगम जीव चवी, जज्ञ उर उल्पन्न ॥ सुगन मां
 धि तय शालिनो, दीगे क्षेत्र निण्यन्न ॥३॥ फल पूबयो जगतारने, सुणी डोठ सुबिलासा
 पुत्र रत्न होशे जलो, कुलमंनन सुप्रकाश ॥४॥ वंपति दिन दिन अति मुदित, रहे सदा सु

प्रसन्न ॥ पूर्ण मास पक्षेते धके, जनम्यो पुत्र रत्न ॥५॥

॥ दाल १५ मी. ॥ (रामचंद्रके वागमें, चांपो मोरी रखोरी. ए देशी.)

प्रसव्यो पुत्र सुरंग, नृश हर्ष धरेरी ॥ शेर सुणी तव वात, उद्यव अधिक करेरी
॥१॥ पंच शब्द वाजिंत्र, घर भांगणे वाजेर ॥ जेरी नृंगल घन घोर, अंतर लागि गाजे
री ॥२॥ सोहव गावे गीत, ये आशीप घणोरी ॥ तुं कुलमंन पुत्र, मुखथी एम जणे
री ॥३॥ याचकने दिये दान, वंठित तेह तणेरी ॥ सयण संबधीने मान, विविध प्रकारे
घणेरी ॥४॥ पूजा परिघल चित्त, जिनमंदिर विरचेरी ॥ कुलदेव्याने ताम, चंदनथी च
रेरी ॥५॥ दश उठामण एम, कुल मर्याद कियोरी ॥ पोखी नात पवित्र, नाम विचा
री दियोरी ॥६॥ सुपनमें शालिनो क्षेत्र, दीगो अति सुखकारी ॥ तिले करी शालिजइ कु
मार, नाम दियो निरधारी ॥७॥ रूपे अमर कुमार, के रति पति सम कहीए ॥ इत्तणे
अनुहार, अवर न इण युग लहीए ॥८॥ सुंदर वाणी सार, गज गतिनी परे चाले ॥ ठम
क ठमक ठवे पाय, मात पिता मन महाले ॥९॥ अड्य प्रयासे ताम, विद्याभ्यास करावे ॥
पठित संजारे जेम, तिम तस सयली आवे ॥१०॥ योचन भाव्यो जाम, ताम बचीश
कुमारी ॥ शुक्त येला शुक्त वाम, परणावे सुविचारी ॥ ११ ॥ तेदजुं विविध प्रकार, पंच

विषय मुख्य बिलसे ॥ जाणो न रात ने वीह, चरण धरणि नही फरसे ॥१२॥ महमिं
 नो शयतार, ते झाजिजइ सोजागी ॥ वीजे उब्दारे डाल, पंदरमी गुणरागी ॥१३॥
 ॥ दोदा. ॥ एहेचे राजगृह नगर, अन्नप मंत्रि विण ताम ॥ न्यायादिक व्यनदार
 विण, धयुं श्रेष्ठे निष्काम ॥१॥ निशा चंइ विण जेदरी, इंत रहित गजराज ॥ कुमुद वि
 ना जिम सर सदी, (कुमुम गंध सर जल विना,) चरण दीण करिराज ॥२॥ तिम मंत्री
 विण नृप सजा, वीमे दिन दिन ॥ भन्नयकुमरने अनुदिने, मंजारे सहु लीन ॥३॥
 धूर्त्त एक एहेचे तिहां, एकाकी अनियेक ॥ लोन्नवडो घनवंतने, धूर्त्त ए तस टेक ॥ ४ ॥
 वेदा थरी सुपरे सुजग, सार्थयाहने ताम ॥ गौजइ शेठ तण घरे, आव्यो पूवी नाम ॥५॥

॥ डाल १६ मी. ॥ (मेतारज मुनियर, घन घन तुम भयतार. ए देडी.)

धूतारो तस धूतया जी, आव्यो गौजइ आंगार ॥ भासन वेमण भापियो जी, की
 धी घणी मनुझार ॥ सोजागी साजन, वेखो धूर्त्त विचार ॥१॥ ए भांकणी ॥ कुडावाला
 प पूठे तिहां जी, गौजइ जइक शेठ ॥ एकाकी जी जी करे जी, रागी नीची ड्यामो
 ॥२॥ यत्ततो धूर्त्त कंइ सुणो जी, शेठली सेवक यात ॥ चंपाये आव्या हुता जी, तुम व्य
 वसाये निख्यात ॥सोण॥३॥ लक्ष दिनार लीया तिहां जी, मं तुम पांस सुपात्र ॥ नयन

एक ही धुं धुं जे, देगो ते मुज गाथ ॥सो०॥ ४ ॥ ते धन लक्ष लेई घणों जी, कीथो मे
 व्यवसाय ॥ वृद्धि पई तेहती पणी जी, पूरव पुण्य पत्ताय ॥सो०॥ ५ ॥ व्याज युक्त धन
 तेंपने जी, धो मुज लोचन तेह ॥ वीज द्ये करवी नही जी, राखो पूरव नेह ॥सो०॥ ६ ॥
 येहे गौतम गुणो शंजर्जी जी, ए र्शा खोटी रे तात ॥ चंपा पिल दीत्री नर्या जी, लोचन
 नी र्शी वात ॥सो०॥ ७ ॥ आज जेगे नचि सांजड्यो जी, लोचनतो व्यवहार ॥ खोटी वा
 त प्रशासतां जी, मिम रंदेशे इतवार ॥सो०॥ ८ ॥ तय काणो भाक्रेशर्था जी, बोने बड
 बड यण ॥ शोडिथकी बहु मृद्व्य ठे जी, निर्मल मादरुं नेल ॥सो०॥ ९ ॥ रुहु देवी राख
 गो जी, शु मुज नेत्र गुजाण ॥ धामर हुं गहुं नही जी, जो मुज पिंरुमें प्राण ॥सो०॥
 १० ॥ गौतमशंजेने प्रदी तदा जी, लेई गयो दरवार ॥ श्रेणिक नृप संशय पड्यो जी, निमुणी
 वात रिचार ॥सो०॥ ११ ॥ भजनयकुमरेने प्रति घणुं जी, संजारे महु ताम ॥ जो एक मूर्ये
 वरय एरे जी, तो मिमुं दीपर काम ॥सो०॥ १२ ॥ न्याय न थाये कोइथी जी, तय श्रेणि
 क नूयाल ॥ पुरमें परह वजावियो जी, सांजलजो चउमाल ॥सो०॥ १३ ॥ काणे जे ऊ
 मशे रथ्यो जी, तेहतो जे करे न्याय ॥ गौतमशेठ पुत्री तणो जी, पालिमहण तम थाय

॥सोण॥ १४॥ पडद सुणी घंश उठ्यो जी, आठ्यो नृप दरवार ॥ तेडावी काणा प्रते जी,
 कडे डम वात विचार ॥सोण॥ १५॥ गौनःशेवना घर तणा जी, तुं भमे लेखक घीर ॥
 वात सकल भम वफतरे जी, लिखि राखी ठे चीर ॥सोण॥ १६॥ शेवने खवर न को पडे
 जी, वेण वेण घन वात ॥ नामु गमु पडनुं जी, जाणुं तुं भमे व्रात ॥सोण॥ १७॥ पूवयो
 शेवं भम जणी जी, नयन तणो व्ययसाय ॥ संजाली भमे जोईयुं जी, तय पाम्या सवि
 गाय ॥सोण॥ १८॥ लाग वीय घन भम प्रते जी, भायो प्रथम एक यार ॥ तय घूतारे तत
 दूणे जी, कीयो इय तैयार ॥सोण॥ १९॥ कहे धन्नो भम शेवने जी, घरमें नेत्र अनेका ॥
 मूण्यां ठे ते वडु जणे जी, घन कारण सुचिके ॥सोण॥ २०॥ ते कारण तुमे तुम तणो
 जी, द्यो लोचन मुप्रकार ॥ जोडने ते सारिलो जी, वीजे नेत्र ईवार ॥सोण॥ २१॥ सुणि
 काणो निजलो थयो जी, नेत्र ते कम कढाय ॥ लेहणाथी देहणो थयो जी, मूकी घन ते
 जाय ॥सोण॥ २२॥ नृपति मन हरमित थयो जी, बुदि थकी ततलेव ॥ पकडी धूतारो
 तदा जी, काठ्यो दंशथी देय ॥सोण॥ २३॥ जयलदमी घेने वरी जी, पूर्य गुण्य पसाय ॥
 वीजे उड्ढासे सोलमी जी, दाल ए जिन सुखदाय ॥सोण॥ २४॥
 ॥ दोहा. ॥ गौनःशेवने नय गयो, हदय थयो उद्याह ॥ घन्नो मतिवाहण तखो,

एक दीपुं अठे जी, देरों ते मुज गात्र ॥सो॥५॥ ते घन लक लेई घणोजी, कीयो मे
 द्यवसाय ॥ वृद्धि धई तेहनी घणी जी, पूरव पुण्य पसाय ॥सो॥५॥ व्याज युक्त घन
 तरंगे जी, यो मुज लोचन तेह ॥ दीस ह्वे करवी नही जी, राखो पूरव नेह ॥सो॥६॥
 वेह गोनच गुणो शेगजी जी, ए र्शी खोटी रे तात ॥ चंपा पिण दीठी नथी जी, लोचन
 नी र्शी यात ॥सो॥७॥ आज लगे नवि सांभड्यो जी, लोचननो व्यवहार ॥ खोटी वा
 त प्रकशतां जी, किम रंदेशे इतवार ॥सो॥८॥ तव काणो भाकोशथी जी, बोले वड
 षड येण ॥ कोडिथकी बहु मृद्व्य ठे जी, निर्मल मादरुं नेण ॥सो॥९॥ रुहुं देखी राख
 शो जी, शुं मुज नेत्र सुजाण ॥ आखर हुं गेहुं नही जी, जो मुज पिंरुमें प्राण ॥सो॥
 १०॥ गौनचशेगने प्रही तदा जी, लेई गयो दरवार ॥ श्रेणिक नृप संदाय पड्यो जी, निसुणी
 यात विचार ॥सो॥११॥ भन्नपकुमरने अति घणुं जी, संभारे सहु ताम ॥ जो एक सूर्य
 उदय हुये जी, तो किशुं दीपक काम ॥सो॥१२॥ न्याय न पाये कोईथी जी, तव श्रेणि
 क नृपाज ॥ पुरमें पडह यजावियो जी, सांभलजो चमसाल ॥सो॥१३॥ काणे जे ऊ
 गडो रप्यो जी, तेहनो जे करे न्याय ॥ गौनचशेठ पुत्री तलो जी, पालियहण तस धाय

॥सो०॥ १४॥ पढइ सुणी घेने ठव्यो जी, श्राव्यो नृप दरवार ॥ तेडावी काणा प्रते जी,
 कहे इम यात विचार ॥सो०॥ १५॥ गौनइगेगना घर तणा जी, तुं भमे लेखक घीर ॥
 यात सकल भम वफतरे जी, लिखि राखी ठे वीर ॥सो०॥ १६॥ शेवने खबर न को पडे
 जी, देण देण घन यात ॥ नामु ठामु एहनं जी, जाणुं तुं भमे ब्रात ॥सो०॥ १७॥ पूवघो
 शेठे भम जणी जी, नयन तणो व्यवसाय ॥ संजाली भमे जोशुं जी, तव पाम्या सवि
 ठाय ॥सो०॥ १८॥ लाख बोय घन भ्रम प्रते जी, भापो प्रथम एक वार ॥ तव घूतारे तत
 दृष्टे जी, कीयो इय तैयार ॥सो०॥ १९॥ कहे धन्नो भ्रम शेवने जी, घरमें नेत्र अनेका ॥
 मक्यां ठे ते वडु जणे जी, घन कारण सुचिके ॥सो०॥ २०॥ ते कारण तुमे तुम तणो
 जी, यो लोचन सुप्रकार ॥ जोशने ते सारिखो जी, वीजे नेत्र इवार ॥सो०॥ २१॥ सुणि
 काणो विलखो थयो जी, नेत्र ते कम कढाय ॥ लेहणाथी देहणो थयो जी, मूकी घन ते
 जाय ॥सो०॥ २२॥ नृपति मन हरखित थयो जी, बुद्धि थकी ततलेख ॥ पकडी धूतारो
 तदा जी, काढ्यो दंशथी देख ॥सो०॥ २३॥ जयलदमी घेने वरी जी, पूरव गुणय पसाय ॥
 वीजे उब्हाले सोलमी जी, ढाल ए जिन सुखदाय ॥सो०॥ २४॥
 ॥ बोदा. ॥ गौनइ शेवने प्रय गयो, हृदय थयो उछाह ॥ धन्नो मतिवाहण तखो,

दि जी, देखो ते मुज गात्र ॥सोण॥४॥ ते घन लक्ष् वेई घणोजी, कीधो मे
 अकि धई तेहनी घणी जी एग्न गात्र

समुद्र अथाह ॥२॥ पुत्रि सुन्दराना निहां, भसाडाहना साध ॥ निवाहना निभय
 , भारी अरुंता ॥२॥ अग्न ॥२॥ अग्न ॥२॥ अग्न ॥२॥ अग्न ॥२॥ अग्न ॥२॥
 मूर्ति प्रकाशतां जी, अिवा पकवान ॥३॥ मंरुप महोदा गात्रिया, लिं नाम ए नागा
 ॥३॥ अथी, युगेते मली युगति ॥३॥ परगया न समुद्रिन पण, जग र्तिना
 ॥३॥ अने मान दीयां दुग्म, पाक्या परि जन वृद ॥३॥ नाडी अणय्यती निहा, नि
 गण जोग ॥ जिम मुनिवर नीणा रहे, गुनि अय गवाग ॥३॥ गना पण मान प
 ॥३॥ अथि युक्ति अथाह ॥ दोग मनारनि संवेन, वज्जन असाडाह ॥ ॥

॥ दान २३ मी. ॥ (अणराज्यानां दती.)

एहेने मीर समोसखां र, परिगत वह परिवार ॥ गुणता पूरा ॥ गीतम प्रमुन गुण
 नखां र, पीर सहम अणगात्र ॥ गुणता पूरा ॥ अनां खां र, ए अणपति पांर ॥
 ॥३॥ ॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥
 ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥
 ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥ अण ॥३॥

॥ वाह्य. ॥ श्री जिनगुरु प्रणमं मुद्रा, समंभान
 चरि स्वाम ॥ दिन कंडी ॥
 मनो, अथ प्रीति उच्छ्वास ॥१॥ नर्णयद्युं मन मोदयी, श्रुतेदेवी सुरराय ॥ श्रोता जन
 सवि गान्तो, अति उन्नम सुगदाय ॥२॥ आह यत्रो सुगमं गेह, गतचूमि मायास ॥
 नाटक चित्तिय प्रहाग्यी, निरखे चित्त उच्छ्वास ॥३॥ एह्ये एक दिन मायता, दीगा पितृ
 स्वरूप ॥ अघत्र त्रिपये पिण तिमां, कांतायुत निहूर ॥४॥ यत्र जीर्णं यमुथी रक्षित,
 पंशु निक्षिप्त दृगीर ॥ दंद मंद कर्मं नगी, भानुरयंत अधीर ॥५॥ चाहे पग पग पूवता,
 राजगुहनी पाल ॥ देवीनि नित चिंतये, ए डी दीसे उल ॥६॥ उच्छयनीमां एहने, मू
 न्यांठे दून काम ॥ एह्ये अयस्था किम थड, एइतो नदो विराम ॥७॥ इम चिंती क
 न्यो नुग्त, महोल भकी मतरंग ॥ आब्बो अति उतायलो, मात तातने संग ॥८॥ तात
 नगण मुपंरं नमी, सिद्धयो मन हग्गे मात ॥ वांयच जोजाडं प्रंत, प्रणमी पूरे याता ॥९॥

॥ दाल ? ली. ॥ (देवी चोपावनी.)

पूने भांता चिंतये यात, कहो तात एडो अययात ॥ में मुग्ग हता सुख आवास,
 एइ अगश्चा किम हुए तास ॥१॥ तव कंदे तात सुणोरे पूत्र, तुम जातां विणवयो घर
 मूत्र ॥ लदमी सवि तुम सांथे थड, मंदिर दोजा पिण तिम गर ॥२॥ राजानो उपन्यो

स्वपत्न्य, धन लीषो तिणं सकल निदान ॥ धरतीनो धन धरती गड्यो, शेष रथो ते अ
 नरे षड्यो ॥२॥ शेषाशेष प्रही गृह सार, उक्कयनीयो करिय जुहार ॥ चाड्या पंधे थड
 आरुजा, मारगमांही तरार मड्या ॥५॥ वृष्टी जीवा थमनं तिहां, फिस्ता फिस्ता भा
 द्या इशो ॥ करिय पेट पूरण अति डःये, तुज विरहे नवि वेवा सुखे ॥५॥ तुज मिलेये
 देये पयो संतोप, पाग्या हंये धमं पूरण पाय ॥ तुं अम कुज मंरुण कुज दीव, कुज भा
 धार पलो नु जीव ॥६॥ तव धनां मन चिते इशो, भाग्यादय एहनो नदि तिडो ॥ प्रछ
 म पले रायी तिले राय, वन्नात्ररण धकी सुखदाय ॥३॥ करि शोभा सहुनी तिलियार,
 पति पहोन्शो ते निज भागार ॥ तेढाव्या तिहां व्यवहारिया, मान देइने पासे लीया ॥७॥
 चुमुमपाल गौजइ सुजइ, देवपात महिपात देवेइ ॥ अमिततेज महितेज दयाज, पु
 एपपार जिनपात कृपात ॥९॥ धनपाल धर्मपाल मयाल, भूथर श्रीधर ने श्रीपात ॥
 भासपात गुलपात पवित्र, सेमकरण जपकरण सुचिन् ॥१०॥ देवकरण कुंजकरण मु
 यार, रिजपकरण गजकरण गोदान ॥ त्रिनरहित जिनदन जयंत, देवदन करिदन
 नहेर ॥११॥ गायरचंद शिवचंद सुकुंद, गोविंद माधव धवत आर्षेद ॥ शंगर सुनेद मु
 आर अचकोन, बीरभेन महेभन इबभन ॥१२॥ इत्यादिक आव्यर शून गीत, पत्ताडाव

मिट्टिया एक चित्र ॥ करि इय रथ शिणगारी किया, व्ययहारी सवि साथ लिये ॥१३॥
 यार्जते गार्जित्र सुनंग, चाट्या तात तेडण मनरंग ॥ भारी तातने लाग्या पाय, सट्ट
 व्ययहारी मिट्टिया तिण ठाय ॥१४॥ कुशलालाप पूठे ग्रन्योन्य, मात पिता इरळ्या बट्ट
 मन्न ॥ मात तात सुग्यासने सार, बांधयने दिया तरल तुलार ॥१५॥ नोजाइ रथे वेसा
 रियां, आदर मान विशेषे दियां ॥ तेडि भाब्या निज आयास, सट्ट साजननी पूणी आश
 ॥१६॥ याचक जनेने संतोपिया, परिचल पक्याने पोपिया ॥ श्रीजे उट्टहासे पधेत्ती बाल,

जिन केहे पुणये मंगल माल ॥१७॥

॥ दोहा ॥ धने पिण धीरज धरी, निज बांधयने ताम ॥ आप्यां मन उल्कयथी,
 एक एक दत्त गाम ॥१॥ यव्यान्नरण गृहादिके, पोळ्या धणुं अतीय ॥ तो पिण गुण लेये
 नही, अगुण ये सदैव ॥२॥ यतः ॥ भनुधुवृत्तम् ॥ ललः सक्रियमाणोपि, कदाति क
 ल्लं सतां ॥ उग्यथीतोपि कि याति, वायमः कल्लंसतां ॥१॥ ज्ञानार्थः-सत्कार करतो ए
 नो पण गल पुरुय जे ते, कल्लंसताने आपे ठे एटले उवेग करावे ठे. अर्थात् ते कदि पण
 पोतानुं लल्लपणुं ओढतो नथी. जेम कागढाने दूध बडे धोयो होय, तो पण शुं ते राजहंस
 नीपेठे घोळो थाय? नज आय. ॥१॥ अणिल अवेखाई घरे, ते त्रिणये शठ सीह ॥ शाम

गदन भदनिशि रहे, जायदीनमां लीह ॥३॥ ते देखी धनशाहजी, चिंते चिन विज्ञेप्र ॥
एहने हितकारण झली, हुं जाइश परदेश ॥४॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम् ॥ दिसइविधिहरि
ये, जाणिकरसऊणउऊणविसेसो ॥ श्रप्पाणं च किलकड, हिंरुऊर तेण पुहविए ॥५॥
आगार्थः-परदेश जयापी यिकिय प्रकारनां चरित्र देखयामां आवे वे, मऊन अने दुऊं
नमां शुं फेरठे ? ते जाणयामां आवेठ अने आत्मानां कलना थाय वे, ते माटे पृथ्वीमां
चालवु जोइए ॥७॥ ए लक्ष्मी ए गृह प्रमुख, विलसो एइ निश्चित ॥ सुख संयोग लहि
शुं भूम, जो वेदो जगवंत ॥८॥ इम निश्चय करि चित्तर्था, गृहि चिंतामणी पास ॥ एका
की टग मन करी, चालण कियो प्रयास ॥६॥ राजाने पृथयो नदीं, त्रिएये स्त्रीने तेम ॥
श्वरुर प्रमुरर सवि सयणने, नाग कंचुकी जेम ॥७॥ उंडीने चाड्यो चतुर, यामिनिये
तिए ताज ॥ देदा बिंदेश विलोक्तो, नवनव कौमुक ल्याल ॥७॥

॥ दाल २ ली. ॥ (मगधदेशको राज राजेसर. ए देशी.)

धमोदादे ते पुण्य प्रयोगे, चिंतामणी संयोगे ॥ चिंतित कार्य सकल सार्थतो, जा
ग्यवते सुर नोगेरे ॥ जरियां, पुण्यतलां फल पेलो ॥ पुण्ये सयल पदारथ सीऊं, पुण्य
प्रबल जग देखेरे ॥ न० ॥ पु० ॥ १ ॥ ए आंकली ॥ यछेदेशे कोडांची नगरी. अनऊमे तिहां

कर्म श्रेय ॥ अथानक धैर्य वेदं धनधी, सुखसय काल गमनं रं ॥ न० ॥ पु० ॥ ७ ॥ गय मं
 तानिक सिद्धिं गता, सहस्रानिकनां वेदो ॥ तन्नीष्ट रात्र्यगुणं करी पुंग, श्यागी मर्म
 श्रान्तो रं ॥ न० ॥ पु० ॥ ३ ॥ यतः ॥ आयोयुजस्य ॥ उग्रमनाशतपात्तण-मश्रितननार्ण च
 रांगयिन्दानि ॥ अतिथकपट्टयो, नात्तयजनं ताम्भ्यापि ॥ १ ॥ नागाश्रेः-दानेन इमर्ण,
 श्रान्तं पात्तण कर्णुं धने अश्रितजनो पट्टे दारणं शोशान्तं नरगा योपण कर्णुं, पुत्र
 श्रण रात्र्यचिन्तं, परंतु दातव्यमनाथिक विना रात्र्यानिंयक, मन्थके पट्टंय श्रने वंश
 यात्रु चामरोनुं विंगान्तं, ते गूमठा तुष्टयं ते यथांतु गूमठानं त्रैम पाणीनां अत्रियेक,
 पाटो धने मर्निनिनुं नवात्तुं श्रायंते, तम प्रोक्त रात्र्यचिन्त विना अतिथकपट्टिक पण
 गूमठा तुष्टय जाणया ॥ १ ॥ अहनी जगिनी जयती जाणी, सतिगां मांष्ट गवाणी ॥ चा
 त्तुमारी प्रथम दास्यतरी, नीरे त्रेष्ठ नवाणी रं ॥ न० ॥ पु० ॥ ३ ॥ गय मंतानिकनी पट
 राणी, सुगान्ती मपरानी ॥ चंडा महागजानं पुत्री, चानी जगसां जाणी रं ॥ न० ॥
 पु० ॥ ३ ॥ पुत्र चक्षयन नाम दुंगे, महात्त कलांगं पुंग ॥ वीणा नात्र विदोय नजांय, गां
 धनिक गुणं पुंगं रं ॥ न० ॥ पु० ॥ ३ ॥ मौनाग्यमंजरी नृपनी घंटी, कंय रतिनी जोडी ॥
 लक्ष्मीनी परं लक्ष्म्यवती, काय न वीरि खोडी रं ॥ न० ॥ पु० ॥ ७ ॥ गय रंतानिकने जेना

र, सहस्रक्रियण मणि सांदि ॥ पेट्टी परंपर सहु को पूजे, दर्शन करी दित्त मोहरे ॥१०॥
 पु०॥८॥ पिण तेहनो गुण कोय न जाले, तव नृपे परिकृक तेज्या ॥ मान देइने मणि गु
 ल पूजे, पिण कोइ न केहे उठ्यांर ॥११०॥ पु०॥९॥ तव नृपे नगरमां पडह वजायो, मुण
 जो सकार सांकाइ ॥ जे ए मणिना गुण देखांडे, प्रथय प्रगट बनाइ रे ॥११०॥ पु०॥१०॥
 तेहनं नृप नृप्यां दिये हरये, पांचशे गाम उदार ॥ पांचशे हाथी पांचशे घोडा, वज्रि ये
 मपर प्रकार ॥११०॥ पु०॥११॥ बेट्टी गुणनी जे ठेपेट्टी, सांजाग्यमंजरी सारी ॥ पर
 लाये नृप तेहनं रंगे, मणि परिकृक जे विचारी रे ॥११०॥ पु०॥१२॥ सांजनी पडइ ठव्यो
 ते जाणी, धम्राशांहे ताम ॥ राजसज्जामां प्राव्यो वेगे, नृपन करी प्रणाम रे ॥११०॥ पु०
 ॥१३॥ देखी नृप सधु वपयी बोल, रे वड्ड! नृं हजी नदानो ॥ रत्न परिक्षा करवा समर
 प, कोइ न परगट ठानो रे ॥११०॥ पु०॥१४॥ बुद्धि विदेश जो होये तुमची, तो ए मणि
 गुण शायो ॥ यात्र ए बीजी प्रीजे उच्छासे, जिन केहे मन दृढ राखो रे ॥११०॥ पु०॥१५॥

॥ शेषा ॥ केहे धनदाद नृपति सुणो, रत्न परिक्षा वात ॥ दास्य सकल ज्ञोयां च
 जे, गुरु समीप सुखियात ॥१॥ हीरो मोती निजमणी, मालिक्य मरकत संच ॥ मूल
 रचना नेर ए, शांभे बोधया पंच ॥२॥ पुष्कराज वैरूपे तिम, विहुमेने गोमेद ॥ ए चौर

चपरत्नना, दाख्या ठे शुभ्र जेव ॥३॥ ए नव रत्ने आश्रया, नव ग्रह ठे निरधार ॥ नव
 पिण देखाठे तुरत, श्रेष्ठ नेष्ट तिणि वार ॥४॥ पद्मराग रवि १ मौक्तिक शशी, २ विद्रुम
 नीम ३ विख्यात ॥ बुध मरकत ४ शृगु रज ५ तिम, पुष्कराज गुरु ६ जात ॥५॥ इन्द्र
 नील दानिनो ७ कल्लो, राहु गोमेद ८ गणिल्ल ॥ केतु वैभूर्य ते लसणियो ए, नव चित्र
 एह जणिल्ल ॥६॥ स्फटिक रत्न चिहुं जेवथी, सूर्यकांत १ शशिकांत २ ॥ हंसगर्जन ३ ज
 लकांत ४ तिम, गुण निष्पन्न एकांत ॥७॥ साठ जेद ठे रत्नना, रत्नपरिका मांड ॥ गुण
 प्रगुण पिण तेदना, दाख्या ठे सोद्याह ॥८॥

॥ ढाल ३ जी. ॥ (काज सीध्यां सकल ह्ये सार. ए देशी.)

पीरोजा अजर प्रकार, नील वांयावंत उदार ॥ पीत रक्त प्रजा पिण होवें, शाम
 रंग ते सवि विप खोचें ॥१॥ ए चारे पीरोजा जाते, गुण एहना नव नव जांतें ॥ पाराप
 त मीना रंगे, मणि सिंदूर वर्ण अर्जंगे ॥२॥ रेखायुत अजर प्रकार, मणि जेद अनेक वि
 चार ॥ इत्रे चिंतामणिना जेद. निसुणो कहुं टाली खेद ॥३॥ हीरानी कांति समान, जा
 खूर अति वैदिप्यमान ॥ रेखा त्रिणये कनी युक्त, मणि वीर्य थकी विप्रमुक्त ॥४॥ पटकोण
 जज्ञापर तरतो, स्याटांक प्रमाणे धरतो ॥ ते चिंतामणि इम कहीए, सेव्यापी सवि

मुख लहिये ॥५॥ रति उपरनो जेह रत्न, तेहनां कीजे बहु यत्न ॥ रत्नाकरनो निष्पन्न, स्वा
 न्नायिक घाट संपन्न ॥६॥ तेह रत्न सकल फल आपे, खंफित दुःख स्थानके थापे ॥ ह्वे
 मौक्तिक श्राव प्रकारे, उत्पत्ति कही अनुसारे ॥७॥ ठीपोदर १ गजने शीश २, मद्य ३ शं
 ख ४ वराह ५ जगीश ॥ वंशमूल ६ मंजूकेने ७ नाग ८, ए श्राव स्थानक शुभ्र लाग ॥७॥
 मणिरत्न तणा बहु नैद, दाख्या शाख तजीने खेद ॥ तुम मणि ए ठे बहु मूढ्य, चिंताम
 णी रत्नने तुड्य ॥८॥ एह मणिने राखी लंग, करे युद्ध ते होय अन्नंग ॥ एह जेहने गृहे
 पूजाये, इति सात तिहांधी जाये ॥९॥ भूत प्रेतादिक साक्षात, जे कोप्या करे उत्पात
 ॥ ते पिण एह रत्न प्रनाये, शुन शांति हेविं यडवावे ॥१०॥ ज्वर यमन शूनादिक रोग,
 ते ए मणिने संयोग ॥ सवि कष्ट ते दूरे थावे, जिम रधि तेजे तम जावे ॥११॥ एहनो प्र
 त्यय तुमे देखो, सुविशेष थकी तुमे पखो ॥ महोटी एक थाल मंगायो, शुन शालि क
 णेथी जरायो ॥१३॥ मध्यस्थाने ए मणि मूकों, पठे निरखंतां मत चूको ॥ कोइ पंखी
 जात न खाये, तो ए मणि परिक्षा थाये ॥१४॥ राजाये तत्क्षण कीघो, कोइ पंखीये
 कण नवि लीघो ॥ मणि लीघो श्राद्धघी जाम, कण खाया पंखीए ताम ॥१५॥ सुणो
 स्वामी रत्ननो एह, प्रत्यक्ष प्रताप भठेह ॥ याज्ञ पामे ब्रमण खगे कीघो, कण मात्र

क्रिये नयि लीधो ॥१६॥ तिम ए मणि जहनी पासे, धेरी गद इति ते नासे ॥ श्रूतादिक
 तेदने नयि कोपे, एह मणिने कोय न लोपे ॥१७॥ सुणी राजा प्रत्यय पाम्पो, मन हर
 ग्यो जे हुयो कामो ॥ धनाने ये मनमान, परलपो ए बुढि निधान ॥१८॥ ज्ञेतां मि
 ल्यो जुगते जमाइ, पुत्रीनी पूरण पुन्याइ ॥ त्रीजे उद्धासे सचाइ, द्यात्र त्रीजी जिन

इम गाइ ॥१९॥

॥ दोहा. ॥ राजायें तव दन प्रते, करी उद्य श्रीकार ॥ पुत्री परणाची तुर्त, सी
 आर्यमंजरि सार ॥१॥ ग्राम पंच ठात मोंपियां, तिम दय गय इत पंच ॥ वीजो पिण
 दीधो बहुज, बन्धादिक सधि संच ॥२॥ सुख विलसे दंपति सुखे, चक्रयतिं सम शूर ॥
 बुढि तेज बलवंत तम, जिम गयणांगण सूर ॥३॥ कोंडांबीधी वाहिरे, वाडो धनपुर गा
 म ॥ गढ मढ पोल प्रसादधी, सुंदर अति गुन ठाम ॥४॥ जिनमंदिर महोटां ग्ययां, या
 प्या श्री जिनराज ॥ पूजा सत्तर प्रकारधी, दिन दिन अधिके साज ॥५॥ चोराढी चहु
 टां सुजग, बिसरी तिहां वज्जार ॥ बरण अदार विदोपधी, करं विविध रोजगार ॥६॥ सु
 ग्य मयजो तिहां लोकने, पिण नहि नदिय निवाण ॥ तिणे आतुर धमो रदे, जल विण
 जो अहिवाण ॥७॥ इम विीने ततकणे, सर करवा सुविदास ॥ स्थानक निरखीने उ

रस, आरंभ्यो आयास ॥७॥ शुभ्र वेला अवलोकने, मांड्यो कार्य महंत ॥ मद्देनतिया म
हेनत करे, उष्टक पणे अत्यंत ॥८॥ एक कर्प अवला प्रते, पुरुषने दोय विनार ॥ ज्ञोजन
चोला तैलघी, टंक दोय व्यवहार ॥९॥ घन्नो राजगृही पकी, नीसरियो तिणिवार ॥
जे जे कारण नीपन्यो, ते निसुणो अधिकार ॥१०॥

॥ दाल ४ श्री. ॥ (कृण लाखीणी रे जाय. ए देशी.)

धन्नोशाह जव नीसस्थो जी, ठंढी नारी प्रसंग ॥ नारी त्रिण्ये ततकले जी, नवि दे
खे पियु संगरे ॥ प्रीतम, किदां गया अमने रे ठोडि ॥ हांसीनी वेला नहीं जी, भावो
वालम दोडि रे ॥ प्रीण ॥ १ ॥ ए भांकणी. ॥ अमे तुम पालव वंधिया जी, तुमे अमचा ज्ञ
रतार ॥ तुम आधार वालेशरू जी, जीव जीवन निरधार रे ॥ प्रीण ॥ २ ॥ मात पिताये तुम
प्रते जी, सौप्यां पंचनी साख ॥ केड न ठोडूं जीवतां जी, ते निश्चय मन राख रे ॥ प्री ०
॥ ३ ॥ ए मंदिर ए मालियां जी, ए सुखसेज सुवास ॥ सरवे बहूज तियां लगे जी, जिहां
लगे तुं पियु पास रे ॥ प्रीण ॥ ४ ॥ इम कहेती त्रिण्ये सती जी, जोया सयल आवास ॥ न
वि वीगे बहूज तदा जी, भावी साख पास रे ॥ प्रीण ॥ ५ ॥ अम प्राणेश वीसे नही जी,
अम मंदिर इणिवार ॥ बाइजी तुम त्राया पत्ने जी, अवर कवपा आधार रे ॥ प्री ० ॥ ६ ॥

इम कोहती रडती प्रकी जी, ते त्रिणये तिणियार ॥ विरद विजाप कर धया मा, वरु
 नावे पार रे ॥ प्रीणा ॥ ७ ॥ वीक्षित्यती पिण सांजली जी, धरणी दृष्टी ततन्वेय ॥ वारंवार ए
 पुत्रनो जी, विरह विये कां देव रे ॥ प्रीणा ॥ ७ ॥ तुं मुज आंधा लाकडी जी, कुलमंरण कुज
 ज्ञाण ॥ पर ठपगारी परगढो जी, पैतृक दुःखनो जाण रे ॥ प्रीणा ॥ ७ ॥ वय पाकी हवे अ
 म तणी जी, नूं किम मूकी रे जाय ॥ बढपणमं सेवा तणो जी, फल अधिको कहिनाय रे
 ॥ प्रीणा ॥ १ ॥ यतः ॥ अनुदुःखजन्म ॥ पतिताः पितरस्त्याग्याः, माता नैव कदाचन ॥ गर्भ
 धारण पोषाभ्यां, जनेन्माता गरीयसी ॥ १ ॥ ज्ञावाभ्रः—पतित एएला पिता त्याग करवा
 योग्य ठे, परंतु माता तो कदि पण त्याग करवा योग्य नथी; कारण के, गर्भधारण अने
 पोषण करवायी माता वयोरे मान्य ठे ॥ १ ॥ इम निन्दुर मन तुम तणो जी, किम धायेठे
 रे पूत ॥ तुज विय कणमां अम तणो जी, वियसे ठे परसूत्र रे ॥ प्रीणा ॥ १ ॥ धनसारे पि
 ण सांजली जी, पुत्र गमननी रे वात ॥ शोकातुर विलवे पणुं जी, करे भंडोय अश्रुपात रे
 ॥ प्रीणा ॥ १ ॥ ज्ञोजाई त्रिणये तिहां जी, आथी ते समकाल ॥ धन्ना गुणथी गोरडी जी, कू
 रे हृदय विचाल रे ॥ देवरण ॥ १ ॥ अमने तुमे सुखीया कियां जी, वारंवार पवित्र ॥ ज्ञा
 ग्यहीन तुं पति अमे जी, तुमे देवर सुचस्त्रि रे ॥ देणा ॥ १ ॥ यतः ॥ आर्यान्वृत्तम् ॥ माग

तुझ न दोस्तो, दोस्तो ब्रह्माण पुषकम्भासं ॥ रथणायरंमि पत्ते, सालूरो हृद्य मे लग्गो ॥१॥
 जावार्थः-है समुद्र! आमां तारो कांइ पण दोप नथी, दोप तो अमारा पूर्व कर्मतो ज ठे.
 केमके, रत्ननी खाण एवो तुं मढ्यां उतां, मारा हाथमां तो पडरज आव्यो ! ॥१॥ दोप
 नथी इहां तुम तणो जी, ठे अम दोप सुजाण ॥ पिण शुं कीजे तेहगुं जी, कोइ न च ले
 प्राण रे ॥ देणा ॥ ५॥ अम थवगुण जो देखसो जी, तो अम कोय न गाय ॥ सज्जन कडपडु
 म कल्या जी, दुहव्या फल देइ जाय रे ॥ देणा ॥ ६॥ यतः ॥ सोउ सज्जन अं व सम, अयगु
 ण तजी गुण लेय ॥ उंउ तथे पडर हणे, उंउ तंथ फल देय ॥३॥ जावार्थः-तेज सज्जन के,
 जे आंवाना वृद्ध जेवा होय ठे. केमके, कोइ माणस जो तेने, पथरो मारे ठे, तो ते आंवा
 नो वृद्ध उलटो तेने फल आपे ठे. ! ॥३॥ रात्रि सकल सवि सयणने जी, रुदन करंतां
 यिदाय ॥ प्रत्येपे नृप प्रमुखने जी, सवि विरतांत जणाय रे ॥ पूताणा ॥ ७॥ राम राम नुरि
 षोडव्या जी, मूक्या प्रेप्य अनेक ॥ पिण धनाशाहनी तिहां जी, खबर न लाव्यो एकरे ॥
 पूताणा ॥ ८॥ विस्मय सवि पामी रह्या जी, देखी धन्न चरित्र ॥ श्रीजे उड्ढासे जिने कही
 जी, चोथी ढाल पवित्र रे ॥ पूताणा ॥ ९॥

॥ श्लोक ॥ राय कोषी धनकाते कते रे संताने रे ॥

राखी बिरह देखे ॥१॥ भ्रम जमाइ जाते धके, भ्रमे मूजाणा आज ॥ बुद्धिंत नहि भ्रमर
 को, जेष्ठ चलाये काज ॥२॥ अज्ञय कुमरना बिरहयो, बाऊया हुता पूर ॥ ऊपर तूण थ
 यो इहां, बिरह धनानो चूर ॥३॥ भ्रम पुत्री दुःखणी अर, पति नियोगथी प्राय ॥ एह स
 यल भस्वास्थितो, कारण तूं हि कहाय ॥४॥ तय बोढयो धनसार इम, नृपने करी प्रणा
 म ॥ वनपति मुज बहून घणो, आशानो विश्राम ॥५॥ मुजथी दुःख पाभ्यो नयी,
 पिणए अग्रज येण ॥ निमुणी रात्रे नीकडयो, वंढी सघलो सेण ॥६॥ यतः॥अनुदुबूचम,॥
 रेजिअ कुरु मर्यादां, जोलने वचने तथा ॥ वचने प्राण संवेदो, भोजने च भर्जाणता ॥१॥
 प्राणार्थः—इ जीन!तु भोजन करवाने विषे अने वचन बोलवाने विषे मर्यादा राख;कार
 णके, जो वचनने विषे मर्यादा नहि राखे तो, कोइ वलयत जीव जवो अने भोजनने वि
 षे मर्यादा नहि राखे तो अजीणं धवो. ॥१॥ सुणि चूपति ते त्रिण्यने, वंढी लीयो दाम ॥
 ग्राम प्रमुख लोंची लियां, पाढी सघली माम ॥३॥ वन हीणो धनसारजी, धयो ते थोडे
 फाले ॥ न मिले भसन व्यसन प्रमुख, दुःख पामे अतराल ॥६॥ वन हीणो शोभे नही,
 ज्युं आबलनो फूल ॥ धनवंतो आदर लदे, चंगा फूल भमूल ॥६॥ यतः ॥ धनमज्जय का
 कुस्थ, धनमूलमिदंजगत् ॥ अंतरं नैव पश्यामि, निर्बनस्य शवस्य च ॥१॥ भावार्थः—हे

राम ! तु धन पैसा कर. कारण के, भाखु जगत धनना उपर थाधार राखनाहें ठे. केमके निरपन घने निजोय एतु मडड, तेने विपे हु कांइ फेर देखतो नथी. अर्यान् जो पाले धन होय, तोज सहु मान आंपेठे; परंतु कोइ मडदानी पेंठे निर्यनना सामु जोतुं नथी. ॥२॥

॥ शाल ५ मी. ॥ (त्रिपदीनी देसी.)

धन उश्मि धनसाररे, चित्तमें चित्तवे ॥ इहां रहेवो जुगतो नदीं ए ॥ महोटाओं सै.पे रे, सगपणनो सदा ॥ तिले करी लाजीजे सही ए ॥१॥ धन्ना विल धरमूअरे, घून्न भित्ती गयो ॥ आज गइ सवि मादरी ए ॥ तिले करी इवे परदेश रे, पिंन्ने पावडुं ॥ मूत मजूरीने करी ए ॥२॥ धन्नाशाहनी नाररे, त्रिणये तेडीने ॥ सुपरें सुसरोजी कह ए ॥ पीपर जात पुअरे, सुखमें तिहां रवो ॥ तुम पति दुःख अमने देह ए ॥३॥ अमे जाओं परदेश रे, धन्नाशाह जली ॥ गति करीने लावडुं ए ॥ जो भिलडो ए पुअरे, तो तेहने इ हो ॥ तेडी वहेला आवडुं ए ॥४॥ सोमथ्री कुसुमथ्री रे, सुसराइा थकी ॥ द्रणमीने पी पर गइ ए ॥ केहे गुजरा तामरे, साथु लोचन करी ॥ दिनप थकी भवनत थई ए ॥५॥ हु आरीसो तुम साथरे, निभपथी करी ॥ तुम सेवा करतो थकी ए ॥ खीने रवेवो सात रे, पतिपहे सरा ॥ शान्दे पिणठे ए बकी ए ॥६॥ खीने पीपर जेमे रे, तिम नर साखरे ॥

श्रियासे मुनिने सही ए ॥ तेग रहित नृप तेमरे, मंत्री मति विना ॥ एटला सुयस लहे
 नहीं ए ॥३॥ यतः ॥ स्त्री पीयर नर सासरे, संयमिया सह्यास ॥ एता होय मलखाम
 णा, जो मंने थिरयास ॥१॥ जायार्थः-स्त्री पीयर, पुरुष सासरे अने मुनि एक उपाथ
 यमा, ए व्रणे पूर्वोक्त स्थानकमां घणा विवस रहे, तो जरूर मलखामणा थाय. ॥१॥
 जिण दिन धन होय पासरे, पति संगे होवे ॥ ते विन पीयर क्यडो ए ॥ पिण झही प्रा
 पद योगरे, ठंन्नी सासरो ॥ पीयर जायो कूयडां ए ॥७॥ सुख दुःख सवि तुम साथरे,
 जोगविशुं सदा ॥ धीर धरो तुमे तातजी ए ॥ जो मिलडो पियु योगरे, तो पीयर इवे ॥
 प्रायशुं सयल संपव नजी ए ॥८॥ सुणी हरख्यो धनसाररे, धन धन ए बहु ॥ सहुमें ए
 प्राधारठे ए ॥ मात तातने घातरे, सासरियां थकी ॥ लेलधीया सधला पठे ए ॥१०॥
 चाड्यो हवे धनसाररे, राजगृही थकी ॥ श्रंगज स्त्री ययु परियख्यो ए ॥ वख विचूयण
 इनिरे, दीनपणा थकी ॥ जंनेपगरण क्षिरे घखां ए ॥११॥ घट करमधी जीवरे, जिम
 संसारमां ॥ परिब्रमणां करे परगडो ए ॥ तिम धनसार तियाररे, आवे जन थकी ॥ देडा
 विदग फिरे नडो ए ॥१२॥ जोतां वन थारामरे, ग्राम घणां जमे ॥ पिण थिरता न लहे
 किहां ए ॥ कोडांवीपुनि पासरे, आवे अन्यादा ॥ वार्ता वृत्तिनीः लहे ए ॥१३॥ धनपुरमें

घनशेखरे, शर खानन जणी ॥ आपे प्रवल आजीविका ए ॥ स्त्रीने एक दिनारे, युग्म पुरुष प्रते ॥ तैल चोलादि हितथकी ए ॥१४॥ सुणी हरख्यो घनसाररे, सार उपपय ए। उदर जरण करवा जणी ए ॥ ढाल पांचमी एहरे, त्रीजा उब्ढासनी ॥ कही जिनवि जेये सोहामणी ए ॥१५॥

॥ दोहा. ॥ आव्यो घनपुरमें नुरत, पतिवृत ते घनसार ॥ देखे व्यापारी तिहां, जां ति जांति तिणिवार ॥१॥ नाणावटी दोशी तिमज, पारेखने मणिहार ॥ सौक्तिक मुक्ता फल कथिक, घृत तैलादि विचार ॥२॥ सोनी गांधी सामटा, फडीया ने तांबूल ॥ साथ रिया सुखजहिका, कारक तिहां करे मूल ॥३॥ देखी व्यापारी सकल, पूठे तव घनसार ॥ व्यापारीने वणिजना, घननो कवण दातार ॥४॥ तय ते कहे अम नगरनो, स्वामी ठे घनशेख ॥ ते घन आपे व्याज विण, जाग्यंत लही ड्रेठ ॥५॥ निर्धनेने पिण शर खनन, कीधोठे आधार ॥ सांचल्लिने हरखित अयो, परिकर युत घनसार ॥६॥

॥ ढाल ६ ठी. ॥ (नदी यमुनाके तीर उडे दोय पंखीयां. ए देखी.)
युत्र संहितं घनसार सरोवरमें तवा, करे तिहां खनननुं कार्य घरी मनमें मुदा ॥
बांधी कबोटा तंग सुरंग पणे करी, कोठा कोदाली तेम खणै ते करे घरी ॥१॥ शीलवती

नी साथ बहू-चार तिहां, माटी बड़े जरी पात्र ते खराब गण जिहां ॥ किन्नर कार्य करी
 एम बिस सवि निर्गमे, जोजन चोला सैल प्रजात संख्या समे ॥२॥ एहेये घनपतिदाह
 सरोवर देग्या, अने वरीय उमाह कारीगर पेग्या ॥ सांथे सवि सामंत मंत्रीश्वर नृप
 तणा, श्रेष्ठ संनापति वृद्ध संयक पिण अति घणा ॥३॥ शिरपर सोवन ठत्र खूरज परे ऊग
 मगे, यागक भोजक ज्ञाट अनेक ते उजगे ॥ जय जयतूं चिरंजीवतुं उस्थित दुःख दरु,
 भाश्रित जन आधार सयशने सुलकरु ॥४॥ भायी सरोवर पाल जौव चिहुं विशि किरी,
 सरोवर केते काम ते उद्यम मन धरी ॥ देवो तातने मात बांधव ज्ञानी बहू, चिते चित्त
 मजार ए किम भाव्यां सहु ॥५॥ जोड़िने निरधार करी मन चित्ते, मात पिताने ब्रात प्र
 मुग्य सवि संचने ॥ पिण मुज कामिनी एह गुनजा ज्ञामिनी, माटी बड़े सहे कष्ट बेला
 गति कर्मनी ॥६॥ गतः ॥ अनुदुःखगम ॥ कृतकर्म क्षयो नास्ति, कष्टकोटीशतैरपि ॥
 अग्रद्वयमेव चोक्तव्यं, कृतकर्म शुजागुप्तं ॥१॥ नार्थः-मजोना अजो कष्ट (युग)
 जाप, तो पण करेला कर्मनो कृप प्रता नथी. केमके, सारु अग्रया नरतुं, जे कर्म कथ्युं
 होय, ते प्रवश्य नोगयुंज पडे ठे. ॥१॥ कर्मबंदो दमयंती नल प्रिया दुःख लहे, राम
 परणी तिम मीत लंकागद दुःख सहे ॥ कलायतीने कर्म उदय आख्यां यथा, शंख नृपे

तदा ॥३॥ सुरसुंदरीनि कंत वने मेली गयो, डौपटीनि वनवागमं
 द्यावतीनि कंत वियोग थयो वली, मृगावतीना कष्ट ते जाणे के
 नारी लहे दुःख भंजना, नर्मदासुंदरी तेम करी पति रंजना ॥

ते सट्टु केहे, अचंकारी तेम अतृप्त पीडा सह ॥७॥ चंडनवान
 कमांदपथी तेह वंचाणी जाणी ॥ हरिचंद्रगायनं पुत्र स्थी
 कृशी करवी साचना ॥१०॥ दग्गो कर्मनी यात आर्था वनी

गामई बांधव ठे जेहन ॥ गान्द्रमम तात मात नडा मती, मज
 नार ने सुख न लेहे रती ॥११॥ जुते जुते भात ने तात अनेक विपद सह,
 अरिने काज उपल मस्तक गेह ॥ जगम दुनेर पट कहां ठे डाखम, तुण कुण न
 अकाज जुते ते अनुकम ॥१२॥ यत ॥ सवयो तेवाडो ॥ नृग्य कुर्वीन कर अनुर्वा
 नृख धरो घर ज्ञीज मगांव, नीचकी चाकरी नृग्य करांवर निमंर वंदाक, मत्व लगा
 बे ॥ नृख तमांवे विंदा नियनिमं दीन दुःखी मगकीन कहांचे, नृग्य संसा नहीं दुःख
 जसा कोड पापिणी नृग्य अनेक नगांचे ॥१३॥ दग्गो वनावह शेठ अनेक नकल कख्या, सु
 समा पुत्र। मांस नग्य। तनु निज धख्या ॥ उदगाथं नलगय सुभारपणो कीया, घर घर

सुख
 म
 पु
 उ

नि
 त
 ए

भुंज नंदा मागी दूकडो लीयो ॥१३॥ भाषाठजूती आहार निमित्ते निया करी, नय
 नय रूप बनाय मोवक त्रिया फिरी ॥ राय यशोधर मांस जग्यो नयनावली,
 दुजर उदरने काज अकाज करे गली ॥१४॥ कर्मतेपो यदा द्रात एडुःख यदूत्रां सदे, ल
 द्दमी गृह सुखयास तिदां एडुःख लक्षे ॥ नलोहे विनय निवेक विचार आचार ए, मान मगन
 र्ने मस्त न धर्म विचार ए ॥१५॥ एहना संगथ्री मात अशात घणी सदे, तिम गली तात
 थिळ्यात विटंवनता लक्षे ॥ जोजाई पिण द्रातूथ्री भापयमें पढी, मुज रामा इण साथ
 लक्षे डुःख वापढी ॥१६॥ यतः ॥ अनुष्टुप्गम. ॥ कुसंगा संग वोपेंण, सायवो यांति वि
 क्रियां ॥ एकरात्रि प्रसंगेन, काष्ठर्षटा विटंवना ॥३॥ ज्ञानार्थः—खराव माणसनी सोव
 तथी सारा माणसो पण विक्रिया पामेडे. कारण के, हराइ गायनी सात्रे (सारी गायने)
 एक रात सोवत रहेवाथ्री वे पग गये लाकडुं मने गलामां घंटीनी विटंवना थइ. ॥३॥
 द्ये इं मातने तात प्रिया प्रतिपालगुं, ए बांधयने दूर करी रखयालगुं ॥ इम आलोची
 यात घत्रे धीरज धरी, श्रीजे उब्दहासे ढाल ठही जिन जयघरी ॥२०॥
 ॥ बोधा. ॥ तात प्रते पूजे तुरत, धनपतिशाह सुजाण ॥ कवण तुमे कोण ग्रामथी,
 आख्यावो इण वाय ॥१॥ तव लक्षाथ्री गोपची, अवर कळो अधिकार ॥ पिण घत्रे नि

नशंकरे, इत्या कर तदा ॥७॥ सुरसुंदरीनि कंत वने मेली गयो, झोपडीने वनवासमें
 पुरुष प्रते शयो ॥ प्रध्यावतीने कंत वियोग थयो वली, मृगावतीनो कष्ट ते जाणे के
 उदर जर नृप पवनजय नारी लहे दुःख भंजना, नर्मदासुंदरी तेम करी पति रंजना ॥
 ॥८॥ शी सती कष्ट लही ते सहु कहे, अचंकारी तेम अतूल पीडा सहे ॥९॥ चंदनवाल
 विद्याल गुणेश्री वखाणीए, कर्मोदयथी तेह वेचाणी जाणीए ॥ हरिचंद्रायने पुत्र स्त्री
 तारा लोचना, वेचाणां परतदृशी करवी सोचना ॥१०॥ देखो कर्मनी वात भावी वनी
 एहने, भोगीज्जमर शालिज्जइ वांधव ठे जेहने ॥ गौज्जइ सम तात मात नज्ञा सती, मुज
 सरिलो जरतार ने सुख न लहे रती ॥११॥ जुं जुं मात ने तात अनेक विपद सहे,
 उदरजरणने काज उपल मस्तके वहे ॥ जगमें दुर्जर पेट कळो ठे शाल्वमें, कुण कुण न
 करे अकाज जुं ते अनुक्रमे ॥१२॥ यतः ॥ सवैयो तेवीशो ॥ भूल कुलीन करे अकुली
 ने ॥ भूल घरो घर नील मगावे, नीचकी चाकरी भूल करावे रु निर्मल वंशकुमेल लगा
 वे ॥ भूल जमावे विदेश विपत्तिमें दीन दुःखी मसकीन कहावे, भूल समो नही दुःख
 जसा कोइ पापिणी भूल अज्जइ नळावे ॥१३॥ देखो धनावह शेर अज्जइ जकण कळो, सु
 समा पुत्री मांस जली तनु निज घळो ॥ उदरायें नलराय सुभारपणो कीयो, घर घर

भुंज नरंदा मागी दूकडो लीयो ॥१३॥ भाषावृत्ती आहार निमित्ते विया करी, नय
 नय रूप यनाय मोदक विया फिरी फिरी ॥ राय यदोचर मांस जल्यो नयनावली,
 पुनर उवरने काज अकाज करे गली ॥१४॥ कर्मतपो गश व्रात एडुःख बहूलां सदे, ल
 दमी ग्रह सुग्यास तिदां एडुःख लहे ॥ न लोहे विनय विवेक विचार आचार ए, मान मगन
 रंहे मस्त न धर्म विचार ए ॥१५॥ एरुना संगथी मात अदात घणी सदे, तिम गली तात
 गिल्यात विटंबनता लहे ॥ जोजाई पिण व्रातुथी भाषवमें पढी, मुज रामा इण साथ
 लोहे दुःख चापढी ॥१६॥ यतः ॥ अनुष्टुप् गम ॥ कुसंगा संग बोयेण, साथयो यांति वि
 क्रियां ॥ एकरात्रि प्रसंगेन, काष्ठपटा विटंबना ॥३॥ जायाथः—खराव माणसनी सेव
 तथी सारा माणसो पण विक्रिया पांमे ठे. कारण के, हराइ गायनी साथे (सारी गायने)
 एक रात सोयत रहेयाथी ते पग गेचे लाकडुं भने गलामां घंटडीनी विटंबना थइ. ॥३॥
 ह्ये दुं मातने तात प्रिया प्रतिपालशुं, ए वांथयने दूर करी रखयालशुं ॥ इम ब्राह्मोची
 तात धये धीरज धरी, व्रीजे उब्हारसे बाल गठी जिन जयवरी ॥१७॥
 ॥ बोहा. ॥ तात प्रते पूजे तुरत, धनपतिशाह सुजाण ॥ कवण तुमे कोण ग्रामथी,
 ब्राह्मणो इण गाय ॥१॥ तय लजाथी गोपथी, अवर कळो अधिकार ॥ पिण घने नि

भय कियो, एह सही निरधार ॥२॥ धन्नोदाह चित चिंतये, धन विण लाजे एह ॥
तिले करी निजकुन्न गोपये, तिणमें नही संदेह ॥३॥ ऊपरवाइने कहे, नोसो नोसी
वृद्ध ॥ एदने पृत गुड अन्न शुन्न, देजो तुमे अविरुद्ध ॥४॥ सर्व 'भृत्यमां वृद्ध ए, थापे
करी आदेश ॥ तय धनसार खुशी पयो, तूगयो मुज इन्पेश ॥५॥

॥ बाल उ मी. ॥ (सीता तो रूपे रुडी. ए देशी.)

हवे बीजे दिन धन्नो, भावे तिदां प्रति सुप्रसन्नो हो ॥ सुकृत फल एदवां ॥ ए भां
कणी ॥ बोलोये हित आणी, धनसार जणी शुन वाणी हो ॥ सुणा ॥ तांबुलादिक तस
आपे, तय हर्षं पणो तस व्यापे हो ॥ सुणा ॥ बीजे दिन तिम हेव, धनपति भावे घरी टेव
हो ॥ सुणा ॥ वस्य अनेक अणावे, सवि भृत्य प्रत्ये तेढावे हो ॥ सुणा ॥ बल दिये तस
ताम, प्रति दरख्या भृत्य सुकाम हो ॥ सुणा ॥ पठे वृद्ध प्रते तेढावे, *शंकर उत्तम प
हिरावे हो ॥ सुणा ॥ माता प्रते पटकूल, दिये हर्षं घरी बहु मूढ्य हो ॥ सुणा ॥ ब्रातृने
सम परिणामे, दिये सुंदर बल सुकामे हो ॥ सुणा ॥ ब्रातृजाया विण आवि, साडी तस
शुन परिणवे हो ॥ सुणा ॥ एक चीर अमूलिक सार, आपे कांताने तिणिवार हो ॥ सु०

* पाकप. ० बन्. १ नोत्रादयो.

॥ मयि पश्चिमांशे मंतीये, घनमार प्रले कहे गंगी हो ॥ सु० ॥ ६ ॥ सुणो तुमो जो वृत्त सु
 तात, तुम गुण भम चिन मुदात हो ॥ सु० ॥ छिड़ी जाते दुःखी मत प्राजो, जे जोडाए
 ने मंगजाओ हो ॥ सु० ॥ ७ ॥ ए अम परंते मयि तुमना, तुमे तात स्थानकठो भमना हो
 ॥ सु० ॥ तुम तनुंय गम्मी ईमं, भमे जाणीए निम्वायोमं हो ॥ सु० ॥ ८ ॥ तिणे तरु प्र
 मुर भम पथी, तीगो ठांडी प्रगानवि परथी हो ॥ सु० ॥ ए तुम वधुने तुमं कहेजो,
 सुगे काय इहां निम्बेइजो हो ॥ सु० ॥ ९ ॥ देउ भामागना तिणे ठामे, मंथिर ये रहेवा कामे
 हो ॥ सु० ॥ उम प्रति दिन मयर ते लंगे, जे जोडाए ते तसु केने हो ॥ सु० ॥ १० ॥ धेर भावी
 केहे भप्रडाह, पिये मांनव मन उछाह हो ॥ सु० ॥ परदेदी उनम प्राणी, इहां आग्या
 ने भम तापी हो ॥ सु० ॥ ११ ॥ तंइनेने वधु चार, गुणवंती अति मनुहार हो ॥ सु० ॥ ले
 जाते तरु जो आने, नुमं देजो तय जले जाये हो ॥ सु० ॥ १२ ॥ पण तहमां लपुंठ जेइ,
 पशो नुमे तंइजे भंठ हो ॥ सु० ॥ तम देजो आदरमान, कली देजो कोकल पान हो ॥ सु०
 ॥ १३ ॥ तिम टाक प्रमुग्य मुयिचित्र, देजो नुमे पुणए पयिच हो ॥ सु० ॥ अति गोरस मर
 म गवार, देजो दिन पथी भान्ढाह हो ॥ सु० ॥ १४ ॥ उम डीय देउं मतरंगे, घनपति पि

१ सधिर, २ गध, ० गूने.

ए रहे सुखसंगे हो ॥ सु० ॥ *द्वारपाल प्रमुखने ज्ञाख्यो, सह सेवकने पिण दाख्यो हो ॥ सु० ॥ १५ ॥ हवे श्रेष्ठ तिहां धनसार, केहे बहु प्रते सकल विचार हो ॥ सु० ॥ तुमे जान धनपति गेह, तक्रादिक लावो ये जेह हो ॥ सु० ॥ १६ ॥ तव ते बहु निसुणी वाणी, वारु कहे मनमां जाणी हो ॥ सु० ॥ त्रीजे उब्हासे गवाणी, ढाल सातमी जिन गुणखाणी हो ॥ सु० ॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे ते त्रिण्ये वधु तिहां, लेवा श्रावे तक्र ॥ स्वच्छ दिये जल सारिखी, नयन वदन करी वक्र ॥ १ ॥ चौथे दिन ते लाजथी, श्रावे मुन्नश जाम ॥ सौजाग्यमंज रिए तिहां, वेसाडी शुन्न गम ॥ २ ॥ आदर देइ भति घणो, भापे गोरस सार ॥ कहे वाइ तूं भावजे, नित प्रते मुज भागार ॥ ३ ॥ तक्रादिक पिण श्रति अबल, लेइने ततखेव ॥ भावी ते निज स्थानके, साखुने ये देव ॥ ४ ॥ तव सुसरो साखु कहे, देखो पुण्य प्रका र ॥ धनपति वधु प्रणिपति करे, जाग्य प्रबल मनोहार ॥ ५ ॥ निसुणी खीजी ते त्रिणे, कहे सुणो साखु वात ॥ नित प्रते पुत्र वखाणते, हाथथी गयो विख्यात ॥ ६ ॥ वली तेह नी वधुने तुमे, परसंसो परगट ॥ ते पिण घन्नानी परे, जाशे कोइक वट ॥ ७ ॥ दिवसे

* दरवाजा ठपर रहेला मीपाइ.

माटी धार बहे, रात्रे पडे झूपीठ ॥ देग्यो देसाणी प्राग्यवल, कंत विरह अति
 धीठ ॥ ८ ॥ सुणी सुजडा ते वचन, बाळी विलोमं दीन ॥ नयलेथ्री श्रांसू ऊरे, विर
 ह व्यथा लयलीन ॥ ९ ॥

॥ दाल ८ मी. ॥ (रतनशी गुण मीठडारे. ए देशी.)

एक दिवस सुजडा सती रे, पाये ते लेवा गडा ॥ सीजाग्यमंजरीए तिहां रे ॥ वे
 साडी लेव पास ॥ वहिन कहो डाल मुज प्रते रे ॥ १॥ ए श्रांकणी ॥ तुमे गो चतुर सु
 जाण ॥ प्रीति वंघाणी ठे मादरे रे, तुमधी जीवनप्राण ॥ वण २ ॥ श्रांय अरुण दोसे
 तादरी रे, मुख ववी अति दिलगीर ॥ नीसासा पिण एवढा रे, नयले ऊरे बहु नीर ॥
 वण ३ ॥ सुसरो सासू ठे तादरे रे, जेठाणीने जेठ ॥ वर वारू दशे तादरे रे. पीयर पिण
 हुशे नेव ॥ वण ४ ॥ के पीयर डाल सांजल्यो रे, के डडवी तुज कंत ॥ शी चिंता तुज
 एवढी रे, कहे मुजने मतिवंत ॥ वण ५ ॥ मुजधी अंतर एवढो रे, तूं किम रागें मुद ॥
 कहे भवदात तूं ताहरो रे, जिम हुं जाशुं गुद ॥ वण ६ ॥ आनन गन्धे आगावती रे, अ
 धोमुखधी कहे ताम ॥ वहिन कहुं शी कर्मनी रे, गति विपरीत विराम ॥ वहिन सुगो

दुःख माहरे रे ॥३॥ ए भ्रांरणी ॥ यतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥ ब्रह्मोपेनकुञ्जालयनि
 यमितो ब्रह्मांग्रजानोदरे, विश्रुयंनदशावतारगहनेकित्तोमहासंकटे ॥ रुद्रोपेनकयालपाणि
 पुटकेनिशाटनंकारितः, सूर्योब्राम्पयतिनित्यमेवगाने तस्मैनमःकर्मणे ॥१॥ ज्ञावाथः—जे
 कर्मपढे ब्रह्मा कुञ्जारना चाकनी पेंठ ब्रह्मांग रूप घढाना पेटमां कवजे रखायो, विश्रु
 दश अवतारधी जर्पकर एवा महोटा संकटमां नखायो, शिव द्वाथमां काचली लेइने
 निशा मागे ठे अने सूर्य दमेदां गगनने विरे जेनावडे जमे ठे; ते कर्मने नमस्कार पाठ.
 ॥१॥ गौजइशेवनी भंगजा रे, ज्ञा नर श्रवतार ॥ वांथव शालिकुमार ठे रे, इंच्तणे अ
 नुहार ॥५०॥ तातजी पूत्रना स्नेहधी रे, पेंठे वंजित जोग ॥ वत्रीश वधू अने पुत्रने
 रे, आपे वंजित योग ॥५०॥ तुज पति नाम माहरे रे, ठे जर्जर सुरंग ॥ दानी मानी
 प्पानी जलो रे, धरतो प्रीति भजंग ॥५०॥ श्री श्रेणिक नृप पुत्रिकारे, सोमश्री वि
 द्यपत ॥ कुसुमपाल तनया तिसी रे, कुसुमश्री शुचि गात ॥५०॥ ते परणयो तिहां
 प्रेमपी रे, उजम गुणनो पात्र ॥ कांता त्रिण्येधी कीडतो रे, सुगुण सुरूप सुगात्र ॥५०
 ॥१॥ वैषव यषण विद्येपधी रे, ठेनी सवि परिवार ॥ एकाकी कोइ देवाढे रे, पहोत्यो
 ठे निरपार ॥५०॥ ते जाते लक्ष्मी गडे रे, सतीष पेंठे ते मार ॥

नीमग्यां रे, पर्येदो विण प्राय ॥७०॥१॥ नीर निना जिम कमलिना, नीर नीर
 कल्प ॥ तिम मन हीन मनुष्येने रे, मान नही किण गय ॥७०॥१॥ करया उदर था
 नीगिफारे, इदो माव्यां इणियार ॥ मर गणीए वीए तुम तणु रे, तुमचो ठे प्रायार ॥
 य०॥१६॥ यतः॥ किं किं न किं किं न कायषं, कह कह न नामिये सीसं ॥ उप्रर उम
 रम्य जाले, किं किं न कायषं ॥२॥ जाग्याः-शुं शुं न कल्युं, शुं शुं नहि करया
 योग्य ठे भने काने केने शीदानथी नमाव्युं? अपितु आ दुःखे ज्ञरया योग्य एवा पेटने
 मांटे शुं न कल्युं अने शुं न करवा योग्य ठे अर्थात् सर्वं कल्युं भने सर्वं करवा योग्य ठे!
 ॥२॥ धन्यतिदाद पटंतरे रे, चोजन करते यात ॥ सांजलीने निज चित्ते रे, धन्य धन्य
 एद मुजात ॥७०॥१॥ मुनि थइ ताम सिंहासने रे, बेवो थइ उजमास ॥ व्रीजे उड्ढा

से आगमीरे, कही जिननिजये दाल ॥७०॥१॥

॥ दोहा. ॥ कहे धनो रे जामिनी, तुं पति दीणी दीन ॥ प्राण धरे प्राणेश विण,
 किण रीते दुःख दीन ॥१॥ फांटे काली जूमिका, जल विरहे ततकाल ॥ प्राण धरे पति
 निरदथी, ए अचरिज इण काल ॥२॥ सा कहे तय लळा करी, भाशाथी अदो शेठ ॥
 भादा पांये बांधीया, नीय करे ठे नेठ ॥ ३ ॥ यतः ॥ अनुशुशुत्तम् ॥ इयमाशा म

द्वाराजन, विपरीता हि शृंग्वजा ॥ येनत्रलः प्रयावन्ति, मुक्ता स्मित्ति पंगुवत ॥ १ ॥
 ज्ञावार्थः—ह महाराजा! आ आटाकरूप! साक्य बहु तंद्दवारं च, कंसैर, ते साक्यवन्दे
 बंधाणज्ञा पुरुषो शंडे ते अन तनाथ। वृडा थण्वा पागयानो पंचे प्रभा रंतेजे, अत्रानेमा
 मान्य सांरुत्तयी वंयाणः साणसा हाव्यो चानो डाकता तथा, पणत्तय। उवा इमाइमा
 शकेते, परंतु आ आटाकरूप। साक्य तनाथो तम्हवारं च, एता पायसा रंतेना माण
 सो वोडदंड कं ते अन तथा मुक्त थण्वा पागयान। पंचे निगत यमा रंते च ॥ १ ॥
 तय धन्ना कंडे मुंदरी। ते तुं किडा तदडा ॥ नागत नाग तया उवा, यथण प्रम ॥
 करंश ॥ ४ ॥ ए यावन ए यसन सुख ए नानन ए याग ॥ पाभानि ए टागर, एन
 तावो पंडे ताम् ॥ ५ ॥

॥ टाय ॥ म। ॥ (हा शंडे चाण। भिवांचे भाजेना, ए दशा।)

हो यथण मुण। अय सांरुत्तया, धनाता तनिवार ही॥ एक भेन के। य। न थरी,
 वेलि मुत्तडा वावडा ॥ यथण निमामं। वार्त्त। ॥ १ ॥ ए आकण। ॥ जिम रह जगसा
 माम हो ॥ अपर्कारति अत्यर्ग। दुंचे, परनय पिण सुख ठाम हो ॥ १० ॥ ॥ पश्चिम सुरज
 कसिमे, धरणी रसातल जाय हो ॥ एक पश्चिम सुरज

ग॥३॥ उम तेरे सदि गूरू, जौ 'धुव' चंवल होय हो ॥ तो पिण सती चूके नदी,
 हय विमामी जोय हो ॥१०॥४॥ सतीनो सत्य मूकायया, कीया जेणे उपाय हो ॥ ते
 दुःखीया यया देवतां, पाण्या मरण सहाय हो ॥१०॥५॥ रावण सीता मोहीयो, तो
 लोयां बडा दीड हो ॥ लंका लूटायी तिहां, राम तणीते रीस हो ॥१०॥६॥ पवमोनर
 पगनाथी, राज्यां दीपदी रूप हो ॥ केडाच कोप करी तिहां, टाळ्यो तिहांथी चूर हो ॥
 १०॥७॥ परनारीनी मंगत, गुठ लजितांग कुमार हो ॥ विष्टा मंदिमां यशो, शय शम
 थयो तिलिगार हो ॥१०॥८॥ गुठ मणिरथे बनरथ क्रियो, मयणुरेहने काज हो ॥ तो
 ते नरके गयो तथा, कंक थियो 'बहिराज हो ॥१०॥९॥ इत्यादिक अयवात ते, शुं नथी
 ज्ञाणता स्वाम हो ॥ श्रायक कुल पामी करी, राखो निज मन गम हो ॥१०॥१०॥ अग
 नि श्रेंदश कंठ भमे, बजि कंठ ऊपापात हो ॥ विप जरुण जल श्रागंमं, रमना ठेवन
 पात हो ॥१०॥११॥ पिण अणायटता कामनो, ययण न सांजनुं कान हो ॥ इव चंड ना
 गेंदथी, न चनुं दीपलनुं ध्यान हो ॥१०॥१२॥ यतः ॥ केसरि केश चूयंग मणि, शरणाग
 य मुकुटाव ॥ सतीय पयोधर कृपण धन, चटसि हठ मुआड ॥१॥ ज्ञायार्थः—केसरीसि

दना फेरा, सापने माये रहेलो मणी, वीर पुरुषाने झरले गएलो माणस, सती स्त्रीनां
 स्तन एक कृपणनु धन; ए सर्वे तेमना जीवतां तो हाथ नज लागे, परंतु मृत्यु झएज
 मते. ॥१॥ वयण सुणी चनिता तणां, हरख्यो घनपति ताम हो ॥ ए सुकुलीन महास
 ती, शिष्य रयण गुणधाम हो ॥वण॥१॥ कहे धत्रो में ताहरो, मन जोयां अनिराम हो
 ॥ शिष्य सुरंगो हूं धरूं, न गमे परस्त्री नाम हो ॥वण॥१॥५॥ पिण पूठुं तुजने हवे, किम
 जाणीश निज नाह हो ॥ दीगथी झूं जाणशो, के प्रत्यय निरवाह हो ॥वण॥१५॥ तव
 बोली सा सुंदरी, जे कहेशे 'प्राचीन हो ॥ वारता जे जे जोगवी, सुख उःखनी लयली
 न हो ॥वण॥१६॥ ते जरतार हुशे सही, 'तदनंतर आकार हो ॥ दास ए त्रीजा उडहास
 नी, नयमी जिन कहे सार हो ॥वण॥१३॥

॥ दोहा. ॥ घनपति कहे सुणरे सती, प्रतिष्ठानपुर घास ॥ घनसारेच्य वखाणीए,
 दीज्यती सती तास ॥ १ ॥ चार पुत्रमां लघु तनुज, धत्रो बुद्धि निधान ॥ वंधव केश
 यो नीसग्यो, पिण तम पुण्य निदान ॥२॥ उड्डयिनी भाव्यो वही, पाम्यो नृपनो मान
 ॥ मात पिता बांधव सति, ते भाव्या तिण ठाण ॥ ३ ॥ सन्मानी राख्या निरुट, पिण

मशर तस देव ॥ धर्मोदाह यत्नी नीसख्यो, सयत्री रुद्धि उयेग ॥ ४ ॥ राजगृहीए रंग
 दुं, आब्यो धरो उब्बहास ॥ कुमुमपालनो वन फट्यो, पुत्री वीधी ग्यास ॥ ५ ॥ सेचानक
 गज रायने, आगयो आज्ञानधेज ॥ पुत्री आपी श्रेणिके, देगी अतुल अचंच ॥ ६ ॥ का
 लानो ऊधडो पढ्यो, गौजइ देवेने जाम ॥ तेहने फेढ्यो ततदणे, तुजेने परणी ताम
 ॥ ७ ॥ मात पिता व्राता यत्नी, भाब्या विपद उपाय ॥ देगी आरुंवर थकी, आगया आप
 णे गव ॥ ८ ॥ पुनरपि कउइ ते केलेये, वंयय रागी देय ॥ तय धनपति तुजेने तजी, इ
 हां आब्यो गुन देव ॥ ९ ॥ प्रत्यय ए तुजेने कळो, यत्नी मुज 'यवन निहाल ॥ व्रंति म
 रागीशा जामिनी, चिंता चिज निहाल ॥ १० ॥

॥ दाल १० मी. ॥ (मुजरो द्योने जालिम जाटही. ए देवी.)

यण सुणी निज नादनां, प्रत्यय पामी तियार ॥ नाम धकी रे निश्रय थयो, पे
 ग्यां प्रगट आकार ॥ तोगी बलिहागी प्रीतम माहरो रे ॥ ११ ॥ ए भांकणी ॥ धूधटमे रे
 आनन धरी, लाजि करी कहे येण ॥ प्राणप्रिय पियु माहारा, तुमे वद्धन मुज सेण ॥
 तोण ॥ १२ ॥ तुज गिरेहे में परिहखां, यस्मानरण विशेष ॥ जोजन सरस संये तज्यां, तांबू

लादि अशेष ॥तोण॥३॥ स्नान श्रुशुषा शरीरनी, में ठंडी पियु एह ॥ तुमे तो अमने रे
 प्रवगुणयां, जाण्यो पियु तुम स्नेह ॥तो०॥४॥ एटला दिन लगे अमतणी, कंत न कीधी
 जी सार ॥ 'नृत्यपणे अमने गण्यां, नाली शरम लिगार ॥तोण॥५॥ पुरुष सदा कपटी
 हुवे, 'पूर्वप्रियाथी विरक्त ॥ अवर प्रिया रसमें रहे, तेह सदीव भासक्त ॥तोण॥६॥ सांन
 ली सौजाग्यमंजरी, 'प्रियपत्नितणां वेण ॥ हर्ष धरीने हेजे कहे, तूं तो दीसे ठे रेण ॥तोण
 ॥७॥ स्नान करावे रे स्नेहधी, पहिरावे शुचि वेप ॥ आनृत्यपणथी नृपित करे, मान दिये
 सुविशेष ॥तोण॥८॥ धनो कहे धण सांनलो, तुमे वे नयन समान ॥ तन मनथी मुज प्रिय
 पणी, विलसो सुख नुप्रमाण ॥तोण॥९॥ देवे धनसार चिन चित्ते, ए सुकुलीन सुरीत ॥
 दण एक मात्र रहे नही, शुं थयुं ए विपरीत ॥ ते हजु नाथी बहुअर माहरी रे ॥ १०॥ ए
 प्रांकणी ॥ धनपतिशाह तणे घरे, गर हती लेवा वाश ॥ आथी नही हजी भांगणे, शुं का
 रण हुशे तास ॥ तेण॥ १॥ कडपडुम सम ए अठे, धनपतिशाह पवित्र ॥ तेहथी तो अय
 नवि हुये, दीसे यात विचित्र ॥ तेण॥ १२॥ बृह वधूने बोलाधिने, मकी तेडण काज ॥ ते
 आथी धनपति गृहे, देखी पामी रे लाज ॥ तेण॥ १३॥ जाजन तकनो लेइने, आथी स्था

१. पाकरपणे. २. नुनी श्रीधो. ३. म्वापीनो श्रीना पटले शोषयनां.

न क ताम ॥ यात कही मुपग प्रते, जे गइ भाषणी माम ॥ तेणार ४॥ मुणी धनसार प
 पार ते, मूल कर तनकाळ ॥ हा हा कुडने यंत्रकियो, गंगो झीव विडाल ॥ तेणार ५॥
 वेडाटने धन टाय रणो, ए ये दुःख दतां मूल ॥ ए अणवाव ते काणे, ए मदेदो मुज
 टाय ॥ तेणार ६ ॥ दिहां नाके केहेने कइ, दो कइ वलि प्रतिकार ॥ धन विण कोय न
 टायगे, कोय न माने जीकार ॥ तेणार ७ ॥ यतः ॥ सर्वयो व्रेवीडो. ॥ चाह करे जिनकी
 नगंभे मय मायके पाय नभे नलनेया, मानकुं तातकुं लागत वल्लज नामिनी च्हेन रुसे
 त पदेया ॥ यात नुगी मय मायहि मानत लोक गुनी यदा याग कहेया, केदाववास कहे मुण
 मखन मांडी वडो नागी गांठ र्शिया ॥ १ ॥ तो विण नातिने प्रागळे, कइ मवि यात विचार ॥
 नाति प्रकी मनि नीपने, कायं अतोपम सार ॥ तेणार ८ ॥ आयो नातिने आगळे, पोका
 खो धनसार ॥ श्रीजा उच्छागनी याल ए, जिन कहे वडामी उदार ॥ तेणार ९ ॥

॥ वेडा. ॥ इत्य प्रमुन मवि इम कहे, मांनजेरे धनसार ॥ धनयति डेज तणो
 मद्र, पदा नाणे मंगार ॥ १ ॥ परनाग्नि ननि जजे, न जिये यज्ञी पर ड्य ॥ जीगयात नवि
 माणरे, धनद्र तजे ए सर्व ॥ २ ॥ तू विण नुजे नवि कहे, ते नवि करे अन्याय ॥ इण वि
 दि व्याप इहां नदी, आयो च्या ए न्याय ॥ ३ ॥ तो विण ताहरे काण्णे, कशुं उद्यम

भ्राज ॥ बहु तुमारी तुरतमें, लोचेंशुं महाराज ॥४॥ इम कही सवि जेला ग्रह, लेर नज
राणो मार ॥ धनपनिदाहने आगले, भावी करे जुहार ॥५॥ सन्माने सवि शेवने, देई
पोस्तार पान ॥ पृंठे शे कारण तुमे, आव्या पुरुष प्रधान ॥६॥

॥ टाल ११ मी. ॥ (करजोडी वेदया केहे हां लाल, जेले रे प्रधाखा आज. ए देशी.)
करजोडी सवि इम कटे हो लाल, सुणो रे साजार्गी ॥ वीनतडी महाराज हो ध
साशाह, सुणो रे साजार्गी ॥ ए आंकर्णी ॥ धनपुर नगर ए धने जख्यो हां लाल, सुण ॥
धमरगुरी सम आज हो ॥५०॥ सु० ॥ इंच मटश तुमं उपता हां लाल, सुण ॥ निरुपम
रुप निधान हो ॥५०॥ सु० ॥ सामानिक सामंत ठ हो लाल, सुण ॥ दिन दिन चवते वान
दो ॥५०॥ सुण ॥ देव सरीखा दापता हो लाल, सुण ॥ इत्य अठे धनवंत हो ॥५०॥ सु०
॥ सकल प्रजा परबद जखी हो लाल, सुण ॥ तुमर्ची ए मतिवंत हो ॥५०॥ सुण ॥ इंच
ली सम शोजती हो लाल, सुण ॥ सांनाग्यमंजरी नार हो ॥५०॥ सुण ॥ इय गय रथ पा
पक पणा दो लाल, सुण ॥ बली कोगर जंनार हो ॥५०॥ सुण ॥ तुम यश जगमें वि
स्तख्यो हो लाल, सुण ॥ परखी वंधय नाम दो ॥५०॥ सुण ॥ परडुःख जंजन परगडा हो
ताल, सुण ॥ इरिपत जन विथ्राम हो ॥५०॥ सुण ॥ पिण निमुणो एक धमतणी हो

लाल, सु०॥ वात जे पद विपरीत हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ परदेदी धनसारनी हो लाल, सु०॥
 बहु हुती सुविनीत हो ॥ ध०॥ सु०॥ ६ ॥ तक्र लेगा तुम मंत्रिरे हो लाल, सु०॥ भावी हुती
 सुवियेक हो ॥ ध०॥ सु०॥ फोडक कार्ये वरेशिने हो लाल, सु०॥ बेनी हुदो धरी टेक हो ॥
 घ०॥ सु०॥ ७ ॥ खबर करानी तेहनी हो लाल, सु०॥ सोंपावो ते सदीश हो ॥ घ०॥ सु० ॥
 कूरे सुसरो एहनो हो लाल, सु०॥ आस्फाले निज दीश हो ॥ ध०॥ सु०॥ ८ ॥ इन्यादिकनां
 एहयां हो लाल, सु०॥ वचन न धाम्यां कान हो ॥ ध०॥ सु०॥ तय चमक्या ते वाणिया हो
 लाल, सु०॥ अन्यान्ये करे सान हो ॥ ध०॥ सु०॥ करी प्रणाम छठी गया हो लाल, सु०
 ॥ सटु को निज आगार हो ॥ ध०॥ सु०॥ धनपति मंदिर आगले हो लाल, सु०॥ पोकारे घ
 नसार हो ॥ ध०॥ सु०॥ १० ॥ रे धनदांठ तुं माहरी हो लाल, सु०॥ भापो वसु इणी वार हो
 ॥ ध०॥ सु०॥ ए अन्याय तुम नचि घटे हो लाल, सु०॥ जुत्तने हृदय विचार हो ॥ ध०॥ सु०
 ॥ ११ ॥ अमे परदेदी प्राहुणा हो लाल, सु०॥ दुस्त्रित जनमां लीट हो ॥ ध०॥ सु०॥ तूं प
 रडाल जंजक अठे हो लाल, सु०॥ सा पुरिसामां सिंह हो ॥ ध० ॥ सु० ॥ १२ ॥ यतः—
 ॥ आर्याचूगम् ॥ विरला जाणति गुणा, विरला पालति निदणा नेहा ॥ विरला परकज्ज
 परा, परद्वेक इत्थिया विरला ॥ ? ॥ आचार्यः—गुणना जाणनार, निर्यननो स्नेह पा

सनार धने परनां कार्य करयामां तपर; एवा पुरुषो विरसा होय ठे, परंतु ते करतां पण
 पारका उःवे दुःखीआ तो, तेथी पण विरला होय ठे. ॥१॥ तव धनसार तेडाचिने हो
 लास, सु०॥ धनो प्रणमे पाय हो ॥ध०॥सु०॥ अविनय स्वमश्या तातजी हो लाल, सु०॥
 मुजयी करी सुपसाय हो ॥ध०॥सु०॥ १३॥ देखी पुत्रने उज्जल्यो हो लाल, सु०॥ हर
 ख्यो तन मन ताम हो ॥ध०॥सु०॥ पूनम चंड्यी उदधिनां हो लाल, सु०॥ जिम कल्लो
 ए उराम हो ॥ध०॥सु०॥ १४॥ स्नान प्रमुख सवि साचवी हो लाल, सु०॥ जूयण वत्व
 उवार हो ॥ध०॥सु०॥ नोजन जगति करी जती हो लाल, सु०॥ धाव्या गृतागार हो ॥ध०
 ॥सु०॥ १५॥ एहवे डीजवती सती हो लाल, सु०॥ पति प्रेमे तिलिवार हो ॥ध०॥सु०॥
 आवी धनपति मंदिर हो लास, सु०॥ कर भाकुंड पोकार हो ॥ध०॥सु०॥ १६॥ रे पापी मु
 ज ग्यु जली हो लास, सु०॥ राखी कीध अन्याय हो ॥ध०॥सु०॥ वली ऋट पासे माह
 रो हो लास, सु०॥ कंत महाब्यो शे न्याय हो ॥ध०॥सु०॥ १७॥ न्याय न दीसे गाममां हो
 लास, सु०॥ एक घरे एह राग्य हो ॥ध०॥सु०॥ वसते गामे वाणियो हो लाल, सु०॥ ए
 यडो करे अकाज हो ॥ध०॥सु०॥ १८॥ वर वयु ए वे मुज प्रते हो लाल, सु०॥ यो कहुं
 मोर विगय हो ॥ध०॥सु०॥ नहिर पण मुज कंतने हो लाल, सु०॥ मूकंतां शे जाय हो

॥ ध०॥ सु०॥ १८ ॥ जीर्ण जराये जात्रो हो लाल, सु०॥ चिताश्री कृप गात्र हो ॥ ध०॥
 सु०॥ एहयो पिण पति माशरो हो लाल, सु०॥ मूकने तूं गुणपात्र हो ॥ ध०॥ सु०॥ २० ॥
 तव धनो माता जणी हो लाल, सु०॥ तेढोच ततकाल हो ॥ ध०॥ सु०॥ २१ ॥ माता मनमें वल्लती
 मातजी हो लाल, सु०॥ धूं तुमचो लपु बाल हो ॥ ध०॥ सु०॥ २२ ॥ हरखे हेंडं नीडियो हो लाल, सु०॥ नि
 हो लाल, सु०॥ बेखी पुत्र दीवार हो ॥ ध०॥ सु०॥ २३ ॥ नखात्रलो ततकाले हो लाल, सु०॥ संतोल्या सुचि
 रले चारवार हो ॥ ध०॥ सु०॥ २४ ॥ वल्हासे इग्यारमी हो लाल, सु०॥ जिन कहे दाल प्रकाश
 लास हो ॥ ध०॥ सु०॥ २५ ॥

हो ॥ ध०॥ सु०॥ २६ ॥
 ॥ दोहा. ॥ ह्ये ते धनवन्नावि त्रय, वाता करे विचार ॥ जवने धनपतिने गृहे, की
 जे प्रवल पोकार ॥ १ ॥ मात पिता ने लपु बहू, एणे राख्यां एकांत ॥ वल चलथी जोली
 जीए, तो आपण मतिचंत ॥ २ ॥ इम चिंती त्रिपथे तुरत, आख्या धनपति गेह ॥ वच
 स्वरथी इम फंदे, वेय देय रे वेद ॥ ३ ॥ अम माता ने तातने, प्रही राख्या हो काज ॥
 वातय्यू पिण जोखवी, ए चाते तुज लाज ॥ ४ ॥ सांजली धने तुरतमें, तेढाव्या आचा

स ॥ वरदानरण विशेषधी, प्रापे धरि उज्ज्वल ॥५॥ मात पिता बांधव वधु, मलियां मं
विर मांद ॥ धनपतिनी गुण वर्णना, करे ते प्रति उद्याह ॥६॥ इये ते पावज त्रिण्य वधु,
धिते चित्त मज्जर ॥ उल करी धनपतिये मवि, लीधो श्रम परिवार ॥ ७ ॥ एक वधुने
कारणं, ये ठे सहने दुःख ॥ देवो ए प्राप्ते इहां, अन्यायेथी सुख ॥ ८ ॥ जइए धनपति
मंदिरे, कहिये गोव विठाय ॥ पति श्रम पकड्या डा जर्गी, मूकतुं करि सुपसाय ॥९॥

॥ राज १० मी. ॥ (वीण म वाश्मरे, विठ्ठल वाहं नुजने. ए देवी)

करिय विचारने त्रिण्य श्रवला, श्राव धन श्रावांस ॥ द्वाररकंक हांकी काढी, यि
सखी पश्य विमांस ॥ देवो देवे रे, ए दिन श्रमने दीधा ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ सांज पडी
ने पति पिण न मिड्या, न मिड्या सुमंगे मामू ॥ देगणी पण देरे नाठी, फेरो पडी
यो फांगू ॥३०॥ ३ ॥ दा! दा! धंने भयम ए कीधा, वसंतं गामे वणीके ॥ ब्हार न पहांचे
कोशनी एहेने, चंडगुत जिम चणिके ॥ दे०॥३॥ इम विलवंती ते निज स्थानक, रात्रि स
मय तिहां प्रांय ॥ विरह विलूर्ध व्याकूत धांय, पाणी भन्न न जांचे ॥ दे०॥४॥ सुसरा
सासु केत विनां ते, सूनो स्थानक लोणे ॥ रात्रि गंल तेम रोचं श्रवला, विरह विशेष जा

ग ॥ देण ॥ ५ ॥ शुं अने यनमां रुदि संताप्या, माखा मृगने मरडी ॥ के इंडां पंतीना
 फोड्यां, के इमालने नरडी ॥ देण ॥ ६ ॥ कंतने वश कर्याने कारण, कामणडां में कीयां ॥
 के शोकलडी गर्भ गलाव्या, सातन पातन कीयां ॥ देण ॥ ७ ॥ के जलचारी जीवने माखा,
 नांखी जाल ते जलमां ॥ वृत्त प्रमुलने सकटे जोडी, जार वदाव्या थलमां ॥ देण ॥ ८ ॥
 के संग्राम कख्यां शूरतन, माख्यां माणस होडे ॥ के वल करीने नाट पडायी, घन ली
 घां मन कोडे ॥ देण ॥ ९ ॥ भणगल पाणी पीघां अह निशि, पूरा प्रमुख न राख्या ॥
 *पालर चाकरना जगंते, दोष अर्नता दाख्या ॥ देण ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुपुत्रवृत्तम्, ॥
 संबधरेणयत्पापं, कैवर्त्तस्येह जायते ॥ एकादनितवामोति, अपुतजससंग्रही ॥ १ ॥
 त्रावार्थः—भा लोकने विषे निह्न माणसने जेटलुं पाप एक वर्पमां लागे ठे, तेटलुं पाप
 अपवित्र (भणगल) पाणीना संग्रह करनारने मात्र एक विसमां लागे ठे. ॥ १ ॥
 पंच पावरनी पग पग हिंसा, करतां महेर न थाणी ॥ व्रसने पिण हृणतां कोइ वेला,

* पात्र पट्टे आकाशधी पेटेनुं पाणी अने बाकल पट्टे भूमिपी नीरुलेनुं पाणी; आ वधे नान
 ना पाणीना पूरने एक बीजायां जेलसेल करे अर्थात् पालना पाणीना पूरने बाकलना पाणीमां नांने
 अने बाकलना पाणीना पूरने पात्रना पाणीयां नांने; आ रीते करवायी पयुंज पाप लागे ठे.

भनुंरुगा चित नाणी ॥ दे० ॥ १ ॥ क्रोध लोभ अथ हांसीने वद, कूडां थाल जे दीघां ॥
 फल तेहनां जोगवर्वा निधे, धनवतिनी परे सीघां ॥ दे० ॥ २ ॥ चोरी कीधी परधन लेवा,
 घोरने संचल दीघो ॥ जेल संजेल करीने भाष्यां, विसवासी घन सीघो ॥ दे० ॥ ३ ॥
 रूपंत परनारी देखी, लीधी मदधी उलासी ॥ कामिनी कंत विठोहो कीघो, हृदय न
 ज्ञोयो ज्ञात्री ॥ दे० ॥ ४ ॥ नंदराय परे परिग्रह सबला, लेई कीघा जेसा ॥ ममताने वद
 कांइ न जाणयो, जे वांटा मरणनी वेला ॥ दे० ॥ ५ ॥ निशिज्जोजन जिजाने स्वादे, ज्ञांति
 नांति निपजाव्यां ॥ तेहना दोष प्रगट शिवशास्त्रे, जिनमतमें पिण भाव्या ॥ दे० ॥ ६ ॥ यतः ॥
 चत्वारि नरकचार, प्रथम रात्रिज्जोजन ॥ परस्त्रीगमनं चैव, संधानानंतकायके ॥ १ ॥
 ज्ञागार्थः-रात्रिज्जोजन, परस्त्रीगमन, बोलअघाणुं भने अर्नंतकायनुं अक्षय; ए चार
 नरकनां वारणांठे ॥ १ ॥ इत्यादिक जे पाप करमने, कीघां हशे कोई वेला ॥ तेहनां फल
 उरये इहां भाव्यां, जोगविये सह जेसां ॥ दे० ॥ ७ ॥ कइो कइां जइए कलि विधि क
 रीए, केहने मारले रहीए ॥ कोइ न नाय अमारो इहां कले, जेहने मुल दुःख कहीए ॥
 दे० ॥ ८ ॥ इम विजयंते रात्रि विहाणी, ते ध्रियेनी तिवारे ॥ श्रीजे उद्धाते दान ए वा

॥ वंशः ॥ अथ प्रांतं तं कामिनी, त्रिण्यं मित्तं तं गार ॥ काशवाय ततः ॥
 क्षेती नृप वरवार ॥ १ ॥ पांकारी पग्गट पणे, नांवे नृपने नाम ॥ देवयोग दुःखीयां
 प्रमे, करिंये परनां काम ॥ ३ ॥ सर ग्वशतां धनातणो, करतां दुप्परी पूर ॥ चूय्यो धमो
 निन धकी, वेयी देगणी नूर ॥ ३ ॥ जाल्लच दीधी लंपटं, सुसराने चरी स्नेह ॥ मूकजो
 तकादिक जणी, लसु यथुनं धरी नेह ॥ ४ ॥ इमं लल्लचायी प्रति दिने, लल्लनां लीची आ
 ज ॥ चारस पिण एकव्या वदो, अम निगनाइयो काज ॥ ५ ॥ सुसरा सामुने वडु, त्रिण्ये
 नगादना वीर ॥ धंने सरनें संग्रहां, धरिंये क्किण निधि धीर ॥ ६ ॥ तुमे न्यायी नरपाल
 ठो, पृष्ठीना पति शाह ॥ वद्वार करों वेगे ह्ये, करी कृपा सोछाद ॥ ७ ॥ एक देराणी
 कागले, पंचनें ये पंचाल ॥ एह अथम तुम राग्यमं, ते किम करं निसल्य ॥ ८ ॥ ते म
 थंथ दामत्र थयो, करं अत्युप्र उत्पात ॥ तुमे ठो केसरी तत डिरे, अहो नृपति अम
 तात ॥ ९ ॥ यतः ॥ उपजातिभूचम. ॥ उष्टस्यंरुःस्वजनस्यगूजा, न्यायेनकोशस्य च संप्र
 वृद्धिः ॥ अपरुपातोनित्रराप्रूचिता, पंचापिधर्माःनृपुंगवानां ॥ १ ॥ ज्ञानार्थः-उष्ट माण
 णसनीं रंरु करयो, स्वजननां सत्कार करयो, नायवंड धन (तिजोरी) नी वृद्धि क
 र्त्नी, मपरुपातणुं गखरु धने पोताना वेडानी धिता राखनी; ए पांनि धर्म वत्तम

राजाच्छनां च. ॥ १ ॥

॥ शाल १० मी. ॥ (राग बंगालो. राजा नहि नमो. ए देसी.)

निगुणी श्रवला चयण विचार, राय चिते चित्तमें तिणिवार ॥ राजा कोपथी ॥
 अम जामात ए निगुण मुजाण, किम एद्वयो करं कार्यं भजाण ॥ राजा कोपथी ॥१॥
 ए प्रांरुणी ॥ विकसित वदन ए बुद्धि निदान, एह तो निरंजल गंग समान ॥ राण ॥ न्याय
 मार्गे ए वनें पीर, सह एद्वनी नर रुटी नीर ॥ राण ॥ २ ॥ परनारीथी एद्वने त्याग, एता
 सिन इतो मयस सांजाग ॥ राण ॥ किम कीधूं हसे एह थकाज, दुं खोदो ए मूळगी लान
 ॥ राण ॥ १ ॥ चित्तीने सामंत निगर, मूकं नूर धना आगार ॥ राण ॥ त आध्या घरी मनमें
 पीर, दणमी वेग धमनं तीर ॥ राण ॥ १४ ॥ कंहे सुषो शेठ सुगुण गुणवंत, तुमे ठो चतुर
 विगदण संत ॥ राण ॥ प्राश्रित जन आभार अन्नूप, तुमं बुंठे रंज्या सवि अन्नूप ॥ राण ॥ ५ ॥
 फार्यवसे तुमे निज भावास, राख्या हुदो परदेसी दास ॥ राण ॥ मूको एद्वने स्वामी स
 पीर, तुमे जो परनारीना थीर ॥ राण ॥ ६ ॥ ए भवला अद्रुजाये आभ, पति विण एद्वने न
 गुळे राम ॥ राण ॥ जम नर थवजाती सार, करतां कांड न लाचे चार ॥ राण ॥ ३ ॥ तय
 ओते पंठा एह पीर, सांजोने नेमे साहस थीर ॥ राण ॥ १ ॥

घालु न्याय श्री अमे नित ॥ रा० ॥ ७ ॥ अम माणसत्रे अम त्रागा, नृपने एतनो दो
 ठे विचार ॥ रा० ॥ राखे जो वज मनमें राय, नामे सैतानिक नाम क्लाय ॥ रा० ॥ ९ ॥
 लकानिक जे ताहु समर्थ, ए दो धरे अत्रिमान निर्थ ॥ रा० ॥ जो संग्राम करण धरे दो
 दा, जो नावे तोठे तुज सांस ॥ रा० ॥ सांजली धसा केरां रंण, नृप पासे पक्षोपया ते
 सेण ॥ रा० ॥ वात विचार मुणी ततकाल, नृप कोपे श्रयो काल कराल ॥ रा० ॥ ११ ॥ वज
 शची रणनेर तिवार, निरुणी सत्र भया रुजट कूजर ॥ रा० ॥ हय गय रथ पायक न
 दि पार, सेन्य श्रयो संग्राममें श्यार ॥ रा० ॥ १२ ॥ धम पिण निज सेन्य उधाम, सज्ज की
 धो तिदां युद्धने काम ॥ रा० ॥ बिल्व भले तिदां चारण जाट, चिहुं विशि सैन्य तणो
 अन्यो श्राट ॥ रा० ॥ १३ ॥ जय पासे सवि पीरक लोक, सेन्योपश्य भक्ती धरे शोक ॥ रा०
 ॥ था अणजाणयो किम श्रयो काज, * जामाताठूं युव थकाज ॥ रा० ॥ १४ ॥ परदेही माटे
 कुग थाप, पेट चोलीनि उपांचे संताप ॥ रा० ॥ परिजन कंधे इम जिन मुबिलास, डाल म
 तेरमी प्रीजे उब्धहास ॥ रा० ॥ १५ ॥

॥ दोहा. ॥ युव मंगलणो जोरथी, अन्योन्ये असमानाते देवी कायर करे. रागे + प्रज

पुनः पान ॥ १ ॥ मयः मन्वानिकः मन्वानिकः, मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥
 एक एक चरुचोर ॥ २ ॥ चरुचोर चरुचोर चरुचोर, चरुचोर चरुचोर ॥ चरुचोर चरुचोर ॥
 सिद्धि, मन्की निर निर अण ॥ ३ ॥

॥ इय ॥ ३ ॥ ॥ (इय ॥ ३ ॥)

सवत इय प्रवर इय इय चरुचोर, पुनः मन्वानिकः मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ इय ॥

मयः मन्वानिकः मन्वानिकः, पुनः पटा मन्वानिकः मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥

मन्वानिकः मन्वानिकः, इतीया मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥

मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥

पुनः एहया मन्वानिकः मन्वानिकः, मन्वानिकः मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥

मन्वानिकः मन्वानिकः, मन्वानिकः मन्वानिकः मन्वानिकः ॥ मन्वानिकः मन्वानिकः ॥

धि कङ्काल पूरा ॥स०॥ ६ ॥ ताम घनशेठनो सैन्य पिण सनमुले, चालीथो वेइ निशाण
 मंका ॥ अश्व रथ वीर गज घनघटा घणघणो, जाणीए राम चढ्यो लेण लंका ॥स०॥ ७ ॥
 नाल गोला घणा शब्द बहु तेह तणा, सांजली शेष पिण क्षोत्र पायं ॥ तीर तरवार जा
 लातणा तेजथी, अंबरे तरणि ते सजय पाये ॥स०॥ ८ ॥ चिंतये शेठ ए युद्ध करते थके,
 रखे इहां माहरो मान गाले ॥ सैन्य बल प्रबल ठे ए सतानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते
 ते निदावे ॥ स०॥ ९ ॥ निरखतां वेंत सेन्या बधी शेठनी, जाणीए जलधिनी पूर आयो
 ॥ सैन्य राजातणो सपल नासी गयो, यदा थयो शेठनो अति सचायो ॥स०॥ १० ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता देखिने, कामिनी तव कंड़े कां लजावो ॥ शूर तजी तूर इश्रियारने
 नांखिने, बणिक आगें तुमे केम भावो ॥ स० ॥ ११ ॥ मरणना ज्ञय थकी
 जागिया कां मुधा, मातने तात जाया लजावी ॥ पंचमे वेसि किम मूठ बज
 घाजयो, एहवी कुतुबिनुज केम भावी ॥स०॥ १२ ॥ निसुणी नृप कोपियो सैन्य
 मुज लोपियो, डपियो वाव ए पाप केरो ॥ युद्ध कीधा बिना माम खोई मुधा, ए सेन्या
 नी मुज अति अंधेरो ॥स०॥ १३ ॥ इम कही नृप चढ्यो कवच तनुथी जढ्यो, शिर धर्यो

मनुकंपा चित नाणी ॥ देण॥ १॥ क्रोध लोभ जंय हांतीने वडा, कूडां थाल जे दीघां ॥
 फल तेहनां जोगववां निश्चे, धनवतिनी परे सीघां ॥ देण॥ १॥ चोरी कीघी परधन लेवां,
 चोरने संवल दीघो ॥ जेल संजेल करीने भाप्यां, विसवासी घन खीघो ॥ देण॥ १३ ॥
 रूपवंत परनारी देखी, लीघी मदधी उलाली ॥ कामिनी कंत विठोहो कीघो, हृदय न
 जोयो जाली ॥ देण॥ ४॥ नंदराय परे परिग्रह सबला, लेई कीघा ज्ञेसा ॥ ममतांने वडा
 कांइ न जाण्यो, जे ठांढया मरणनी येला ॥ देण॥ ५॥ निशिज्जोजन जिजाने स्वादे, ज्ञांति
 ज्ञांति निपजाव्यां ॥ तेहना दोप प्रगट शिवशास्त्रे, जिनमतमें पिण भाव्या ॥ देण॥ ६॥ यतः ॥
 चत्वारि नरकद्वारा, प्रथमं रात्रिज्जोजनं ॥ परस्त्रीगमनं चैव, संधानानंतकायके ॥ १ ॥
 ज्ञानार्थः—रात्रिज्जोजन, परस्त्रीगमन, बोलश्रथाणुं भने श्रनंतकायनुं नरकण; ए चार
 नरकनां वारणांठे ॥ १॥ इत्यादिक जे पाप करमने, कीघां हशे कोई येला ॥ तेहनां फल
 उदये इहां भाव्यां, जोगविये सहु ज्ञेसां ॥ देण॥ १७ ॥ कक्षो किहां जइए किलि विधि क
 रीए, केहने शरणे रहीए ॥ कोइ न नाथ भमारे इहां कणे, जेहने सुख दुःख कहीए ॥

॥ शोदा. ॥ अथ प्रान्ते ते कामिनो, शिष्ये भिक्षी तेवार ॥ कोटांवीप्यं ततक्षण, प
 होती नृप दरवार ॥ १ ॥ पोकागी पगट पणे, नांवे नृपने नाम ॥ देवयोग दुःखीयां
 न्नेमे, कर्मिण परनां काम ॥ २ ॥ मग गणनां धमातणो, कर्तां दुप्री पुर ॥ नृपयो धमो
 निज भकी, देवी देगणी नृग ॥ ३ ॥ ज्ञानच दीधी लंपटं, गुसराने बरी स्नेह ॥ मूकजो
 तक्राधिक नर्णी, लसु नयुने धरी नेह ॥ ४ ॥ इम लज्जानो प्रति दिने, लज्जनां लीची आ
 ज ॥ वाग्म पिण पकड्या वदो, अम निजसाज्यो काज ॥ ५ ॥ सुसरा मागुने वहु, शिष्ये
 नर्णरना नीर ॥ धंछे सरने संघहां, धर्मिण किण निधि धीर ॥ ६ ॥ तुमे न्यायी नरपाल
 जो, पृष्ठीना पति शाह ॥ वद्वार करं वेगे द्ये, करी कृपा सोडाह ॥ ७ ॥ एक वेराणी
 कारणे, पंचने दो पंचाय ॥ एह अथम तुम गग्यमं, ते किम करं निसत्व ॥ ८ ॥ ते म
 बांध दामज भयो, को अयुम उगात ॥ तुमे जो केमरी तस डिरे, अहे नृपति अम
 तात ॥ ९ ॥ यतः ॥ उपजातिनृम. ॥ दुष्टस्य देवः स्वजनस्य पूजा, न्यायेन कोडास्य च संप्र
 नृदिः ॥ अपद्रुपातो निजराप्रुचिता, पंचापियमोः नृपगुंगयानां ॥ १ ॥ जायाथः—दुष्ट माण
 णमनो नेम करणो, स्वजननो सत्कार करणो, नायबंदे घन (तिजोरी) नी वृद्धि क
 र्णनी वाक्काशावर्णां गणतं घटे तेनना देवानी सिता गालनी. प पति भयं तलम

भनुरेका चित नाथी ॥ दे० ॥ १ ॥ क्रोध लोभ जय हांसीने वश, कूडां झाल जे दीघां ॥
 फल तेहनां जोगवयां निम्हे, धनवतिनी परे सीघां ॥ दे० ॥ २ ॥ चोरी कीधी परथन लेवा,
 चोरने संवज दीघो ॥ जेल संजेल करीने भाप्यां, वितयासी घन झीघो ॥ दे० ॥ ३ ॥
 रूपवंत परनारी देखी, सीधी मद्यपी उलाझी ॥ कामिनी कंत विडोहो कीघो, हवय न
 जोयो जाली ॥ दे० ॥ ४ ॥ नंदराय परे परिम्रद सवला, लेई कीधा जेसा ॥ ममताने वश
 कांड न जाणयो, जे ठांडया मरणनी वेला ॥ दे० ॥ ५ ॥ निशिनोजन जिजाने स्वादे, जांति
 जांति निपजाव्यां ॥ तेइना दोष प्रगट शिवशास्त्रे, जिनमतमें पिण भाव्या ॥ दे० ॥ ६ ॥ यतः ॥
 चत्वारि नरकद्वारा, प्रथमं रात्रिनोजनं ॥ परस्त्रीगमनं चैव, संधानानंतकायके ॥ १ ॥
 भावार्थः—रात्रिनोजन, परस्त्रीगमन, बोलप्रयाणुं भने अनंतकायनुं नरकण; ए चार
 नरकनां दारणांठे ॥ १ ॥ इत्यादिक जे पाप करमने, कीघां हशे कोई वेला ॥ तेहनां फल
 उद्ये इहां भाव्यां, जोगविये तडु जेसां ॥ दे० ॥ २ ॥ कदो कदो जइए कलि विधि क
 रीए, केहने शरले रहीए ॥ कोइ न नाच भमारे इहां कले, जेहने सुख दुःख कहीए ॥
 दे० ॥ ३ ॥ इम बिलवंते रात्रि विहाणी, ते थिएवनी तिवोर ॥ न्रीजे उडहासे दाल ए वा
 रमी, कहि जिन भूत भनसारे ॥ दे० ॥ ४ ॥

धि कञ्जोत्त पूरा ॥ स० ॥ ६ ॥ ताम धनदोहनो सेन्य विण सनमुने, जालीयो वेद निवाण
 मीमा ॥ अथ रथ नीर गज पनपटा पणपणे, जाणीए राम चढ्यो देण क्कमा ॥ स० ॥ ७ ॥
 नाज गोला पणा दाबद बहु तेह तणा, सांजली दोप विण कोत्त पायं ॥ तीर तरवार ना
 लाताणा तंजथी, अंधेर तरणि ते सजय धानं ॥ स० ॥ ८ ॥ धितने देण ए युद्ध करतो प्रके,
 रणे इहां मादरो मान गावे ॥ सेन्य बल प्रयत्न वे ए सत्तानिक तणो, ताम सुग्गणि प्रते
 ते निदासे ॥ स० ॥ ९ ॥ निरखतां वेत सेन्या गथी दोहनी, जाणीए जलपिनो पूर थायो
 ॥ सेन्य राजतणो मगल नासी गयो, यदा थयो दोहने अति मयायो ॥ स० ॥ १० ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता वेगिने, काभिनी तय कसे कां लजालो ॥ दूर तज्जी तूर दथियाने
 नांभिने, वलिक थांगे नुमे केम थायो ॥ स० ॥ ११ ॥ मगणना अप प्रकी
 तागिया कां मुथा, मातने तात जाया लजानी ॥ पंचमे बेसि किम मळ नज
 पालाओ, पंहनी कुवुदि नुज केम थायी ॥ स० ॥ १२ ॥ नितुणी नृप कोपियो सेन्य
 मुज लोपियां, उपिया वाय ए थाए कसो ॥ युद्ध क्कीथा निना माम खोदं मुथा, ए सेन्या
 नी मुज अति थपेरो ॥ स० ॥ १३ ॥ इम कदी नृप चढ्यो कयच तनुथी जब्बां, धार थग्यो

एत एतान् ॥ १ ॥ राय संतानिक सैन्यमं, सामंत सवि सौंदरि ॥ धन्नादाहना कटकमं,
एक एह पडवीर ॥ २ ॥ धनपुर फोसंबी विंच, रणतो करं मंशाल ॥ सयज लोक जेवा
मिड्या, गृही निज निज ठाण ॥ ३ ॥

॥ शाल १५ मी. ॥ दसा कडव्याना.)

सकल दल प्रबल रण रंग वेगं चड्यां नृप सतानिक तणां मान धरतां ॥ गुहिर
तिदाण युप्रमाल रणतूर तिम घटा सधन आवाज करतां ॥ म० ॥ १ ॥ ए श्रांकर्ण ॥
गज पला मन उन्मन दृटा चल, शाश सिद्धय ॥ कराय शोना ॥ ब्रमर गुंजारवं पृणं
शेरी जव्या, दंत मूसल कराय दगं खोन्या ॥ म० ॥ २ ॥ कञ्ज कंबोज केकाण काडिमरना,
पालिपंथा युगसांण कद ॥ १ ॥ नृप सतानिक तणा सैन्यमं दीमता, ते संव जातिना
तुत्पि तदं ॥ म० ॥ ३ ॥ पलण घटाबलां वृरज कंठे वला, अति घणा नृप रथमांहे गा
जे ॥ रथ पला एहया सज कव्या समरमं, शाल उर्वंशयं ॥ अथिक गंजे ॥ म० ॥ ४ ॥ शिर
परी शंयं करं चाजता, सालता समरमं पति उवांहे ॥ वीर रमथं चड्या शीरा
जोगा पथ्या, गुजट एहया सदा सैन्यमांहे ॥ म० ॥ ५ ॥ नृप सतानिक तणां लडिय श्रोदिस
नृप पक्षिप विरपाव सासंभ नृप ॥ एह कव्या तणीं पालिपंथा

धि कङ्काल पूरा ॥स०॥ ६ ॥ ताम घनदोहनो सेन्य पिण सनमुले, चालीयो देइ निशाल
 मंका ॥ अश्व रथ वीर गज घनघटा घणघणे, जाणीए राम चड्यो लेण लंका ॥स०॥ ७ ॥
 नाज गोला प्रणा शब्द बहु तेह तणा, सांजनी दोष पिण दोहज पाये ॥ तीर तरवार ना
 लातणा तेजरी, अंबरे 'तरणि ते सन्नय थाये ॥स०॥ ८ ॥ चिंतने दोह ए युद्ध करते अके,
 रखे इहां मादरो मान गले ॥ सेन्य दल प्रबल ठे ए सतानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते
 ते निदाले ॥ स०॥ ९ ॥ निरखतां वेत सेन्या यरी शेठनी, जाणीए जलधिनी पूर आयो
 ॥ सेन्य राजातणो सयल्ल नासी गयो, यश धयो शेठनो अति सयायो ॥स०॥ १० ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता बेखिने, काभिनी तय कडे कां लजायो ॥ शूर तजी तूर दत्रियारने
 नांखिने, यणिक आगे तुमे केम आयो ॥ स० ॥ ११ ॥ मरणना जय प्रकी
 जागिया कां मुधा, मातने तात जाया लजावी ॥ पंचमे बेसि किम मूठ चल
 घालयो, एहवी कुटुळि तुज केम आवी ॥स० ॥ १२ ॥ निसुणी नृप कोणियो सेन्य
 मुज लोपियो, उपियो बाव ए पाप केरो ॥ युद्ध कीया विना माम खोई मुधा, ए सेन्या
 नी मुज अति अंधेरो ॥स०॥ १३ ॥ इम कदी नृप चड्यो कचच तनुथी जड्या, शिर ययो

पन प्यान ॥१॥ राय संतानिक सैन्यमें, सामंत सवि सौंदरी ॥ धन्नाशाहना कटकमें,
एक एह पडवीर ॥२॥ धनपुर कोसंबी बिचे, रणनो कर मंगला ॥ सयल लोक जोवा
मिड्या, मूकी निज निज गण ॥३॥

॥ बाल १४ मी. ॥ (इर्दा कडखानी.)

तवल दल प्रबल रण रग वंगे चड्यो, नृप सतानिक तणो मान धरतो ॥ गुहिर
निराण सुप्रमाण रणतूर तिम, धन घटा मयन आवाज करतो ॥मण॥१॥ ए श्रांफली॥
गज पणा मल उन्मल नृटा चले, शीश सिद्धर्या करीप शोजा ॥ ब्रमर गुंजारचे पूर्ण
रोशो जव्या, दंत मूमल करीप दुर्ग खान्या ॥मण॥२॥ कञ्च कंबोज केकाण काश्मिरना,
पालिपेटा गुरासाणि कडंग ॥ नृप सतानिक तणा सैन्यमें हौमता, ते सेवे जातिना
तुष्टि लईए ॥मण॥३॥ पणल घंटाबली वृज कंठे वला, अति घणा तूर रथमांदि गा
जे ॥ रथ पला एहया सज कव्या समरमें, शस्त्र उर्वीशर्या अधिक गजे ॥मण॥४॥ शिर
परी टोप कोंपे करा चात्रता, मालता समरमें पति उगंदि ॥ वीर रम्यी चड्या शीश
जोगा पव्या, गुजट एहया सदा सैन्यमांहे ॥मण॥५॥ नृप सतानिक तणो लडिय श्रोदेश
कर, प्रहिय शिरपाव सामंत दार ॥ यड करवा नली प्रवीण नली

ताम घनदोठनो सैन्य पिण सनमुखे, चालीयो देइ निशाण
 ॥ अथ रथ नीर गज घनपटा घणघणे, जाणीए राम चढ्यो देण लंका ॥ स० ॥ ७ ॥
 नाज गोला घणा टाड्य बहु तेह तणा, सांचली दोष पिण दोल्ल पावे ॥ तीर तरवार जा
 लातणा तेजथी, अंबरे 'तरणि ते सन्नय थावे ॥ स० ॥ ८ ॥ चिंतये दोठ ए युद्ध करते थके,
 रणे इहां मादरो मान गाले ॥ सैन्य बल प्रबल ठे ए सतानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते
 ते निदाले ॥ स० ॥ ९ ॥ निरग्यतां वंत सेन्या गयी दोठनी, जाणीए जलधिनी पूर थायो
 ॥ सैन्य राजातणोग्यन नासी गयो, यश थयो दोठनो अति सगयो ॥ स० ॥ १० ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता वंशिन, काभिनी तय कदे कां लजायो ॥ अर तजी तूर इश्रियारने
 नांशिन, गणिक आंगं तुमे केम भायो ॥ स० ॥ ११ ॥ मरणना जय थकी
 जागिया कां मुधा, मातने तात जाया लजायी ॥ पंचमे वेसि किम मूठ बज
 पादलो, एहरी कुडुडि तुज केम भावी ॥ स० ॥ १२ ॥ निसुणी नृप कोपियो सैन्य
 मुज लोपियो, छपियो वाय ए आप केरो ॥ युद्ध कीधा विना माम खोई मुधा, ए सेन्या
 नी मुज अति अंधेरो ॥ स० ॥ १३ ॥ इस कदी नृप चढ्यो कयच तनुथी जह्यो, शिर धर्यो

पन पान ॥१॥ राय संतानिक सैन्यमें, सामंत सवि सौंदर ॥ धनादाहना कटकमें,
एक एक पड़वीर ॥२॥ धनपुर फोसंबी धिंचे, रणनो करे मंगल ॥ सयत लोक जोवा
सिद्धा, मूकी निज निज ठाण ॥३॥

॥ शल १४ मी. ॥ (इहाँ कडवाना.)

सबल दल प्रबल रण रंग वंगे चड्या नूर सतानिक तणे मान धरता ॥ गुहिर
निशाण सुप्रमाण रणनूर तिम धन घटा सयत आवाज करता ॥म०॥१॥ ए श्रांकर्ण ॥
गज पणा मन उन्मत्त तूटा चले, शाशा सिद्ध्या कराय शोना ॥ द्रमर गुंजारवे पूर्ण
रोशो जम्हा, देत मूसन कराय दंगे खान्या ॥म०॥२॥ कछ कंबोज केकाण काडिमरना,
पालियदा सुगसाणि कडाए ॥ नूर सतानिक तणा सैन्यमें दोसता, ते संवे जातिना
तुष्टि तर्दाए ॥म०॥३॥ पणल घटावले वृत्त कंठे बला, अति घणा नूर रथमांदे गा
जे ॥ रथ पला एहवा सज कत्या समगमें, शस्त्र ठवेदाथी अधिक गजे ॥म०॥४॥ शिर
परी टोपे इंसं करा चालता, मायता समगमें पति उवांदे ॥ वीर रथ्ये चत्या डीदा
जोगा पत्या, मुगट एहवा सदा सैन्यमाहे ॥म०॥५॥ नूर सतानिक तणे लक्षिय श्रांदेश
वर, धरिय शिरपार सामंत दण ॥ यड कत्या नली पावीण तणी

धि कङ्काल पूरा ॥सण॥ ६ ॥ ताम घनदोवनो सैन्य पिण सनमुले, चालीयो वेइ निवाण
 मंका ॥ अश्व रथ वीर गज घनयटा घणघणे, जालीए राम चढ्यो लेण लंका ॥सण॥ ७ ॥
 नाज गोजा घणा शब्द बहु तेह तणा, सांजली दोष पिण दोल्ल पाये ॥ तीर तरवार जा
 लातणा तेजथ्री, अंकरे 'तरणि ते सन्नप धाये ॥स०॥ ७ ॥ चिंतने दोठ ए गुद्व करते श्रके,
 रये इहां मादरो मान गाले ॥ सैन्य बल प्रबस ठे ए सतानिक तणो, ताम सुरमणि प्रते
 ते निदाले ॥ स०॥ ८ ॥ निरखतां वेत सेन्या यथी शेठनी, जालीए जलधिनी पूर आयो
 ॥ सैन्य राजातलो सयल नासी गयो, यश धयो शेठनी अति सयायो ॥स०॥ १० ॥ नृपतणा
 सुजटने नासता देखिने, काभिनी तय कदे कां लजायो ॥ शूर तजी तूर इश्रियारने
 नांखिने, वणिक आगे तुमे केम भायो ॥ स० ॥ ११ ॥ मरणना जय शकी
 जागिया कां मुथा, मातने तात जाया लजावी ॥ पंचमे वेसि किम मूठ बल
 घालयो, एहवी कुटुलि तुज केम भावी ॥स०॥ १२ ॥ निसुणी नृप कोपियो सैन्य
 मुज लोपियो, उपियो वाय ए पाप केरो ॥ गुद्व कीधा विना माम खोई मुथा, ए सेन्या
 नी मुज अति अंधेरो ॥स०॥ १३ ॥ इम कही नृप चढ्यो कवर तनुश्री जढ्यो, धार धर्यो

मुगट अति तेज करतो ॥ ग्रही करवान विकराल निज नुजवंत, पुनरपि सैन्यश्री धैर्य
 परतो ॥स०॥ १४ ॥ श्यावियों जाम निज धामपर नरपति, ताम धनदंडो विण शूर धावे
 ॥ प्रागमि मरण एक शरण अरिदंतो, कऊवा काज तिहां शोठ जावे ॥स०॥ १५ ॥
 चिंतये ताम नृप सचिव सति सामटा, पश्टा पट्ट सुमग जमाई ॥ कर्णिय संग्राम आ
 राम को नवि खेह, एक घरमें किर्म ॥स०॥ १६ ॥ वागिय तो ननुं श्राय मुख
 ऊजळुं, लाज रहे नृपतर्णी अति विराग्य ॥ टाल प चोदस ॥ जाति कड्ये कडई, त्रिपु
 त्रिनविजय श्रीजे वड्ढांस ॥स०॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ इम चित्तते मचय मंत्र, आग्या नृपन पास ॥ का जोडो आगत
 रही, एम करे शरदास ॥ १ ॥ श्यामानी शो मं प ॥ जामानश्रा जोर ॥ करयो वंशो
 ॥ २ ॥ निज मन आणा शो ॥ ३ ॥ श्यामानी शो मं प ॥ जामानश्रा जोर ॥ करयो वंशो
 ॥ ४ ॥ मुन निजम ॥ मंत्र तमना वाच ॥ ५ ॥ प चानक अई वृष्टो, पिण तुमं यडा
 ॥ ६ ॥ वाग ॥ ७ ॥ नृप उद म नमः ॥ ८ ॥ प वंश निज बुद्धि, राग्या हुंश नि
 ॥ ९ ॥ त यम नृप पृष्ठियं, त माणसना वंश ॥ १० ॥ डम कहा नृप समजाविन, तडा
 ॥ ११ ॥ ते नाग ॥ १२ ॥ वंशो चाई तुम कुच प्रमुख, मूज घरु अथिकार ॥ १३ ॥ तय ते लक्ष्मी

करी, साश्रुपात वच ताम ॥ स्वामीजी भ्रमचो हुतो, प्रतिष्ठानपुर गाम ॥ ३ ॥ अय्यद्वारी
 धनमार वर, झीलवती घर नार ॥ पुत्र चार तस जोत्रता, धनदत्तादि उदार ॥ ५ ॥ इ
 त्यादिक सयली कथा, निरविशेष काही जाम ॥ निगुणी मंत्री चमकिया, ए पत्तो अग्नि
 राम ॥ १७ ॥ मात तातने उजव्णी, यतन कराव्यां गास ॥ गन्धानरण गोरम प्रमुग्ध, वी
 धां मन उद्धास ॥ १८ ॥ आकर्षीं आचारमं, राखी खी मुखलीन ॥ मात ताल त्राता प्र
 ते, कीषा निज आधीन ॥ १९ ॥ कडेो चाड ते धन प्रते, किम उजगडो ठीक ॥ शे फार
 एपी पड्ढो, निश्चय हुजे नजीक ॥ २० ॥

॥ बाल ? ॥ मी. ॥ (गढडामें ऊजे सदियां हाथणी. ए वंदी.)

सचिय कथा ते मांजली वोजडा, कांडक धैर्य वगी मनमांह ॥ भ्रमचे देवस्थिय स
 ही तो कौतुक केतव्युं ॥ ए भांरुणी ॥ कडे ईम मंत्रीने मनगंशुं, निसुणोने भ्रमची
 वात उघांह ॥ २१ ॥ १ ॥ करतल लक्षण वत्रीशे जलां, वली पगे पदम अत्र सुविचित्र ॥
 २२ ॥ ते सहिनाण थकी भ्रमे उजगुं, देग भ्रमचो गुण्य पवित्र ॥ २३ ॥ तामते मंत्री
 धिण्ये नारिने, तेडीने पढोत्या धनपनि पास ॥ २४ ॥ करीय जहारने वेठा यत्रयी, अ
 न्योन्हे विरचे वात विज्ञास ॥ २५ ॥ ३ ॥ ए त्रिण्ये जामिनी धनपति देखिने, उजवळ्यो नि

मुगट अति तेज करतो ॥ ग्रही करवाल विकराल निज जुजवले, पुनरपि सैन्यथी धैर्य
घरतो ॥स०॥ १४ ॥ आवियो जाम निज धामपर नरपति, ताम घनशेठ पिण शूर थावे
॥ भागमि मरण एक शरण अरिदंतनो, फूजवा काज तिहां शेठ जावे ॥स० ॥ १५ ॥
चित्तवे ताम नृप सचिव सवि सामटा, एकठा एह सुसरो जमाई ॥ करिय संग्राम आ
राम को नवि लहे, एक घरमें किस्ती ए कमाई ॥स०॥ १६ ॥ वारिये तो जलुं थाय मुख
ऊजलुं, लाज रहे नृपतणी अति विलासे ॥ ढाल ए चौदमी जाति कडखे कही, विबुध
जिनविजय व्रीजे वड्ढासे ॥स०॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ इम चिंतीने सचिव सवि, भाव्या नृपने पास ॥ करजोडी आगल
रही, एम करे अरवास ॥ १ ॥ स्वामीजी शो कोप ए, जामाताथी जोर ॥ करवो घटशे
किणिपरे, निज मन भाणो गोर ॥ २ ॥ दाखाथी अपजश हुवे, जीत्या पण जंजाल ॥
स्वंबु थई जुन चित्तमें, ए सवि तुमचा वाल ॥३॥ ए वालक थई वृटशे, पिण तुमे वडा
नारिंद ॥ बावी हाये वृद्धने, कुण ठेवे मतिमंद ॥४॥ ए घने निज बुद्धि, राखा हुशे नि
स्संक ॥ ते भ्रमे जइने पूबिये, ते माणसनो वंक ॥५॥ इम कही नृप समजाविते, तेडा
वी ते नार ॥ कहो बाई तुम कुल प्रमुख, मूल थकी अधिकार ॥ ६ ॥ तव ते लखाथी

करी, साश्रुयात यन्ताम ॥ स्वामीजी भ्रमचो हुतो, प्रतिष्ठानपुर गाम ॥ ७ ॥ व्यवहार
 धनसार वर, श्रीलायती घर नार ॥ पुत्र चार तस शोभता, धनवृत्तादि उदार ॥ ८ ॥ इ
 त्यादिक संपत्ती कथा, निरविशेष कही जाम ॥ निरुणी मंत्री चमकिया, ए धनो अन्नि
 राम ॥ ९ ॥ मात तातने उज्ज्वी, यतन कराव्यां ग्यास ॥ यन्त्रानरण गोरस प्रमुख, दी
 धां मन उन्व्हास ॥ १० ॥ आकर्षीं आयासमें, राखी खी मुकुलीन ॥ मात तात व्राता प्र
 ते, कीभा निज आधीन ॥ ११ ॥ कदो वाह ते धन प्रते, किम उलगव्यो ठीक ॥ शे नार
 णधी पदनां, निश्चय दुशे नजीक ॥ १२ ॥

॥ ब्राह्म १५ मी. ॥ (गढडामें जूले सदियां हाथणी. ए देखी.)

सचिय कला ते मांजली योजडा, कांडक धैर्य घरी मनमांत ॥ अमचे देयरिये स
 ही तो कौतुक केन्द्रण्युं ॥ ए भांकणी ॥ कदो ईस मंत्रीने मनरंगणुं, निरुणेने भ्रमची
 यात उद्यांस ॥ अ० ॥ १ ॥ करतल लरुण यत्रीशे सलां, यली पगे पवम अठे सुविचित्र ॥
 अ० ॥ ते सहिनाण थकी भमे उज्जणुं, देवर अमचो पुण्य पयित्र ॥ अ० ॥ ३ ॥ तामते मंत्री
 त्रिणं नारिने, तेडीने पशोत्या धनपनि पास ॥ अ० ॥ करोय जूहारने वेग यत्रयी, अ
 न्गोन्ग निगंच वात विलास ॥ अ० ॥ ३ ॥ ए त्रिणये चािमिनी धनपति देखिने, उतल्लयो नि

श्वयधी आकार ॥ अ० ॥ कहे धन देवर कां बोलो नही, अमचा तुम जीवन प्राणाधार ॥
 अ० ॥ ४ ॥ तव धर्मो बोल्ले कहे तुम कोण ठो, जाडेन माथो सरोवर काम ॥ अ० ॥ धनाने
 नांमठे जगमें घणा, सध्यांन गगडां देवग ठाम ॥ अ० ॥ ५ ॥ तव हर्षी नोजाड कहे हेज
 शुं, तुम अम देवर ठो निग्थाग ॥ अ० ॥ पण वज्र तमचां चरण पम्वा तडो, धन्यय धर्मो
 पदम दिदार ॥ अ० ॥ ६ ॥ धर्मो कहे परन्वाने फर्मुं नहा, तो मिम नोभर्वाजे पाय ॥
 अ० ॥ अमं तो तुं श्रावक धनवारी मडा, डीथी पावु मन वच काय ॥ अ० ॥ ७ ॥ तय तेह
 सर्वाये हठ कर्था घणो, शुं तुम गुन कंगे नज जाति ॥ अ० ॥ जाण्यां म कुल वेडादिक
 तुम तणां, ए तुम नोजाड साहान ॥ अ० ॥ ८ ॥ तव हर्षी कहे थनो जानो नमं, यमज्यो
 सवि अमचो अपराय ॥ अ० ॥ ९ ॥ तुम देग तुम परमाठश्री, मय ए पामु तुं निगवाथ ॥
 अ० ॥ १० ॥ स्नान शुद्धीया कवा वारणे, मरुगा मानाजो पायें ताम ॥ अ० ॥ हर्षी मर्त्तो
 कुटुंब मयि नेलो थया, मड वेनिं नुपन्या तव आगम ॥ अ० ॥ ११ ॥ वात जग्याथी मर्त्तो
 व नृपतणां, ए मयि धनानां परिचार ॥ अ० ॥ एहथी अणधत्ता वात नको हुं, एहनां
 तो नुत्तमठे आचार ॥ अ० ॥ १२ ॥ राजा मन राजा थया ते मानर्वा, धर्मो पिण अच
 तर्णां वाग ॥ अ० ॥ अर्थ सिहासन घमण आणियो, उर्वाने कर्था रास जुहार ॥ अ० ॥ १३ ॥

पत्नी सुखमभ करे इक वीनती, कहे तोम मात पितात्रिक सर्वे ॥ अ० ॥ दलये हलवे क
 रिने मंदिर मेलीया, नोजाइशुं एवडो शो तुम गर्बे ॥ अ० ॥ १३ ॥ तय बेसे धनपति नृप
 तुमे सांजलो, एहने हुतो कांडक मन अहंकार ॥ अ० ॥ स्त्रीधी अकार्य सवा बहु नीपजे,
 कज्जनेो मंदिर ए निरघार ॥ अ० ॥ १४ ॥ यतः ॥ अनुदुवृत्तम. ॥ सुवंशो योप्यकृत्यानि,
 कुलते प्रेरितः स्त्रिया ॥ स्नेहलं दधि मज्जाति, पदय मंथानको न किं ॥ १ ॥ जावाथः—जू
 उके, सारा वांसमां रहेलो एवो जे मंथानक (रवेयो) ते पण स्त्रीनो पेरणाए करिने
 स्नेहयाला दधिने शुं नथी वलोची नांगतो? अपितु वलोची नांखे ठे! तेम सारा वंश
 मां उत्पन्न अएलो एवो जे पुरूप, ते पण स्त्रीनी प्रेरणात्री शुं अकृत्यो न करे? अपितु
 करेज! ॥ १ ॥ तेह जणी एटलो जेद देग्याडियो, जे जणी न धरे मनमें मान ॥ अ० ॥
 लाले चेचाणी तो पिण मोजही, स्त्रीने ठे तेह तलो उपमान ॥ अ० ॥ १५ ॥ यतः ॥
 माननितो मानज करे, जीत्यो कंत सुहाय ॥ जइ लाखीणी वाहिनी, तो पहिरीजे
 पाय ॥ २ ॥ वंधय स्नेह तिहां लंगं जाणीए, जिहां लंगं कामिनी यात न कान ॥ अ० ॥
 कोणिक राये हल्ल विहल्लगुं, कीधो संग्राम ते स्त्री वच मान ॥ अ० ॥ १६ ॥ सुणी राजा
 धना वपण सुहामणां, मनमांही हरखे अतिही विशाल ॥ अ० ॥ श्रीजे उद्धामे प्रेम प्र

ने हो राज बाब्या राजगृहि ज्ञानी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गु० ॥ गुन गुकने हो
 राज बट्ट परिवारधी जी, मन धरता प्रति उवरंग ॥ सु० ॥ अथ ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर श्रावीया जी, तिहां राय जितार। सुविंदोय ॥ गु० ॥ खाग त्यांग हो राज सब
 ल सबि नृपकी जी, अरि नाम। गया परदेदा ॥ गु० ॥ जति सुखजा हो राज प्रवल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकर्ण। ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीनी जी, सती स
 कल मांदि शिखार ॥ गु० ॥ पुत्रि रुयडा हो राज कला गुण बलही जी, नाम गीतकजा
 तस सार ॥ गु० ॥ ज्ञान ॥ ११ ॥ कला चोदाठ हो राज श्रंग भार्वा वस। जी, बली नाम तिता
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिवसे हो राज सखं.या परिवरी जी, कांड पदांती उद्यान सुगम
 ॥ गु० ॥ ज्ञान ॥ १२ ॥ स्नान कांधो हो राज पुष्करणी। थी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गु० ॥ लेई बीला हो राज गांवे गुन स्वरपकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 ज्ञान ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुंग भाव्या वही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीय ॥
 गु० ॥ स्वर रुडो हो राज द्यगुट ए निधि कद्यो जी, बली भालंद करण सदैव ॥ गु० ॥ ज्ञान
 ॥ १४ ॥ पतः ॥ मांतिनीचुलम् ॥ मुस्तिनिसुर नियानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथरपाप्रदुतः ॥ अति चतर सुगम्यो बलूनः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोत्रयेवः ॥ ? ॥ ज्ञानार्थः—सुखी पुरुषने सुखनो नितान, दुःखी पुरुषाने
विनोद कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेयनो अग्रदूत, चतुर पुरुषने मदे
साक्षी समजाय तेवो, स्वीछने यल्लन श्रने चार वेद उपर जाणे पांचमो उपवेदत्र होय
नहि ! एवो जे सुस्वर, ते जगतने विषे जयवंतो वर्त्तो ॥ १ ॥ एक श्रावी हो राज मृगी
स्वरथी तिहां जी, लयलीन श्रई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज ठेजे निज कंठत्री,
नृप पुत्री द्वार उद्दाम ॥ गुण ॥ करी क्रीडा हो राज श्रावी निज मंदिंर, तेह गीतकला
गुणधाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनये जी, सुणो तातजी निज दित का
म ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ६ ॥ स्वर नादे हो राज कुरंगी नडा करी जी, कंठप्रकी लाये द्वार ॥ गुण
॥ श्रा जयमें हो राज जे मिलडो एहयो, ते वरयो में जस्तार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ७ ॥ तेद यानो
हो राज थई सवि धानके जी, जिम जलमें तेल प्रचार ॥ गुण ॥ दाल सोलमी हो राज

त्रीजा उद्धालनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ८ ॥
॥ दोहा. ॥ ते यानो धत्रे नुरत, सांजली सेयक पास ॥ सुजग वेडा पहेरी चढयो,
राजसनाये खास ॥ १ ॥ कहे धत्रो चूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुलच श्रेष्ठे स्वखं
तेने, पिण एक मांजल खेल ॥ २ ॥ वनमेंश्री स्वरधी खरी, लावूं नाग मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चाह्या राजगृहि न्नी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गु० ॥ शुन शुक्ने हो
 राज बहुल परिवारथी जी, मन धरता अति उतरंग ॥ सु० ॥ अण० ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गु० ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेश ॥ गु० ॥ नवि सुणजो हो राज प्रबल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कल मंदि शिरदार ॥ गु० ॥ पुत्रि रूपडी हो राज कला गुण बेलडी जी, नाम गीतकला
 तस सार ॥ गु० ॥ न० ॥ ११ ॥ कला चोशठ हो राज अंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिक्से हो राज सखीथी परिवरी जी, कांइ पद्दोती उद्यान सुगम
 ॥ गु० ॥ न० ॥ १२ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीधी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गु० ॥ लेई वीणा हो राज गावे शुन स्वरथकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 न० ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या वही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गु० ॥ स्वर रुडो हो राज अखुट ए निधि कछो जी, वली भाणंद करण सदैव ॥ गु० ॥ न०
 ॥ १४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चतुर सुगम्यो बल्लभः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोत्रोपेयः ॥ १ ॥ तावार्थः—सुखी पुरुषने सुगुनो न्यान, दुःखी पुरुषाने
 विनोद कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेवनो अप्रदूत, चतुर पुरुषने संदे
 क्षाक्षी समजायंतयो, स्वीछने वद्वन अने चार वेद उपर जाणे पांचमो उपवेदज होय
 नहि ! एयो जे सुस्वर, ते जगतने निये जगंतो जनों ॥ १ ॥ एक श्रायी हो राज मृगी
 स्वरथी तिशं जी, लयलीन थंड रद्दी ताम ॥ गुण ॥ तस कंडे हो राज ठेये निज कंठथी,
 नृप पुत्री पार ब्रह्ममा ॥ गुण ॥ जण ॥ क्रीडा हो राज श्रायी निज मंदिरं, तेह गीतकला
 गुणयाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनंच जी, मुणो तातजी निज हित का
 म ॥ गुण ॥ जण ॥ ६ ॥ स्वर नांदे हो राज कुर्गी वडा करी जी, कंठथकी लाये हार ॥ गुण
 ॥ आ नयमं दो राज जे मिसदो पदयो, ते वरयो में नरतार ॥ गुण ॥ जण ॥ ७ ॥ तेह याचो
 हो राज थंड मयि धानके जी, जिम जलमं तैल प्रचार ॥ गुण ॥ दाल सोलमी हो राज
 श्रीजा उब्बागनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुण ॥ जण ॥ ८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते याचो धत्रे नुरत, मांजली सेयक पास ॥ सुभग वेदा पहरी चटयो,
 राजतनाये ग्यास ॥ १ ॥ कहे धत्रो दूनाथ सुण, वनमं मृगनो मेल ॥ सुलज श्रवे स्वलं
 तेने, पिण एक मांजल गेल ॥ २ ॥ वनमंथी स्वरथी खरी, लागं नगर मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चाड्या राजगृहि जणी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गुण ॥ गुज शुकने हो
 राज बहुल परिवारथी जी, मन धरता अति उबरंग ॥ सुण ॥ अण ॥ ए ॥ दीन केते हो राज
 लटमीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गुण ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेश ॥ गुण ॥ जवि सुणजो हो राज प्रबल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए अंकाणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कल मांहे शिरदार ॥ गुण ॥ पुत्रि रूपडी हो राज कला गुण वेवडी जी, नाम गीतकला
 तस सार ॥ गुण ॥ जण ॥ ११ ॥ कला चोशठ हो राज श्रंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गुण ॥ एक किवसे हो राज सखीश्री परिवरी जी, कांइ पढोती उद्यान सुगम
 ॥ गुण ॥ जण ॥ १२ ॥ स्नान कीयो हो राज पुष्करणीधी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गुण ॥ लेई वीणा हो राज गावे गुज स्वरथकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गुण ॥
 जण ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या वही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गुण ॥ स्वर रुडो हो राज अष्टुट ए निधि कसो जी, वली भाणंद करण सदैव ॥ गुण ॥ जण
 ॥ १४ ॥ यतः ॥ मालिनीचुत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रयण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चतुर सुगम्यो बह्वनः कामिनीनां, जपति जगति

नादः पंचमश्रोपवेदः ॥ ? ॥ आचार्यः-मुखी पुरुषने मुखनो निधान, दुःखं पुरुषाने
 धिनेव कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेवनो अग्रदूत, चतुर पुरुषने सदे
 साक्षी समजाय तेवो, स्त्रीठने वल्लन श्रने चार वेद उपर जाले पांचमो उपवेदज होय
 नहि ! एवो जे सुस्वर, ते जगत्ने विषे जयंतो वर्त्ता ॥ १ ॥ एक श्रावी हो राज मृगी
 स्वरथी तिहां जी, लयलीन थई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज त्वे निज कंठत्री,
 नृप पुत्री दार उक्ताम ॥ गुणाऽऽऽ ॥ करी क्रीडा हो राज श्रावी निज मंथिर, तेह गीतकला
 गुणयाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनचे जी, सुणो तातजी निज दित का
 म ॥ गुणाऽऽऽ ॥ ६ ॥ स्वर नादे हो राज कुरंगी वग करी जी, कंठथकी लावे हार ॥ गुण
 ॥ श्रा प्रयमं हो राज जे मिसशे एहयो, ते वरयो में भरतार ॥ गुणाऽऽऽ ॥ ७ ॥ तेह वार्त्ता
 हो राज थई सवि धानके जी, जिम जलमें तेल प्रचार ॥ गुण ॥ ढाल सोलमी हो राज
 श्रीजा उद्धासनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुणाऽऽऽ ॥ ८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते वार्त्ता धत्रे नुरत, सांजली सेवक पास ॥ सुभ्रग वेश पहरी चढयो,
 राजसनाये खास ॥ १ ॥ कहे धत्रो भूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुलज श्रेते स्वखं
 तने, पिण एक सांजल खेत्त ॥ २ ॥ वनमेंश्री स्वरथी खरी, लावूं नगर मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चढ्या राजगृहि प्रणी जी, दयिता दोप लेई संग ॥ गु० ॥ शुभ शुभने हो
 राज बहुल परिवारथी जी, मन धरता प्रति उवरंग ॥ सु० ॥ अथ ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गु० ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेग ॥ गु० ॥ नवि सुयजो हो राज प्रवल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कत मांदि शिरदार ॥ गु० ॥ पुत्रि रूपडी हो राज कला गुण बेलडी जी, नाम गीतकला
 तस सार ॥ गु० ॥ न ॥ १ ॥ कला चोशठ हो राज श्रंगे आवी वसी जी, बली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिवसे दो राज सखीथी परिवरी जी, कांइ पढ़ाती नयान सुठाम
 ॥ गु० ॥ न ॥ २ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीथी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गु० ॥ लेई वीणा हो राज गांव शुभ स्वर्णकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 न ॥ ३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या वही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गु० ॥ स्वर रुडो हो राज अयुट ए निधि कळो जी, बली भाणंद करण सदैव ॥ गु० ॥ न ॥
 ॥ ४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चतुर सुगम्भो यत्नतः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोपयेदः ॥ ? ॥ ज्ञानार्थः-मुखी पुरुषने मुखनो नितान, उःत्वा पुरुषानि
 विनोव कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेयनो अमदूत, चतुर पुरुषने सदे
 साइथी समजाय तेयो, स्वीछने यद्वन थने चार वेद उपर ज्ञाणे पांचमो उपवेदज होय
 नहि ! एयो जे सुस्वर, ते जगत्ने निषे जयंतो यत्तो ॥ १ ॥ एक श्रावी हो राज मृगी
 स्वरथी तिहां जी, लयलीन थई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठ हो राज वेये निज कंठत्री,
 नृप पुत्री द्वार उदाम ॥ गुण ॥ ज्ञ ॥ १ ॥ ॥ करी कीडा हो राज श्रावी निज मंदिर, तेह गीतकला
 गुणधाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनंचे जी, सुणो तातजी निज द्वित का
 म ॥ गुण ॥ ज्ञ ॥ १ ॥ ॥ म्बर नादे हो राज कुरंगी बग करी जी, कंठथकी लावे द्वार ॥ गुण
 ॥ श्रा ज्ञयमें हो राज जे मिसझे एहयो, ते बरयो में नरतार ॥ गुण ॥ ज्ञ ॥ १ ॥ ॥ तेह यानो
 हो राज थई सवि धानके जी, जिम जलमें तैल प्रचार ॥ गुण ॥ दाल सोलामी हो राज
 श्रीजा उद्वहासनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुण ॥ ज्ञ ॥ १ ॥ ॥

॥ दोहा. ॥ ते यानो धत्रे नुरत, सांनली सेचक पास ॥ सुभग वेदा पहरी चढयो,
 राजसनाये ग्यास ॥ १ ॥ कहे धत्रो भूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुद्वज श्रेते स्वत्वं
 तने, पिण एक सांजान खेत्त ॥ २ ॥ वनमंथ्री स्वरथी खरी, लावृ नगर मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चाड्या राजगृहि ज्ञणी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गुण ॥ गुञ्ज शुकने हो
 राज बहुद परिवारथी जी, मन धरता प्रति उवरंग ॥ सुणाद्यण ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जित्तारी सुविशेष ॥ गुण ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेश ॥ गुण ॥ ज्ञवि सुणजो हो राज प्रवल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कल मांदि शिखार ॥ गुण ॥ पुत्रि ऋयडी हो राज कला गुण वेवडी जी, नाम गीतकला
 तस सार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ११ ॥ कला चोशठ हो राज श्रंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गुण ॥ एक दिक्से हो राज सखीश्री परिवरी जी, कांड पदेती उद्यान सुगम
 ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ १२ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीधी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गुण ॥ लेई वीणा हो राज गावे गुञ्ज स्वर्धकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गुण ॥
 ज्ञण ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुंरंग आव्या वही जी, वलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गुण ॥ स्वर ऋडो हो राज श्रगुट ए निधि कसो जी, वली भाणंद करण सदैव ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥
 ॥ १४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चतुर सुगम्यो क्लृप्तः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोत्रवेदः ॥ १ ॥ नायार्थः—मुखी पुरुषने सुगुनो नयान, दुःखी पुरुषानि
 विनोद कारक, कान तथा मनने द्रुण कानार, कामदेवनो अमदूत, चतुर पुन्यने सदे
 साइथी समजाय तेयो, स्त्रीठने बल्लन अने चार वेद उपर जाले पांचमो उपवेदज होय
 नहि ! एयो जे सुस्वर, ते जगतने विपे जयंतो वर्त्ता ॥ १ ॥ एक श्राव्यी हो राज मृगी
 स्वरथी तिहां जी, लयलीन अई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज वये निज कंठप्री,
 नृप पुत्री द्वार उदाम ॥ गुण ॥ करी क्रीडा हो राज श्राव्यी निज मंदिर, तेह गीतकला
 गुणयाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनंच जी, सुणो तातजी निज दित का
 म ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ६ ॥ स्वर नादे हो राज कुरंगी बग करी जी, कंठशकी लाये द्वार ॥ गुण
 ॥ श्रा ज्ञमं हो राज जे मिसदो एहयो, ते वरयो में जस्तार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ७ ॥ तेह वार्त्ता
 हो राज थई सवि धानके जी, जिम जलमें तेल प्रचार ॥ गुण ॥ दाल सोलमी हो राज
 श्रीजा उद्धासनी जी, कही जिनविजयं सुविचार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ ८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते वार्त्ता थत्रे नुरत, सांजली सेवक पास ॥ सुजग वेदा पहेरी चढयो,
 राजसनाये खास ॥ १ ॥ कहे धत्रो चूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुलज श्रवे स्वखं
 तने, पिण एक सांजल खेज ॥ २ ॥ वनमेंप्री स्वरथी खरी, लावूं नगर मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चाढ्या राजगृहि ज्ञणी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गु० ॥ गुज गुकने हो
 राज बहुद परिवारथी जी, मन धरता अति उवरंग ॥ सु० ॥ अण ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गु० ॥ खाग त्यागे हो राज सव
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेज ॥ गु० ॥ जवि सुणजो हो राज प्रवल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कल मांदि शिरदार ॥ गु० ॥ पुत्रि रूपडी हो राज कला गुण वेवडी जी, नाम गीतकजा
 तस सार ॥ गु० ॥ जण ॥ १ ॥ कला चोशठ हो राज अंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिक्से दो राज सखीथी परिवरी जी, कांड पढांती उद्यान सुगम
 ॥ गु० ॥ जण ॥ २ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीथी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गु० ॥ लेई वीणा हो राज गांवे गुज स्वथकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 जण ॥ ३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या वही जी, वलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गु० ॥ स्वर ढडो हो राज अखुट ए निधि कधो जी, वली भाणंद करण सदैव ॥ गु० ॥ ज०
 ॥ ४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रयण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चलुर सुगम्यो बल्लभः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोपवेदः ॥ ? ॥ नाचार्यः-सुखी पुरुषने सुयुक्तो नितान, दुःखी पुरुषोने
 धिनोव कारक, कान तथा मनने दरुण करनार, कामदेयनो अमदूत, चतुर पुरुषने सदे
 लाडधी समजाय तेवो, स्त्रीचिने वद्वन श्रने चार वेद उपर जाणे पांचमो उपवेद्वज होय
 नहि ! एवो जे सुस्वर, ते जगत्ने विषे जययंतो वर्यो ॥ १ ॥ एक श्राची हो राज मृगी
 स्वरथी तिहां जी, लपलीन थई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज ग्ये निज कंठथी,
 नृप पुत्री दार उहाम ॥ गुणात्रणा ? पा ॥ क्रीडा हो राज श्राची निज मंदिंर, तेह गीतकजा
 गुणथाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीनि वीनयं जी, सुणो तातजी निज द्वित का
 म ॥ गुणात्रणा ? ६ ॥ स्वर नादे हो राज कुम्गी वडा करी जी, कंठथकी लाये शार ॥ गुण
 ॥ श्रा जयमें हो राज जे मिसरो एहयो, ते वरयो में नरतार ॥ गुणात्रणा ? ७ ॥ तेह वानो
 हो राज थई मवि पानके जी, जिम जलमें तैल प्रचार ॥ गुण ॥ दाल सोलमी हो राज
 श्रीजा उड्डामनी जी, कही जिनविजयं सुविचार ॥ गुणात्रणा ? ८ ॥

॥ दोहा. ॥ ते श्राचो धरे नुरत, मांजली सेवक पास ॥ मर्या २
 राजरनाये खास ॥ १ ॥ कहे धरो

ने हो राज चाड्या राजगृहि ज्ञणी जी, दयिता दोय लेई संग ॥ गु० ॥ शुभ्र शुक्ने हो
 राज बहुद परिवारथी जी, मन धरता प्रति उवरंग ॥ सु० ॥ अथ० ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आवीया जी, तिहां राय जितारी सुविशेष ॥ गु० ॥ खाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नासी गया परदेठ ॥ गु० ॥ ज्ञवि सुणजो हो राज प्रचल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए थांकणी ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावली गुणनीली जी, सती स
 कल मांदि शिरदार ॥ गु० ॥ पुत्रि रूपडी हो राज कला गुण वेवडी जी, नाम गीतकला
 तस सार ॥ गु० ॥ ज्ञ० ॥ ११ ॥ कला चोदाठ हो राज अंगे आवी वसी जी, वली नाम तिसो
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक दिवसे दो राज सर्वथी परिवरी जी, कांड पढाती उद्यान सुगम
 ॥ गु० ॥ ज्ञ० ॥ १२ ॥ स्नान कीधो हो राज पुष्करणीधी तिहां जी, देखे पुष्पादिक मनोहार
 ॥ गु० ॥ लेई वीणा हो राज गांवे शुभ्र स्वरथकी जी, ग्राम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 ज्ञ० ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुरंग आव्या यही जी, बलि नाग प्रमुख बहु जीव ॥
 गु० ॥ स्वर रुडो हो राज अखुट ए निधि कसो जी, वली भाणंद करण सदैव ॥ गु० ॥ ज्ञ०
 ॥ १४ ॥ यतः ॥ मालिनीवृत्तम् ॥ सुखिनिसुख निधानो दुःखितानां विनोदः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदूतः ॥ अति चलुर सुगम्यो यत्नः कामिनीनां, जयति जगति

नादः पंचमश्रोत्रवेदः ॥ ? ॥ प्रायार्थः—सुखी पुरुषने सुखनो निधान, दुःखी पुरुषने
 धिनोद कारक, कान तथा मनने हरण करनार, कामदेयनो अग्रदूत, चतुर पुरुषने सदे
 साइथी समजाय तेयो, खीउने यद्वन अने चार वेद उपर जाणे पांचमो उपवेदज होय
 नहि ! एयो जे सुस्वर, ते जगतने विषे जयंतो यत्तों ॥ १ ॥ एक श्रावी हो राज मृगी,
 स्वरथी तिहां जी, लयलीन थई रही ताम ॥ गुण ॥ तस कंठे हो राज ठवे निज कंठथी,
 नृप पुत्री द्वार उदाम ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ १ ॥ ५ ॥ करी क्रीडा हो राज श्रावी निज मंकिरे, तेह गीतकला
 गुणयाम ॥ गुण ॥ निज तातने हो राज नमीने वीनचे जी, सुणो तातजी निज हित का
 म ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ १ ॥ ६ ॥ स्वर नादे हो राज कुरंगी बडा करी जी, कंठथकी लावे हार ॥ गुण
 ॥ श्रा ज्ञवमें हो राज जे मिले एहयो, ते यरयो में नरतार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ १ ॥ ७ ॥ तेह वात्ता
 हो राज थई सवि धानके जी, जिम जलमें तैल प्रचार ॥ गुण ॥ ढाल सोलमी हो राज
 व्रीजा उद्धासनी जी, कही जिनविजये सुविचार ॥ गुण ॥ ज्ञण ॥ १ ॥ ८ ॥

॥ बोदा. ॥ ते वात्ता धन्ने तुरत, सांजली सेवक पास ॥ सुभग वेदा पहेरी चढ्यो,
 राजसन्नयि खास ॥ १ ॥ कहे धन्ने भूनाथ सुण, वनमें मृगनो मेल ॥ सुलज श्रवे स्वखं
 तने; पिण एक सांजज्ञ खेद ॥ २ ॥ वनमेंथी स्वरथी खरी, लावुं नगर मजार ॥ ते मृ

ने हो राज चाख्या राजगृहि ज्ञर्णा जी, दयिता दाय लेई संग ॥ गु० ॥ गुज गुकने हो
 राज बहुल परिवारथी जी, मन धरता अति उठरंग ॥ सु० ॥ अ० ॥ दीन केते हो राज
 लक्ष्मीपुर आर्वाया जी, निहां गाय जितारि सुविद्योप ॥ गु० ॥ स्वाग त्यागे हो राज सब
 ल सवि नृपथकी जी, अरि नार्न गया परदेठा ॥ गु० ॥ नवि सुणजो हो राज प्रवल फल
 पुण्यनो जी ॥ ए आंकर्ण ॥ १० ॥ तस कांता हो राज गुणावर्त्ती गुणनीती जी, सती स
 कल मांदि शिरदार ॥ गु० ॥ पुत्रि रुयडी हो राज कला गुण येवडी जी, नाम गतिकजा
 तस मार ॥ गु० ॥ ज० ॥ ११ ॥ कला चोटाठ हो राज श्रंग आर्य वर्म जी, वर्त्ती नाम तिसो
 परिणाम ॥ गु० ॥ एक द्वियंस हो राज मज्ज श्र परिवर् जी, कांड पहेर्न उद्यान सुगम
 ॥ गु० ॥ ज० ॥ १२ ॥ स्नान कांधा हो राज पुष्करणीय निहां जी, देखे पुष्पादिक मनाहार
 ॥ गु० ॥ लेई वीणा हो राज गाये गुन स्वधर्क जी, याम रागमें विविध प्रकार ॥ गु० ॥
 ज० ॥ १३ ॥ स्वर लीना हो राज कुंग आव्या वही जी, वलि नाग प्रमुख बहु जीय ॥
 गु० ॥ स्वर रुडो हो राज श्रगुट ए निधि कहां जी, वज्र भाणंद कण संदव ॥ गु० ॥ ज०
 ॥ १४ ॥ यतः ॥ मालिर्नवृत्तम ॥ सुखिनियुख नयानो दुःखितानां विनादः, श्रवण हृद
 पहारी मन्मथस्याप्रदृतः ॥ अति चतर मगम्भो बहुजः कामिनीनां, जयति जगति

दंतें हें वली कट्ट नियोग के ॥ मनचंचित्त साकलां फले, वली रुढा हे दिन पूरा जोग के
 ॥ पु० ॥ २ ॥ राजा उमाय सेनापति, डोबादिक हो सति करे परसस के ॥ धन धन गीतक
 ला सती, पति पायो से उनाम भयतंग के ॥ पु० ॥ ३ ॥ हार लियो मृगी कंबुची, तर कन्या
 हे नरमात्र उदार के ॥ धनाने कंठे जेने, सहु जाले हे मुल जय जयकार के ॥ पु० ॥ ४ ॥
 सप्र येजा मायी कगी, परणानी हे नृपे कन्या तंद के ॥ दीधो बहुलो दायजो, वली दीधो
 हे अति सुंदर गद के ॥ पु० ॥ ५ ॥ नृप आयसे धनदाह जी, रंसे रंगे हे स्त्री प्रिये साथ के
 ॥ जिलंगे जोग जली पंग, नृप गुर हे तस बहुली आय के ॥ पु० ॥ ६ ॥ अथ नृप मंत्री सु
 गुमनी, पुत्री रुढी हे सरस्वति मन्त्रियान के ॥ विद्यागुणथी सरस्वती, कजा कोरिव हे
 वती हर निवान के ॥ पु० ॥ ७ ॥ बुद्धि परीक्षण कागण, गुंदापयो हे मंदलिका कंदे एक
 के ॥ एदनेो अर्थ कहे जिके, ते नरयो हे नर मननी टंके के ॥ पु० ॥ ८ ॥ प्रहेलिका यथा
 ॥ अनुपुत्रपूजम. ॥ गंगायं दीयते दानं, एक निजेन ज्ञानिना ॥ दातारो नरकं यांति,
 प्रतिप्राप्ती न जीवति ॥ १ ॥ ज्ञानार्थः—एक निजे अज्ञेने गंगानदी उपर दान अथाय
 जे, परंतु ते दान आपनारो मरीने नरकमां जाय ते अने दान लेनारो मरणा पामे
 जे! एतुं शु ददा? ॥ १ ॥ जग जण अर्थ करे मृद्या, नयि वसे हे कोई मर्थ विगुं व के ॥

प्रेम विण सुखि अन्वेषा, तस अर्पणो हे सिंगे श्लोक सुसुद्ध के ॥ पु० ॥ १७ ॥ श्लोक यथा ॥
 सीतामाही पक्षि वैष, कल्पे दातात्र धीवरः ॥ फले यद्भरत तत्र, स्तयोः तद्विदितं जिनैः
 ॥ १ ॥ जायापं. पद्मभूषण पांडला श्लोकना उररमां कल्पुंके, हे कन्या! इदं दान लेनार
 भाउला, आपया योग्य दान ते गल (पल) धन दान आपनांग पारधी जाएवो. तेमां दान
 तेनां धन आपनारने जे फल धाय ठे, ते फल जिनेश्वर जाएयुं ठे. अथानि दान धाय
 नांग पारधी नरकं जाय ठे अने दान जेनाग माउलां मगल पामं ठे ! ॥ २ ॥ श्लोक जि
 यो एक पत्रं, पाठय सिंगे हे गुस्तार्थिक पत्र के ॥ अथं विचारी एहनो, तुमे लिखजो
 हे नामिनी मुज सय के ॥ पु० ॥ १० ॥ न लगेनाग नागिंग, निवे मुंवे पुनहंगंत ॥ कांकत्यु
 के तंगेभवे, मान्दपुके पुनहंगंत ॥ ३ ॥ जावार्यः-नाग अने नारंगिमां जेगा न थाय, पण
 निरे अने तेवमां जेगा पाय ' तेमज वला काक बोले वने जेगा न थाय, परंतु मामा एम
 धोले वने जेगा थाय ! हे कन्या ! एवुं शुं दशे ? ॥ ३ ॥ न तस्यादी न तस्यांते, मध्येयथ
 एवस्थितः ॥ तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, यदि जानामि तवदः ॥ ४ ॥ जावार्यः-जे चीज
 षादिमां नथी रहेती, तेम अंतमां पण नथी रहेती; परंतु वचमांज ग्हेठे. यत्री ते ची
 ज तोर पण ठे अने मोरे पण ठे ! तो, हे कन्या ! तेनी चीज ? तेनुं जाएवो होय तो कहे !

॥ ४ ॥ कन्या यांची पत्रमें, निज मननो हे ते पामी अर्थ के ॥ पिण घनोक्त सुश्लोकना,
 ज्ञान न लहे हे उयम धयो व्यर्थ के ॥ पु० ॥ ११ ॥ तत्र वेसीने सुखासने, सखी साथे हे
 गडे धना गेह के ॥ लाज शकी कहे श्लोकना, नवि पामी हे हुं अर्थ ठे जेह के ॥ पु०
 ॥ १२ ॥ तत्र धनो कहे उठ ए, शब्द शान्ति हे अठे एह चिन्तार के ॥ अष्ट स्थानक ठे यणी
 ना, सोधी लेजो हे ह्ये अर्थ उदार के ॥ पु० ॥ १३ ॥ यतः ॥ अष्टो स्थानानि यर्णानि-सुरः
 कंठः शिरस्तथा ॥ जिह्वामूत्रं च वंताश्च, नासिकोष्ठी च तालु च ॥ १ ॥ ज्ञानार्थः-गती,
 कंठ, माथुं, जिह्वामूत्र, वांत, नासिका, होठ अने तालुनुं. ए आठ यणं एठने अक्षरोनां
 स्थानक ठे. अर्थात् ए आठ स्थानको चडे अक्षरोना उचार थाय ठे. ॥ १ ॥ बीजे पये नेत्र
 ठे, तत्र सरस्वती हे सुणी अर्थ मुजाण के ॥ एहना पयना अर्थने, नवि पामी हे तिणे
 नियति प्रमाण के ॥ पु० ॥ १४ ॥ तत्र मंत्री पुत्री प्रते, कहे ताहरी हे अई पूर्ण प्रतिज्ञ के ॥
 वर यरो ए मन होंदधी, बुद्धिंतो दे सुंदर अति सुद्ध के ॥ पु० ॥ १५ ॥ चित्त हरले ते सर
 स्वती, निज तातनुं हे करे यचन प्रमाण के ॥ शुभ दियसे मंत्री नवा, परशाधि हे ते अ
 वसर जाण के ॥ पु० ॥ १६ ॥ विजय विषे बहु ज्ञांतशी, सुख विलसे हे चारे स्त्री संग के ॥

धोज उट्टहासे शोजन्ती, दाल सत्तरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पुण ॥ १७ ॥

॥ दोहा ॥ राजा माने षतिपणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्याधिके, पूढे
यात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिबंत देखी बहुज, पूढे तव नव जेद ॥ धनोदाह उत्तर तुरत, आपे
परी उमेद ॥ २ ॥ चारे बुद्धिया चतुर, चेतन छेह सुख सार ॥ तिम चारे नारी श्रकी, सुख
विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ दाल १८ मी. ॥ (चारे वखाणी राणी चेतना जी. ए देशी.)

एहेवे ते लट्ठमीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडि वर्वीश सोवनतणो जी, अ
धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिबल मोटको जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मोटको नही
सपत्तेश ॥ सुख दिये जेह आपद पडे जी, यज्ञ करे देश परदेश ॥ देखो ॥ २ ॥ सुंदरी नामे
तस गहिनी जी, पुत्र सुज लक्षणा चार ॥ राम ने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चोथो सुख
कार ॥ देखो ॥ ३ ॥ मझूर रूपयी ठपती जी, शोजती लट्ठमी प्रतिरूप ॥ लट्ठमी नामा तस
ऊरे जी, पुत्री उपनिरव स्वरूप ॥ देखो ॥ ४ ॥ दान यात्रादि शुज स्थानके जी, धन व्यय
करे पत्रामल ॥ तप जप देखपूजा सदा जी, आचरे तेह अग्रह ॥ देखो ॥ ५ ॥ अंत नय
घायी तव उरग्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तव मापणो जी, तेव्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो० ॥६॥ सांजजो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शील एक भ्रमत्तणी जी, तुमे ठे अति चतुर सुजाण ॥ देखो० ॥७॥ वांघ्य कोइ कारण
 धकी जी, देय मत धारजो धीर ॥ वांघ्य सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सयीर
 ॥ देखो० ॥८॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंदिर वात ॥ सुलज पुत्रादि सचि
 पामया जी, सुलज ठे मातनो जात ॥ देखो० ॥९॥ यतः ॥ कहुच होए लोचिबो, पिण तस
 तादी गंह ॥ वंघव होए भवोलणां, तोहि पोतानी बांद ॥१॥ घनतणो ध्यान नचि धारि
 ये जी, घन सदा अजरय मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणयो जी, घनयकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो० ॥१०॥ सातखेत्रे घन वाख्यो जी, ते पयो भावणो सार ॥ शेप घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित्त मज्जार ॥ देखो० ॥११॥ पिण एह समय घनवर्तने जी, मान
 श्रोपे सहु लोक ॥ घनयकी लाज जगमें रहे जी, घन विण माणस फोक ॥ देखो० ॥१२॥
 घनयको घर्म सायन हुये जी, घनयकी दान देवाय ॥ घनयकी जीवरक्षा हुये जी, घन
 थकी सुजस सयाय ॥ देखो० ॥१३॥ निर्यन आदर नचि लहे जी, निर्यन शव सम देाय ॥
 घन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोय ॥ देखो० ॥१४॥ तेह ज्ञणी घन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ केशथी दुःख भहेगो घणो जी, इह परजव

घीजे उदहासे शोचती, ढाल सत्तरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु०॥ १७ ॥

॥ दोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री विण कार्यादिके, पूटे यात विचार ॥१॥ बुद्धिवंत देखी बहुल, पूटे नय नय जेद ॥ धनोशाह उत्तर तुरत, आपे धरी उमेद ॥२॥ चारे बुद्धिी चतुर, चेतन बहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी थकी, सुख बिलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे वखाणी राणी चेलणा जी. ए देशी.)

एहेवे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडिवत्रीश सेवनतणो जी, अ धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिबल मोटको जी ॥१॥ ए आंकणी ॥ ओटको नही लयबेस ॥ सुख दिपे जेह आपव पडे जी, यश करे देश परदेश ॥ देखो ॥२॥ सुंदरी नामे तस गहिनीजी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ रामने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चौथो सुख कार ॥ देखो ॥३॥ भद्रून रूपथी उपती जी, शोचती लक्ष्मी प्रतिकरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस कपरे जी, पुत्री उपनिपद स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि शुन स्थानके जी, धन व्यय करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह अक्ल ॥ देखो ॥५॥ अंत वय घायी तय कपण्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तय भापणो जी, तेझ्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो० ॥६॥ सांनजो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शील एक भमतणी जी, तुमे ठो अति चतुर सुजाण ॥ देखो० ॥७॥ बांधव कोइ कारण
 धकी जी, देप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सवीर
 ॥ देखो० ॥८॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंथिर द्रात ॥ सुलज पुत्रादि सचि
 पामबा जी, सुलज ठे मातनो जात ॥ देखो० ॥९॥ यतः ॥ कहुठ होए लोचिबो, पिण तस
 ताही गंह ॥ बांधव होए भवोलाणां, तोहि पोतानी बांद ॥१॥ धनतणो ध्यान नचि धारि
 ये जी, धन सदा अनरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणयो जी, धनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो० ॥२०॥ सातखेत्रे धन याबख्यो जी, ते थयो भापणो सार ॥ शेष धन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चिच मज्जार ॥ देखो० ॥२१॥ पिण एह समय धनवंतने जी, मान
 आपे सह लोक ॥ धनथकी लाज जगमें रहे जी, धन विण माणस फोक ॥ देखो० ॥२२॥
 धनथकी धर्म सायन हुये जी, धनथकी दान देवाय ॥ धनथकी जीवरक्षा हुये जी, धन
 थकी सुजस सवाय ॥ देखो० ॥२३॥ निर्धन श्रादर नचि लहे जी, निर्धन शय सम दोय ॥
 धन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देखो० ॥२४॥ तेह जणी धन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ क्लेशधी दुःख भहेगो घणो जी, इह परजय

घोजे उडहासे शोभती, ढाल सत्तरी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु० ॥ १७ ॥
 ॥ दोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूढे
 यात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिंत देखी बहुल, पूढे नय नय जेद ॥ धनोशाह उचर तुरत, आपे
 धरी उमेद ॥ २ ॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन लहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी शकी, सुख
 विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे वखाणी राणी चेलणा जी. ए देशी.)

एहेवे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडि वत्रीश सोवनतणो जी, अ
 धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोटको जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ मोटको नही
 लखेस ॥ सुख दिये जेह आपव पडे जी, यश करे देश परदेश ॥ देखो ॥ २ ॥ सुंदरी नामे
 तस गहिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ रामने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चोथो सुख
 कार ॥ देखो ॥ ३ ॥ अन्न रूपथी उपती जी, शोचती लक्ष्मी प्रतिरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस
 ऊपरे जी, पुत्री उपनियव स्वरूप ॥ देखो ॥ ४ ॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, धन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह अचल ॥ देखो ॥ ५ ॥ अंत यय
 थावी तप ऊपन्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तय भाषणो जी, तेव्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो ॥ ६ ॥ सांचनो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शीख एक भमतणी जी, तुमे ठो अति चतुर सुजाण ॥ देखो ॥ ७ ॥ बांधव कोइ कारण
 धकी जी, देय मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सचीर
 ॥ देखो ॥ ८ ॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंकिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सवि
 पामया जी, सुलज ठे मातनो जात ॥ देखो ॥ ९ ॥ यतः ॥ कहुठ होए लोविठो, पिण तस
 ताही गंह ॥ बंधव होए भवोलाणां, तोहि पोतानी बांद ॥ १० ॥ घनतणो ध्यान नवि धारि
 ये जी, घन सदा अरुण मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणयो जी, घनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो ॥ ११ ॥ सातखेये धन चाख्यो जी, ते थयो भापणो सार ॥ शेष घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित मजार ॥ देखो ॥ १२ ॥ पिण एह समय घनवंतने जी, मान
 थोपे सह लोक ॥ घनथकी लाज जगमें रहे जी, घन विष माणस फोक ॥ देखो ॥ १३ ॥
 घनथकी घर्म साचन हुये जी, घनथकी दान देवाय ॥ घनथकी जीवरक्षा हुये जी, घन
 थकी सुजस सवाय ॥ देखो ॥ १४ ॥ निर्यन श्रादर नवि लहे जी, निर्यन शव सम होय ॥
 घन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोय ॥ देखो ॥ १५ ॥ तेह जणी घन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ केश्यी दुःख भेडो घणो जी, इह परजय

घीजे उबहासे शोचती, ढाल सत्तरी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु० ॥ १७ ॥
 ॥ दोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूरे
 वात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिंत देखी बहुल, पूरे नय नय जेद ॥ धनोशाह उचर तुरत, आपे
 धरी उमेद ॥ २ ॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन लहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी शकी, सुख
 विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे क्खाणी राणी चेलणा जी. ए देशी.)

एहेथे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडिवत्रीश सेवनतणो जी, अ
 धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोटको जी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ ठोटको नही
 तस गंहिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ रामने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चौथो सुख
 कार ॥ देखो ॥ ३ ॥ अन्न रूपथी उपती जी, शोचती लक्ष्मी प्रतिरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस
 ऊपरे जी, पुत्री उपनियद स्वरूप ॥ देखो ॥ ४ ॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, धन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तप जप देयपूजा सदा जी, आचरे तेह अवल्ल ॥ देखो ॥ ५ ॥ अंत वय
 थायी तय ऊपन्यो जी, रोण ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तय भाषणों जी, तेव्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो० ॥६॥ सांजो पुत्र मुपुत्र वो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शीख एक भ्रमत्तणी जी, तुमे वो अति चतुर सुजाण ॥ देखो० ॥३॥ बांधव कोइ कारण
 पकी जी, देप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सचीर
 ॥ देखो० ॥७॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंदिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सवि
 यामबा जी, सुलज ठे मातने जात ॥ देखो० ॥१॥ यतः ॥ कहुँ ह्ये लंबिहो, पिण तस
 ताढी वंह ॥ बंधव होए भबोलणां, तोहि पोतानी बांद ॥१॥ घनतणो ध्यान नवि धारि
 ये जी, घन सदा अरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, घनयकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो० ॥१०॥ सातखेत्रे घन वायखो जी, ते थयो भापणो सार ॥ दोप घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित मज्जर ॥ देखो० ॥११॥ पिण एह समय घनवंतने जी, मान
 थोपे सद्द लोक ॥ घनयकी लाज जगमें रहे जी, घन विण माणस फोक ॥ देखो० ॥१२॥
 घनयकी धर्म साधन हुये जी, घनयकी दान देवाय ॥ घनयकी जीयरका हुये जी, घन
 यकी सुजस सबाय ॥ देखो० ॥१३॥ निर्यन आदर नवि लहे जी, निर्यन शव सम होय ॥
 घन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोय ॥ देखो० ॥१४॥ तेह जणी घन
 तुमे रागजो जी, पिण मत करजो क्रेदा ॥ क्रेदाथी दुःख अहेडो घणो जी, इह परनय

धीने उद्गारे शोचती, दाल सत्तरी हे वही जिन मन रंग के ॥ पु० ॥ १७ ॥
 ॥ शोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणु, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूजे
 यात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिवंत देखी बहुज, पूजे नव नव जेद ॥ धनोदाह उजर तुग्न, श्रापे
 परी उभेद ॥ २ ॥ चार बुद्धिी चतुर, चेतन वहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी बर्का, मुग्ध
 सिते धीमार ॥ ३ ॥

॥ दाल १० मी. ॥ (वीरे बखाली राणी चेतना जी. ए देशी)

एहे ते लट्ठीपूरे जी, पधामज नामे उदार ॥ कोडि बर्बाद सोवनतणो जी, अ
 धिरति वे शाहकार ॥ देखो देखो बुद्धिज मोटको जी ॥ १ ॥ ए श्रांकर्ण ॥ मोटको नही
 तग गहिनी जी, पुत्र गुन लक्षणा चार ॥ राम न काम गुणवाम ठे जी, श्याम चाथो सुख
 कार ॥ देखो ॥ १ ॥ पद्म रूपची उगती जी, शोचती लट्ठी प्रतिरूप ॥ लट्ठी नामा तस
 ऊरे जी, पुत्री उरतिरद स्वरूप ॥ देखो ॥ २ ॥ दान यात्रादि गुन स्यातके जी, धन व्यय
 शर पधामज ॥ तर जर देखूजा सदा जी, आचरे तेह श्रवण ॥ देखो ॥ ३ ॥ अंत यप
 प्राची तर उरग्यो जी, रोग ते विचित्र प्रकार ॥ मरण जाली तब भापणो जी, तेव्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देख्यो ॥ ६ ॥ सांजो पुत्र सुपुत्र जो जी, माहारा जीनप्राण ॥ मानजो
 दीग्य एक भमतणी जी, तुमं जो अति चतुर सुजाण ॥ देख्यो ॥ ७ ॥ बांग्य कोइ कारण
 थकी जी, देर मत धारजो धीर ॥ बांग्य सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सबीर
 ॥ देख्यो ॥ ८ ॥ कंचन कामिनी सुव्रज ठे जी, सुव्रज ठे मंदिरघात ॥ सुव्रज पुत्रादि सधि
 गामया जी, सुव्रज ठे मातनो जात ॥ देख्यो ॥ ९ ॥ यतः ॥ कदुच होए लींथिठो, पिण तस
 ताडी वांछ ॥ बंधय होए भवोलणां, तोहि पोतानी वांछ ॥ १० ॥ धनतणो ध्यान नवि धारि
 ने जी, धन सदा अनरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, धनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देख्यो ॥ ११ ॥ सातग्ये धन वाग्यवो जी, ते थयो प्रापणो सार ॥ दोष धन पाप कारण
 सदी जी, जाणजो धिन मज्जार ॥ देख्यो ॥ १२ ॥ पिण एह समय धनवंतने जी, मान
 थोपे सद्दु सोक ॥ धनथकी लाज जगमें रहे जी, धन दिया माणस फोक ॥ देख्यो ॥ १३ ॥
 धनथकी धर्म सापन हुने जी, धनथकी दान देवाय ॥ धनथकी जीयरदा हुने जी, धन
 थकी सुव्रत सवाय ॥ देख्यो ॥ १४ ॥ निर्यन थावर नवि लोहे जी, निर्यन शव सम दोष ॥
 धन पिण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देख्यो ॥ १५ ॥ तेह जणी धन
 तुमे राबजो जी, पिण मत करजो कृदा ॥ कृदाथी दुःख अहेवो घणो जी, इह परनय

घीजे उबहासे शोचती, ढाल सत्तरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु०॥ १७ ॥
 ॥ दोहा. ॥ राजा माने भतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूठे
 यात विचार ॥१॥ बुद्धिवंत देखी बहुल, पूठे नव नव जेद ॥ धनोशाह उत्तर तुरत, आपे
 परी उमेद ॥२॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन जेहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी श्रकी, सुख
 विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे कखाणी राणी चलणा जी. ए देशी.)

एहेवे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडि बन्नीश सेवनतणो जी, श्र
 धिपति ठे शाडुकार ॥ देखो देखो बुद्धिबल मोटको जी ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ ठोटको नही
 लवलेश ॥ सुख दिये जेह आपव पडे जी, यश करे देश परदेश ॥ देखो ॥२॥ सुंदरी नामे
 तस गहिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ राम ने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चौथो सुख
 कार ॥ देखो ॥३॥ मन्नू रूपयी उपती जी, शोचती लक्ष्मी प्रतिरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस
 कपरे जी, पुत्री उपनिषद स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, धन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह श्रयल ॥ देखो ॥५॥ अंत चय
 आवी तव ऊपन्यो जी, रोग ते विधिय प्रकार ॥ मरण जाणी तव भाषणो जी, तेज्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देव्यो ॥ ६ ॥ सांचल्लो पुत्र सुपुत्र वो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 शील एक भक्तानी जी, तुमे वो अति चतुर सुजाण ॥ देव्यो ॥ ७ ॥ बांधव कोइ कारण
 भकी जी, वेप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सचीर
 ॥ देव्यो ॥ ८ ॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंदिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सचि
 गामया जी, दुलज ठे मातनो जात ॥ देव्यो ॥ ९ ॥ यतः ॥ कहुठ होए लींविठो, पिण तस
 ताही गंध ॥ बंधव होए भयोद्वेषां, तोहि पोतानी बांद ॥ १० ॥ घनतणो ध्यान नचि धारि
 ये जी, घन सदा अन्तर्य मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणयो जी, घनशकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देव्यो ॥ ११ ॥ सातयेत्रे घन वायव्यो जी, ते थयो भापणो सार ॥ शेष घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चिन मज्जर ॥ देव्यो ॥ १२ ॥ पिण एह समय घनवतने जी, मान
 थोपे सदु शोक ॥ घनपकी लाज जगमें रहे जी, घन पिण माणस फोक ॥ देव्यो ॥ १३ ॥
 घनपकी धर्म साधन हुये जी, घनपकी दान देवाय ॥ घनपकी जीवनरक्षा हुये जी, घन
 शकी सुजस सवाप ॥ देव्यो ॥ १४ ॥ निर्यन थावर नचि लहे जी, निर्यन शव सम दौप ॥
 घन पिण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देव्यो ॥ १५ ॥ तेह जणी धन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ केशकी दुःख संदेशो घणो जी, इह परचय

पींचे वडहाते शोजती, बाल सतरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु०॥ १३ ॥

॥ दोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिय कार्यादिके, पूरे वात विचार ॥१॥ बुद्धिबंत देखी बहुज, पूरे नव नव जेद ॥ धनोदाह उत्तर तुरत, आपे पारी सुमेद ॥२॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन खहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी थकी, सुख वितते धीकार ॥ ३ ॥

॥ बाल १८ मी. ॥ (वीरे कखाणी राणी चेलणा जी, ए देशी.)

एहेय ते लट्ठमीपूरे जी, पत्रामज नामे उदार ॥ कोडिवत्रीदा सोवनतणो जी, थ धिरति ठे साहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोटको जी ॥१॥ ए आंकणी ॥ ठोटको नही लयतेसा ॥ सुख विये जेह आपद पडे जी, यश करे देदा परदेदा ॥ देखो ॥२॥ सुंदरी नामे तस गहिनी जी, पुत्र गुज लरुणा चार ॥ राम ने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चौथो सुख कार ॥ देखो ॥३॥ मन्नू रूपयी ठपती जी, शोजती लट्ठमी प्रतिरूप ॥ लट्ठमी नामा तस ऊपरे जी, पुत्री उपनिपस स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि गुज स्थानके जी, धन व्यय करे पत्रामल्ल ॥ तप जर देवपूजा सदा जी, याचरे तेह अयल्ल ॥ देखो ॥५॥ अंत तप प्राची तप ऊपग्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाली तव पायणो जी, तेजा

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो ॥६॥ सांजनो पुत्र सुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 दीख एक भमतणी जी, तुमे ठो अति चतुर सुजाण ॥ देखो ॥७॥ बांधव कोइ कारण
 थकी जी, देप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सधीर
 ॥ देखो ॥८॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंथिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सवि
 यामया जी, डलज ठे मातनो जात ॥ देखो ॥९॥ यतः ॥ कहुत होए लंबिबो, पिण तस
 ताढी गंह ॥ बांधव होए भवोलणां, नोहि पोतानी बांद् ॥१॥ घनतणो ध्यान नवि धारि
 ये जी, घन सदा अनरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, घनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो ॥१०॥ सातखेत्रे घन वायव्यो जी, ते थयो भापणो सार ॥ शेष घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चिज मजार ॥ देखो ॥११॥ पिण एह समय घनवंतने जी, मान
 आपे सहु लोक ॥ घनथकी लाज जगमें रहे जी, घन विया माणस फोक ॥ देखो ॥१२॥
 घनथकी धर्म साधन हुये जी, घनथकी वान देवाय ॥ घनथकी जीयरका हुये जी, घन
 थकी सुजस सयाय ॥ देखो ॥१३॥ निर्धन आदर नवि लेहे जी, निर्धन शत्रु सम होय ॥
 घन विया कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोयं ॥ देखो ॥१४॥ तेह जणी घन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ केशथी दुःख भहेसो घणो जी, इह परजय

घोड़े उडहासे शोभती, दाल सत्तरी ही कही जिन मन रंग के ॥ पुष्पा १३ ॥

॥ दोहा. ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूछे
यात विचार ॥१॥ बुद्धिंत देखी बहुल, पूछे नव नव जेद ॥ धनोदाह उत्तर तुरत, आपे
परा उमैद ॥२॥ चार बुद्धियां चतुर, चेतन खंह सुख सार ॥ तिम चारे नारी शर्की, सुख
खिलते श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ दाल १० मी. ॥ (वीरे बखानी राणी चेलणा जी. ए देसी.)

एहंय ते लट्ठमीपूर जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडि बत्रीश सेवनतणो जी, अ
धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोंटको जी ॥१॥ ए आंकणी ॥ ओटको नही
तस गहिनी जी, पुत्र दिये जेह आपद पेड जी, यदा करे देदा परदेदा ॥ देखो ॥२॥ मुंदरी नामे
कार ॥ देखो ॥३॥ पन्नू रूपरथी उपती जी, सोजती लट्ठमी प्रतिरूप ॥ लट्ठमी नामा तस
ऊरे जी, पुत्री उपतिरद स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि गुन स्थानके जी, यन व्यय
करे पत्रामल ॥ तय जप देखपूजा सदा जी, आचर तेह अग्रद्व ॥ देखो ॥५॥ अंत यय
मायी तय छरग्यो जी, रोग ते बिलिध प्रकार ॥ मरण जाणी तय मापणो जी, तेजा

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो ॥६॥ सांचजो पुत्र सुपुत्र वो जी, माहरा जायनप्राण ॥ भाग्य
 शील एक भ्रमतणी जी, तुमे वो अति चतुर सुजाण ॥ देखो ॥७॥ बांधव कोइ कारण
 पकी जी, वेप मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सथीर
 ॥ देखो ॥८॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंदिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सवि
 पामया जी, सुलज ठे मातनो जात ॥ देखो ॥९॥ यतः ॥ कहुच होए लोविढो, पिण तस
 ताढी गंह ॥ बांधव होए भवोलणां, तोहि पोतानी बांद ॥१॥ घनतणो ध्यान नचि धारि
 ये जी, धन सदा अनरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, धनयकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो ॥१०॥ सातखेत्रे धन नायखो जी, ते पयो आपणो सार ॥ शेप धन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चिन मजार ॥ देखो ॥११॥ पिण एह समय धनवतने जी, मान
 अपे सहु लोक ॥ धनयकी लाज जगमें रहे जी, धन धिया माणस फोक ॥ देखो ॥१२॥
 धनयकी धर्म साधन हुये जी, धनयकी दान देवाय ॥ धनयकी जीवरक्षा हुये जी, धन
 यकी सुजस सयाय ॥ देखो ॥१३॥ निर्धन आवर नचि लहे जी, निर्धन शव सम दाय ॥
 धन धिया कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोय ॥ देखो ॥१४॥ तेह जणी धन
 तुमे रागजो जी, पिण मत करजो क्रेश ॥ क्रेशथी दुःख सहेसो घणो जी, इह परजय

त्रीजे उदहासे शोचती, ढाल सत्तरमी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु०॥ १७ ॥
 ॥ दोहा ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूढे
 वात विचार ॥१॥ बुद्धिंत देखी बहुल, पूढे नय नय भेद ॥ धनोशाह उत्तर तुरत, आपे
 धरी उमेद ॥२॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन लहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी श्रकी, सुख
 विलसे श्रीकार ॥ ३ ॥

॥ ढाल १८ मी. ॥ (वीरे वखाणी राणी चेलणा जी. ए देशी.)

एहवे ते लक्ष्मीपुरे जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडिवत्रीश सोवनतणो जी, श्र
 धिपति ठे शाहुकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोटको जी ॥१॥ ए आंकणी ॥ ओटको नही
 लववेश ॥ सुख दिये जेह आपद पडे जी, यश करे देश परदेश ॥ देखो ॥२॥ सुंदरी नामे
 तस गहिनी जी, पुत्र शुभ लक्षणा चार ॥ रामने काम गुणधाम ठे जी, श्याम चोथो सुख
 कार ॥ देखो ॥३॥ अन्न रूपथी उपती जी, शोचती लक्ष्मी प्रतिकरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस
 ऊपरे जी, पुत्री उपनियद स्वरूप ॥ देखो ॥४॥ दान यात्रादि शुभ स्थानके जी, धन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तप जप देवपूजा सदा जी, आचरे तेह श्रवल्ल ॥ देखो ॥५॥ श्रंत यय
 आथी तय ऊपन्यो जी, रोग ते विविध प्रकार ॥ मरण जाणी तय आपणों जी, तेज्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देखो ॥६॥ सांनजो पुत्र सुपुत्र जो जी, माहरा जायनप्राण ॥ भागजा
 दीख एक भमतणी जी, तुमे जो श्रति चतुर सुजाण ॥ देखो ॥७॥ बांधव कोइ कारण
 पकी जी, वेद मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सथीर
 ॥ देखो ॥८॥ कंचन कामिनी सुलज ठे जी, सुलज ठे मंथिर घात ॥ सुलज पुत्रादि सधि
 पामवा जी, हुलज ठे मातनो जात ॥ देखो ॥९॥ यतः ॥ कहुत्र होए लंबिठो, पिण तस
 ताढी गंह ॥ बांधव होए भवोलणां, तोहि पोतानी बांद ॥१॥ घनतणो ध्यान नदि धारि
 ये जी, घन सदा अतरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, घनथकी सयण प्रतिकूल
 ॥ देखो ॥१०॥ सातखेत्रे घन नाख्यो जी, ते पयो भापणो सार ॥ शेष घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चित्त मज्जार ॥ देखो ॥११॥ पिण एह समय घनयंतने जी, मान
 श्रपे सहु लोक ॥ घनथकी लाज जगमें रहे जी, घन विषा माणस फोक ॥ देखो ॥१२॥
 घनथकी धर्म साधन हुये जी, घनथकी दान देवाय ॥ घनथकी जीवरक्षा हुये जी, घन
 थकी सुजस सबाय ॥ देखो ॥१३॥ निर्धन आवर नदि लहे जी, निर्धन शव सम दोष ॥
 घन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न घरे तस कोयं ॥ देखो ॥१४॥ तेह जणी घन
 तुमे राखजो जी, पिण मत करजो केश ॥ केशघ्नी दुःख सहेठो घणो जी, इह परजय

घोजे उडहासे शोभती, दाल सत्तरी हे कही जिन मन रंग के ॥ पु० ॥ १७ ॥
 ॥ दोहा ॥ राजा माने प्रतिघणुं, देखी बुद्धि प्रकार ॥ मंत्री पिण कार्यादिके, पूजे
 पात विचार ॥ १ ॥ बुद्धिवंत देखी बहुल, पूठे नय नव जेद ॥ धत्रोदाहा उतर तुरत, श्रापे
 धारी उमेद ॥ २ ॥ चारे बुद्धि चतुर, चेतन वंहे सुख सार ॥ तिम चारे नारी शकी, सुख
 बिलसे धीकार ॥ ३ ॥

॥ बाल १७ मी. ॥ (वारे वखाणी राणी चेतना जी. ए देसी.)

एहेवं ते लक्ष्मीपुर जी, पत्रामल नामे उदार ॥ कोडि चर्चरीश सोवनतणो जी, श्र
 धिपति ठे शाहकार ॥ देखो देखो बुद्धिल मोटको जी ॥ १ ॥ ए श्रांक्षणी ॥ ओटको नही
 तस गहिनी जी, पुत्र शुन लक्षणा चार ॥ राम न काम गुणयाम ठे जी, श्याम चाथो सुख
 कार ॥ देखो ॥ ३ ॥ पद्म रूषधी उपती जी, शोभती लक्ष्मी प्रतिकरूप ॥ लक्ष्मी नामा तस
 ऊपर जी, पुत्री उपनिपद स्वरूप ॥ देखो ॥ ४ ॥ दान यात्रादि शुन स्यानके जी, धन व्यय
 करे पत्रामल ॥ तय जय देवपूजा सदा जी, याचरे तेह श्रयल ॥ देखो ॥ ५ ॥ श्रंत यय
 घायी तर ऊपर्यो जी, रोग ते विक्षि प्रकार ॥ मरण जाणी तय भाषणो जी, तेव्या

तिहां पुत्र ते चार ॥ देख्यो ॥ ६ ॥ सांनजो पुत्र मुपुत्र ठो जी, माहरा जीवनप्राण ॥ मानजो
 दीस एक भमतानी जी, तुमे जो थति चतुर सुजाण ॥ देख्यो ॥ ७ ॥ बांधव कोइ कारण
 धकी जी, देय मत धारजो धीर ॥ बांधव सम कोइ ठे नही जी, प्रेमनो पात्र सवीर
 ॥ देख्यो ॥ ८ ॥ कंचन कामिनी सुवन्न ठे जी, सुवन्न ठे मंथिर घात ॥ सुवन्न पुत्रावि सवि
 पामया जी, छुन्न ठे मातनो जात ॥ देख्यो ॥ ९ ॥ यतः ॥ कहुच होए लंबिबो, पिण तस
 ताही गंध ॥ बंधव होए भवोलणां, तोहि पोतानी बांद ॥ १० ॥ घनतणो ध्यान नवि धारि
 ये जी, घन सदा अनरथ मूल ॥ भंगनो मेल ए जाणवो जी, घनथकी सपण प्रतिकूल
 ॥ देख्यो ॥ ११ ॥ सातव्येत्त्रे घन वाखवो जी, ते थयो भापणो सार ॥ शेय घन पाप कारण
 सही जी, जाणजो चिन मजार ॥ देख्यो ॥ १२ ॥ पिल एह समय धनवंतने जी, मान
 थोपे सद्दु लोक ॥ घनथकी लाज जगमें रहे जी, घन विण माणस फोक ॥ देख्यो ॥ १३ ॥
 घनथकी धर्म साधन हुये जी, घनथकी वान देयाय ॥ घनथकी जीवरक्षा हुये जी, घन
 थकी सुजस सवाय ॥ देख्यो ॥ १४ ॥ निर्धन आवर नवि लेहे जी, निर्धन शव सम दाय ॥
 घन विण कोय धीरे नही जी, प्रत्यय न धरे तस कोय ॥ देख्यो ॥ १५ ॥ तेह जणी घन
 तुमे राखजो जी, पिल मत करजो केश ॥ केशथी दुःख सहेजो घणो जी, इह परचर

गृह्या, देव न परदो तत्र ॥१॥ तुम घारे नाम करी, कल्लद घार यम हू ॥
 भाव्या भंत्र, भं समकाले नृणे ॥३॥ ते क्षेत्रो तुमे चक्रवी, घनथी सखिवा चार ॥ खानो
 पीजो बरनजो, बलि करजा व्यापार ॥४॥ दीग्य वैई इम पुत्रने, पचये चारे ब्राह्मर ॥
 चार दारण शुन ज्ञानथी, घारे निन मजार ॥ ५ ॥ चोरादील्लग जोनिने, लमे खमविये
 व्याप ॥ अणसण माराधन करी, वडि पापनो व्याप ॥६॥ नवपद ध्यान मंजारते, पशेत्यो
 ते परलोक ॥ प्रेतकार्य करी अनुक्रमे, पुत्रे गंद्यो दोक ॥७॥

॥ बाल १७ मी. ॥ (केसर बरणो हो, काढ करुवो मधारा लाल. ए देवी)

तेहने ब्राता हो सुगुण विख्याता मारा लाल, उचम ब्राता हो कुलना ब्राता मारा
 लाल ॥ अनुक्रमे तेहने हो संतति याने मा०, बहुलपणापी हो कल्लह जगाने मा० ॥१॥
 तय ते थिते हो तातनी बाली मा०, कल्लहथी दुःखिया हो धाये प्राणी मा० ॥ते ज्ञणी
 जोजन हो जूत्र्यां कीजे मा०, निज नामांकित हो कल्लश प्रहीजे मा० ॥२॥ चिचमें चि
 त हो ते समकाले मा०, नृमिथी काढी हो कुंज निदाले मा० ॥ प्रथम कल्लशमें हो ले
 लण लडियो मा०, बलि बलि मोटो हो कागल बडियो मा० ॥३॥ वीजे कल्लदो हो द्यवने
 माटी मा०, ते पिण केवनी हो ग्या जेराटी मा० ॥ वीजे कल्लदो हो षाढ ते वीसे मा०

त्रांजे उद्वहोवो० ॥१५॥ यतः ॥ धनुदुवृत्तम ॥ प्रतापो गौरधं पूजा, श्रीयशःसुखसंपदा ॥
 ॥ दोहानि, यावन्नोपयंतं कवि ॥ ७ ॥ तावार्थः—प्रताप, महोटाड, पूजा, लक्ष्मी,
 यान विचार, सुखसंपदाः ए सर्वं ज्या मूर्धा बुद्धेन विर्यं ह्येन न उन्पन्न धाय, तं भवति ये,
 परं उमेद सं ह्येन कर्मतं धं. जी. नात्र मर्यादं सवि जाय ॥ तन्मुता लहिंयं निज नाति
 बिलसं श्रुतित कांयं नयि श्राय ॥ दग्धो० ॥१६॥ बाधव ह्येन वहु दुःख दीयं जी, नरत
 .। जेम ॥ संविाक ह्येन विहृत्तं जी न गणयां एण बांधव प्रेम ॥ दग्धो० ॥१७॥
 ॥ सोम्य ॥ फता जी भुव कर यथा मयि ताम ॥ ते नर्णा बांधवसे तुम जी, माधु जो
 भित्त मप्रम ॥ दग्धो० ॥१८॥ ॥ ॥ ॥ स्नहया तुम प्रेत जी, को न गंजे डणं ताम ॥ कंटक
 यान वरयती जी तुनु अगती इण गाम ॥ दग्धो० ॥१९॥ निर्येन बांधवं परिग्रहो जी,
 एण वयत मरु ॥ तनुयागे पट नापन्या जी, वन मंमं अधिक तर्पव ॥ दग्धो० ॥२०॥
 दाग अमर्चा अत्र ए धर्णा जी, कलह मत कर जी तुमं पूत्र ॥ दान अदारमं (नेन कहा
 जी, गान्तो अम परमूत्र ॥ दग्धो० ॥२१॥

॥ दाहा. ॥ नेवा रहे जी नावसे, चार तुमं मुपात्र ॥ प्राति नला पर पालनो,
 धन्यांन्यं मुनि गात्र ॥२२॥ धनुकमं पात्राविक वध, न रहेवापे एकत्र ॥ तो तुमं था जो

जूझ्या, देय न धरयो तत्र ॥१॥ तुम चारे नामे करी, कलश चार घन पूछं ॥ चारे विदि
 थाप्या घटे, में समकाले तूर्ण ॥३॥ ते लेजो तुमं चयली, घनथी सरिखा चार ॥ खाजो
 पीजो खरचजो, बलि करजो व्यापार ॥५॥ शीख वेई इम पुत्रने, पचखे चारे आहार ॥
 चार क्षरण शुज जाचधी, घारे चिन मजार ॥ ५ ॥ चोरादील्लिख जोनिने, खमे खमवे
 व्याप ॥ अणसण प्राराधन करी, ठाडे षापनो व्याप ॥६॥ नवपद ध्यान संनारते, पवोत्पयो
 ते परलोक ॥ प्रेतकार्य करी अनुक्रमे, पुत्रे वांढ्यो शोक ॥७॥

॥ ढाल १ ए मी. ॥ (केसर बरणो हो, काढ कसुवो महारा लाल. ए देवी)

तेववे व्राता हो सुगुण विख्याता मारा लाल, उत्तम वाता हो कुलना आता मारा
 लाल ॥ अनुक्रमे तेहने हो संतति थारि मा०, बहुलपणापी हो कलश जगाव मा० ॥१॥
 तय ते चिते हो तातनी वाणी मा०, कलशथी दुःखिया हो पापे प्राणी मा० ॥ ते जणी
 नोजन हो जूज्यां कीजे मा०, निज नामांकित हो कलश प्रहीजे मा० ॥२॥ चिचमें चि
 ते हो ते समकाले मा०, भूमिधी काढी हो कुंज निदाले मा० ॥ प्रथम कलशमें हो ले
 ण लडियो मा०, बलि बलि मोटो हो कागल बडियो मा० ॥ ३ ॥ चिजे कलशे हो हाड ते शीसे मा०

त्रोजे उद्धरणेयो ॥१५॥ यतः ॥ अतुष्टुवृत्तम् ॥ प्रतापो गौर्गंधं पूजा, श्रीयशःसुखसंपद ॥
 ॥ दोहनि, यावन्नोपद्यते कनि ॥ ७ ॥ नावार्थः-प्रताप, महोटाड, पूजा, लक्ष्मी,
 यात विचार, स्वसंपदा; ए सर्वं ज्या मूर्धा कुर्वेने विंशं लेश न तुत्पन्न थाय, न संभरी वंधे,
 धर। उमेड सं केश करत धकं जी, नाज मर्याद सवि जाय ॥ लघुता लहिये निज नाति
 विलसं श्रुतित कार्ये नोय धाय ॥ दग्यो ॥ १६ ॥ बाधव लेश बहु दुःख दीये जी, नग्न
 । जेम ॥ राणिं ह त्र रिह त्तुं जी, न गणयो एणं वांयव प्रेम ॥ दग्यो ॥ १७ ॥
 । कोय मरुता जी मय कय यथा मरि नाम ॥ ते नर्णी वांयव तुंम जी, गख्य जो
 भिह मप्रस ॥ दग्यो ॥ १८ ॥ मय स्नहश्चो तुम प्रते जी, को न गंजे इणं गाम ॥ कंटक
 याः न करयही जी, मुनु अग जी हण गाम ॥ दग्यो ॥ १९ ॥ निर्यन वांधये पस्विग्यो जी,
 एव म्यत मड ॥ तनुयांगे पट नापन्यो जी, बल म्यंमं अशधिक तथैव ॥ दग्यो ॥ २० ॥
 म। म अमर्णा श्रु ए धर्णी जी, कयह मत कर जो तुंम पूत्र ॥ टाल अदाग्मी जिन कहा
 जी, गग जो अम परमृत्र ॥ दग्यो ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥ जना रहे जो नावडुं, चार तुंम सुपात्र ॥ प्रीति जला पर पाल जो,
 अन्पान्ये शुचि मात्र ॥ २ ॥ अनुक्रमे पौत्राविक वधे, न रहेवाये एकत्र ॥ तो तुंम धा जो

जून्झा, देव न धरदो तत्र ॥२॥ तुम वारे नामं करी, कलश चार घन पूण ॥ चार । वादा
 धाव्या भेट, में समकाले पूर्ण ॥३॥ ते लेमो तुमं उल्लखी, घनथी सरिखा चार ॥ खाजो
 पीजो वरनजो, वलि करजा व्यापार ॥४॥ शील वेई इम पुत्रने, पचये चारे थाहार ॥
 चार दारण दुज जावथी, घारे चिन मजार ॥ ५ ॥ चोरादीजिख जोनिने, खंमं खमाने
 व्याप ॥ अणसण भाराथन करी, वढि पापनो व्याप ॥६॥ नवपद ध्यान संतारंत, पहेत्वो
 ते परलोक ॥ प्रेतकार्य करी अनुक्रमे, पुंत्र वांढवो शोक ॥७॥

॥ दाल १७ मी. ॥ (केसर वरयो हो, काढ कसुवो महारा लाल. ग. देवी)

तेहये व्राता हो सुगुण विख्याता मारा लाल, उत्तम वाता हो कुलना व्राता मारा
 लाल ॥ अनुक्रमे तेहने हो संतति याये मा०, बहुलपशापी हो कलह जगंये मा० ॥१॥
 तत्र ते धिते हो तातनी यणी मा०, कलहथी दुःखिया हो पाये प्राणी मा० ॥ ते जणी
 नोजन हो जून्झां कीजे मा०, निज नामांकित हो कलदा महीजे मा० ॥२॥ चित्तंमं चि
 त हो ते समकाले मा०, चूमिथी काठी हो कुंज निदाले मा० ॥ प्रथम कलशंमं हो ले
 गण खडियो मा०, वलि वलि मोटो हो कागल वडियो मा० ॥ ३ ॥ वीजे कलदो हो हयवने
 माठी मा०, ते पिण वेगी हो रखा जेराठी मा० ॥ ३ ॥ वीजे कलदो हो हाठ ते शीसे मा०

स्वामी एहने हो इहां कणे तेहो मा०, तुम देवतां हो करीश निवेडो मा०॥२॥ गुणा॥
 नृप हरख्यो हो तेह बोलाया मा०, बंधय चारे हो ततक्षण प्राया मा०॥ कहे तय यत्रो
 हो तुमने जाणी मा०, ताते वीधी हो सदश कमाणी मा०॥३॥ जेहने वीधो हो नामे
 पोत्रो मा०, देवे लेवे हो सङ्घी दोहो मा०॥ तेहने वीधो हो देखणो लेखो मा०, वांची न
 द्विमं हो हृदयमें देखो मा०॥४॥ व्यापारीने हो मनमें जाणो मा०, गृह द्वैत्रादिक हो
 नृमि कमाणी मा०॥ धान्य प्रमुख पिण दो तेहने वीधो मा०, मृत्पायाणो हो निश्चय की
 या मा० ॥१५॥ पशु व्यापारी हो जाणयो जेहने मा०, गज अश्वदिक हो वीधातेहने मा०॥
 वली गो गोकुञ्ज हो ते पिण कहिये मा०, अस्थी देव्यी हो ते सदद्वियं मा०॥६॥ लघु सु
 त जाणी हो तात प्रमाणी मा०, मन हित प्राणी हो सकन कमाणी मा० ॥ मंद अ
 न्यासी हो ए न कमासी मा०, ते जली वीधो हो घन सुखिलासी मा० ॥१३॥ एकेका
 न हो घन सुविशेषे मा०, अह अह माने हो कोडि ते लेखे मा० ॥ जोशो लेखो हो क
 स्ति जेहमें, उवो अदिको हो कांइन एहमें मा०॥७॥ तय ते वेग हो करया लेखो मा०,
 दुफतर काढी हो सधलो पेरयो मा०॥ व्याजने मेले हो घन सरयालो मा०, भाठ काढी
 नो हो श्रयो हयालो मा०॥१६॥ घर आपणने हो क्षेत्रने वाडी मा०, धान्यना कोग हो

अश्राधिक्यां हो देखी खीसि मा० ॥४॥ लघु बंधवने हो कलश सोहाये मा०, आठ सो
 नानी दा कोडी कमाये मा० ॥ ते तो राजी हो पयो निज मनमें मा०, ताते दीगे हो गु
 ण मुज तनमें मा० ॥५॥ ताम ते त्रिणये हो घनने देखी मा०, बोले बडबड हो लाज
 उवेखी मा०॥ कलश परंतां हो तात वरांसां मा०, कुटिलपणाथी हो कीधो हांसां मा०॥६॥
 ए पन सयसां हो फिरी वहेचीज मा०॥ एहनी वाते हो विलंब न कीजे मा०॥ तातनो
 भेदो हो सहन सरियो मा०, पुत्रमें अधिक हो कोय न परख्यो मा०॥७॥ तय लघु बो
 ले हो ताते मुजने मा०, ए निधि आपी हो गुं ठे तुजने मा०॥ तुमचे जागे हो लेखण
 पाटी मा०, वलि अस्थयादिक हो उपलने माटी मा० ॥८॥ कलह ते जाग्यो हो धनत्री
 परमें मा०, यात ते चाली हो बथती पुरमें मा० ॥ नाति जातिथी हो समजण नाचे
 मा०, तय ते यदता हो नृपें जांचे मा०॥९॥ नृपति सुगोने हो चिन विचारे मा०, ता
 त तनुजने हो विम इम धार मा०॥ मंत्रिने तेडी हो ममजत कीधी मा०, पिण ते यार्ता
 हो फांड न सीधी मा०॥१०॥ तेहये धनरति हो मुजरे आवे मा०, आदर देखे हो नृप
 ति धोलांचे मा०॥ दागे सयसी हो यात ते यीती मा०, न्याय करंतां हो भम मति ठीती
 मा० ॥११॥ तय केहे पयो हो चिन विचारी मा०, तात न एहनो हो दुगे अधिकारी मा०॥

स्वामी एहने हो इहाँ क्यो तेडो मा०, तुम देगतां हो करीश निवेडो मा०॥३॥ मुणा॥
 न्यु हरख्यो हो तेह चोत्राया मा०, वंध्य चारे हो ततक्षण प्राया मा०॥ कहे तय घत्रो
 हो तुमने गाली मा०, ताते वीची हो सददा कमाणी मा०॥३॥ जेहने वीगे हो नामे
 पोत्रो मा०, देवे लेने हो सदुयी वोडो मा०॥ तेहने वीघो हो लेहणो झेग्यो मा०, वांची न
 दिमं हो हृदयमं देखो मा०॥४॥ व्यापारीने हो मनमें जाणो मा०, गृह देत्रादिक हो
 नृमि कमाणी मा०॥ धान्य प्रमुख पिण हो तेहने वीघो मा०, मृत्पायणे हो निश्रय की
 धा मा० ॥१॥ पशु व्यापारी हो जाण्यो जेहने मा०, गज श्रश्चादिक हो वीघातेहने मा०॥
 कत्री गो गोकुल होते पिण कहिये मा०, शस्त्री बंली होतं सदहिये मा०॥६॥ लघु सु
 त जाणी हो तात प्रमाणी मा०, मन हित श्राणी हो सकन कमाणी मा० ॥ मंद प्र
 न्यासी हो ए न कमासी मा०, ते जणी वीघो हो घन सुखिलासी मा० ॥१३॥ एकेका
 न हो घन सुविशेषे मा०, थड थड माने हो कोडि ते लेखे मा० ॥ जेसो लेखो हो क
 र्ति जेहमें, चत्रो अधिको हो कांडन एहमें मा०॥७॥ तय ते वेग हो करया लेखो मा०,
 इतर कात्री हो सयत्रो रेख्यो मा०॥ व्याजने मेले हो घन सरयालो मा०, भाग कोडी
 नो हो श्रयो हयालो मा०॥८॥ घर आपणने हो क्षेत्रने वाडी मा०, धान्यना कोग हो

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३० ॥

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥

॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥

नितं वंभ ॥१॥ त्वाये नपीत्रे नवि.वेये, लेखणानी कर यात ॥ सुवमाहा ॥१॥ मीठे यचने
निशि करे पर तात ॥ २ ॥ एहेथे एक कोर याचक, याचया श्राव्यो तास ॥ मीठे यचने ॥
बोलाचिने, येसाखो लेर पास ॥ ३ ॥ कहे याचक सुणो शेगजी, कीजे नवान विलंब ॥
भापुतणी गति अथिर ठे, तेह जणी अचिंब ॥४॥ तय बोव्यो याचक प्रते, वेशुं प्रचते
वान ॥ जोजन व्यंजन जायतां, तांचूलादि प्रधान ॥५॥ उळी गयो तय याचक, भाव्यो
प्रजाते मेह ॥ कथित गूढार्थ गाहा तस, गुण वर्णन करे तेह ॥६॥ कंदे तय सुंब शिरोम
ली, तूं थाये परजात ॥ वेशुं जोजन जायतां, तांचूज युत विख्याता ॥७॥ तिम त्रीजे दिन
भायिने, बोले याचक एम ॥ शूं रे कृपण नथी आपतो, जोजन व्यंजन तेम ॥ ८ ॥ ज
गमें यश रंदेशे पिण, नहि रहे तन धन मान ॥ रावण सरखा राजवी, ते पिण चाव्या
निदान ॥ ९ ॥ नंदराय धन मेलिने, जेव्यो समुद्र मजार ॥ मम्मणशेवने सागर, पद्दो
त्या नरकागर ॥ १० ॥ दीधुं रहे अविचल अर, खातुं खूटी जाय ॥ सापुरिसानुं जीवित,
दानथी सफल गणाय ॥ ११ ॥ देतां देतां पात्रने, धननी धाये वृद्धि ॥ मूलवेव परे तत्तक
ले, पांमे सकल समृद्धि ॥ १२ ॥ यतः ॥ शार्ङ्गलिक्रीडितकृत्तम् ॥ श्री नात्रेयजिनेश्वरो घ
नत्रेये श्रेयःश्रियामाश्रयः, श्रेयांसश्च स मूलनेयनृपतिः सा चंदनानंदना ॥ वन्योत्तीकृत

यहैतने गाडी मा० ॥ लेखो तेहनो हो कीधो जाणी मा०, भठ कोडी धननी हो चहिये
 लिखाणी मा० ॥२०॥ एक शत हाथी हो भयुत ठे घोडा मा०, एक शत गोकुल हो स
 धन राजोडा मा०॥ उद्युदिक तिमज हो मंज तेकीधो मा०, अड कोडी धन हो ते थयो
 सोपो मा०॥२१॥ हरख्या तव चारे हो बांधव मनमें मा०, नूख्यो भोजन हो जिम लहे
 वनमें मा०॥ नृपने प्रणमी हो मंदिर जावे मा०, घनाना गुण हो मनमें ध्यावे मा० ॥
 ॥२२॥ गुणता रागी हो सहु को जगमें मा०, रुडा गुणने हो प्रदिये वगमें मा० ॥ त्रीजे
 उडहासं हो राज रसीसी मा०, ए श्रोगणीशमी हो जिनने रंगीली मा० ॥२३॥

॥ बोहा. ॥ चारे बांधव चित्ते, एहनो गुण अतमान ॥ ऊरण थइए क्लिषिये,
 एहुठे जाग्य निधान ॥१॥ लक्ष्मी सम लक्ष्मी श्रवे, वहिन थापणे एक ॥ दीजे एहने
 दिल धरी, ए आपणो विवेक ॥२॥ चिंतीने धनशाहने, शुभ वेला शुभ योग ॥ परणवे
 जगिनी प्रते, जाणी सदश संयोग ॥ ३ ॥ तेहशुं विविच संसार सुख, भोगेये धरि चहुं प्रे
 म ॥ पांचेयी खीतो रहे, पंच सुमति मुनि जेम ॥ ४ ॥

॥ दाल २० मी. ॥ (प्रणमुं गिरजानंदना. ए देवी.)

एहये ते लक्ष्मीपुरे, कृत्तिक तजो ठे शेव ॥ धनशानानिध नासधी ज्ञानी ॥

रूप ॥ पेटे पाठा किम वक्ष्या, तुरत तुमे धरि चूप ॥२१॥ तव कहे सुकन थया अति,
 मुज मध्यम जिणि वार ॥ तिले तिर्थाधी पावो वक्ष्यो, विचमं मिढ्या आणगार ॥२२॥
 देशना वेता देखिने, दुंवेवो मुनि पास ॥ अमृत वाणी अति जली, सांजली थयो उब्झा
 स ॥ २३ ॥ आयु अश्विर भंजली जल, ऊयम एहने थाय ॥ धन पिण नदीय प्रवाह ठे,
 कोपधी राख्यो न जाय ॥२४॥ योवन संध्या रंग ठे, सुपन सदश संयोग ॥ रमणी रंग
 पतंग ते, विप सम विपय संज्ञेग ॥ २५ ॥ रोगे करिने पूरित, काया भशुनि जंभार ॥
 तेहमें बानादिक करे, तेहनो धन्य भवतार ॥२६॥ यतः ॥ शार्दूलचिक्रीडितवृत्तम् ॥ आयु
 वारितरंग जंगुरतरं श्रीस्तूलतुड्यस्थिति, स्तारूपं करिकर्णं चंचलतरं स्वप्नोपमाः संग
 माः ॥ यन्यान्यद्मणीमणी प्रभृतिकं वस्तुंचतत्रास्थिरं, विज्ञापेति विवीयतामसुमता
 धर्मस्सदा शाश्वतः ॥२॥ ज्ञायार्थः—थाउगुं पाणीना तरंगनी पेटे अतिशे नाशयंत, स
 द्दमी वणकरना कांवतानी पेटे चपल स्थितिवाजी, तरुणपणुं हाथीना काननी पेटे अ
 तिशे चंचल, कुटुंबीजनो मिलाप स्वप्न तुड्य, तेमज स्त्री, मणि श्रने माणेक विंगेरे जे
 काई पदार्थ, ते सर्वे पण अस्थिर ठे, एम जाणीने प्राणीए शाश्वत एवो धर्म करयो जो
 इए ॥२॥ सांजलिने मुज विचमं, उपन्यां सबज संयोग ॥ ऋणपणो हवे वंडयो, मां

पुण्यसौगतत्रयः श्री शास्त्रिनश्चित्रिः, सर्वेषुजमदानमानविधिना ज्ञाताजगद्विश्रुताः॥१॥
 ज्ञारार्थः—प्रथम तीर्थंकर श्री रूपनदेवस्वामी, ते धनसार्पवाहना ऋवमां (घृतनुं दान
 देवायी) कड्याण रूप लक्ष्मीना घर हता, ते, श्रेयांसकुमर, नूलेदेव राजा, चंदनयाला,
 तथा पूर्वजन्ते विप्रे कर्तुं ठे पुण्य जेमणे एवा श्रा घन्नकुमर अने शास्त्रिनच्छुमर; ते सर्वे
 एण उजम दान भने सन्माने करी जगन्ने विप्रे विख्यात थयां ठे. ॥ १ ॥ तव बोड्यो
 भवानूसो, पीरो था नूं धीर ॥ श्राज रसोई न नीपनी, कार्यं विशेषथी वीर ॥१३॥ इम
 फरते करते तयु, मास थयो इक जाम ॥ ताम त याचक चित्तवे, सुंवनी पाहुं माम
 ॥१४॥ इम चिंतोने नैरवी, देहरे वेगो तेह ॥ धूर्तं विद्यानो साधन, साथे शुचि करी देह
 ॥१५॥ कुंठ करी पट कोणनो, हवन करे तिहां खास॥अप जपतां इकवीशते, तास थया
 उपयास ॥१६॥ चंन्द्रिका ताम प्रगट थई, कहे तुं वछ वर माग ॥ हूं तूवी तुज ध्यानथी,
 ताहरो महोदो ज्ञाग्य ॥१७॥ तव बोड्यो ते याचक, पय प्रणमी सुचिचार ॥ रूप पराव
 संक मुज, ये यिया सुलकार ॥१८॥ देवीये दीधी ततक्षणे, विद्या तेह प्रथान ॥ ते लेई
 ने याचक, उओ थई सावधान ॥१९॥ एहवे ते धनकामिक, प्रामांतर गयो ठीक ॥ जा
 णीने धनपाजानो, रूप कस्यो निरन्तीक ॥ २० ॥ बाड्यो कृपणतणे घरे, ते याचक घरी

रूप ॥ पूरे पात्रा निम्न गच्छया, तुगत तुमे गरि चूप ॥२१॥ तव कले शुक्रत यया अति,
 मुज मस्यम जिणि चार ॥ तिणे तिदंभी पावो गच्छो, विचमे मिदया अणगर ॥२२॥
 बेदाना वेत्ता देवित्ते, दु देवो मुनि पास ॥ अमृत वाणी अति ज्ञानी, सांजली भयो उब्धा
 स ॥२३॥ आयु अग्रि र्भजली जल, ऊरुम एहने प्राय ॥ धन पिण नदीय प्रगाह ठे,
 कोयथी राख्यो न जाय ॥२४॥ योगन संख्या गंगे ठे, सुपन सदृश संयोग ॥ रमणी रंग
 पतंग ते, निर सम निरय संजोग ॥२५॥ रोगे करिने पूरित, काया षडुचि जंभार ॥
 तेहमे दानादिक करे, तेरुनो गन्य भयतार ॥२६॥ यतः ॥ दार्दिलविकीडितगृजम् ॥ आयु
 गंस्तिरंग जंगुस्तं श्रीस्तुल्लतुड्यस्थिति, स्तारुण्यं करिकर्ण चंचलतरं स्वप्नोपमाः संग
 माः ॥ गच्छान्यपत्रमणीमणी प्रनृत्तिकं नस्तुंयतत्रास्थिरं, निडायेति विधीयताममुमता
 यमंस्तरा शाश्वतः ॥२७॥ ज्ञानार्थः—आत्रगुं पाणीना तरंगनी पेठे अतिठो नाश्वंत, स
 द्रमी गणकरना कांडलानी पेठे चपल स्थितियांती, तरुणपणुं हाथीना काननी पेठे अ
 तिठो रंजल, तुंडुवीरुनो मिलाप म्यत्र तुड्य, तमज स्त्री, मणि अने मालेक विंगरे जे
 कांडे पत्रार्थ, ते सर्वे पण अस्थिर ठे, एम ज्ञानीने प्राणीए शाश्वत एवो घमं करवो जो
 इए ॥२८॥ गान्धर्वा मुज विचमे, उरुन्या सबल संवेग ॥ रूपणपणो हने गंडयो, मां

डवो बानशुं नेग ॥२७॥ ते ज्ञानी आज्ञायी कोयने, मत कहेजो नाकार ॥ जे मागे ते ते
 हने, देजो दान उदार ॥ २८ ॥ तुमे ठो सुपुत्र सोहामणा, तात वचन प्रतिपाल ॥ देतां
 घन खूटे नदी, जाणजो चित्त विचाल ॥२९॥ भाठ कोडि घन आपणे, ठे भूमिगत जे
 ह ॥ ते पिण काढी दीजीए, लीजीए लाज्ज श्रवेद ॥३०॥ यतः ॥ अनुशुब्रवृत्तम् ॥ मा मं
 स्या क्षीयते वित्तं, दीयमानं कदाचनः ॥ कूपाराम गवादीनां, वदतामेव संपदः ॥ ३ ॥
 ज्ञावार्थः—हे पुत्र ! भपातुं घन कदि पण क्षीण आयठे एम तुं न मान. कारण के कूवा
 मांथी जेम जेम पाणी काढीए ठीए, तेम तेम पाणी वृद्धि पामे ठे, वगीचामांथी जेम
 जेम फूलो जेइए ठीए, तेम तेम नवां फूलो श्रावेठे भने गायने जेम जेम दोहिये ठीए,
 तेम तेम नबुं दूध उत्पन्न थायठे; ते कारण माटे जेम जेम दान थापीए, तेम तेम घन
 नी वृद्धि थायठे. ए तात्पर्यः ॥३॥ तव ते कपट भजाणता, वचन करे सुप्रमाण ॥ दान
 विषे ग्रह निशि मुदा, राखता चित्त शुभ्र ध्यान ॥ ३१ ॥ भसतन वसन श्राज्जूपण, आपे
 विविध प्रकार ॥ नाकारो भूली गया, मांड्यो दे दे कार ॥३२॥ केलवे कपट जे जाणिने,
 ते ठेले सुर नरधीर ॥ पिण कोई तेहने नयि लहे, जिम जेढ्यो जल खीर ॥ ३३ ॥
 कपट न कीजे कोपथी, इम कहे जिन सुचितास ॥ ढाल घइ ए वीक्षमी, शुभ्र नीजे

वृद्धास ॥ ३५ ॥

॥ दोद० ॥ इम दिन भाठ लंगं तिले, दीघो अद् निशि वान ॥ नाति जाति पोली
जन्नी, लीघो पदा असमान ॥१॥ ते गानां गयती प्रई, नगर देश पुर गाम ॥ सुंवे ते पि
ण सांनन्नी, भयो विब्रम तिले गाम ॥२॥ भाव्यो अति उतायन्नो, निज गृहंगण जाम
॥ दीघे प्रतिक्रपी तिहां, वेगो ये बहु दाम ॥३॥ बोढ्यो सुंच रोडो करी, तुं कुण ठे चंन
स ॥ मुन्न मंशिरनो पति पद्, वेगो इहां चोसाल ॥४॥ धन सयलो तें माहरो, विषसाड्यो
दो माट ॥ उळ उळ जा इहां भकी, पकडी कोईक वाट ॥५॥

॥ गाल २! मी. ॥ (धन धन जननी वे लाल. इं रुं दिल घरी .)

तय ते बोले वे लाल, पूर्ण कत्ता करी ॥ मादरे चुयने वे लाल, इं रुं दिल घरी
॥१॥ तुटक० दिन्न घरी इं रुं वान वेतां, नयी लेतो केदनुं ॥ धन माल मिलकत माह
री ने, नोगनुं सुल तेहनुं ॥ तूं कण कपटी इहां आयो, घायो स्थानपरे थई ॥ कुज
जाति हीणो भंठे दीणो, अकल बुद्धि वीसे गई ॥२॥ चाल-मुंवेने कपटी वे लाल, विहुं
जेसा लंठे ॥ पुत्राधिकने वे लाल, बुद्धि न को पडे ॥३॥ तुं न पडे बुद्धि ते सयण सहु
ने, तय ते विहुंने काविया ॥ ते फल्लह करता मान धरता, वधन बोले गांठिया ॥ तिहां

डयो वानशुं नेग ॥२३॥ ते ज्ञणी भ्राजथी कोयने, मत कहेजो नाकार ॥ जे मागे ते ते हने, देजो दान उदार ॥ २८ ॥ तुमे ओ सुपुत्र सोहामणा, तात वचन प्रतिपाल ॥ देतां धन लूटे नदी, जाणजो चित्त विचाल ॥२९॥ भाठ कोडि धन आपणो, ठे भूमिगत जे ह ॥ ते पिण काढी दीजीए, लीजीए लाज अवेद ॥३०॥ यतः ॥ अनुष्टुप्वृत्तम् ॥ मा मं स्या क्षीयते वित्तं, दीयमानं कदाचनः ॥ कूपाराम गवादीनां, ददतामेव संपदः ॥ ३ ॥ ज्ञावार्थः—हं पुत्र ! भपातुं धन कवि पण क्षीण थायठे एम तुं न मान. कारण के कूवा मांपी जेम जेम पाणी काढीए ठीए, तेम तेम पाणी वृद्धि पामे ठे, वगीचामांपी जेम जेम फूलो लेशए ठीए, तेम तेम नवां फूलो थावेठे अने गायने जेम जेम दोहिये ठीए, तेम तेम ननुं दूय उत्पन्न थायठे; ते कारण माटे जेम जेम दान थापीए, तेम तेम धन नी वृद्धि थायठे. ए तात्पर्यः ॥३॥ तव ते कपट भजाणता, वचन करे सुप्रमाण ॥ दान विषे ग्रह निशि मुवा, राखता चित्त शुभ्र ध्यान ॥ ३१ ॥ असन वसन आभूषण, थापे विविध प्रकार ॥ नाकारो झूली गया, मांड्यो ये ये कार ॥३२॥ केलवे कपट जे जाणिने, ते बले सुर नरधीर ॥ पिण कोई तेहने नवि लहे, जिम जेढ्यो जल खीर ॥ ३३ ॥ कपट न कीजे कोषधी, इम कहे जिन मुविदास ॥ दाल बइ ए बीशमी, शुभ्र श्रीजे

उद्धास ॥ ३४ ॥

॥ दोहा ॥ इम दिन भाव लंग तिले, वीघो अद् निशि दान ॥ नाति जाति पोखी
प्रती, लीघो यदा असमान ॥१॥ ते वार्ता बधती थई, नगर देश पुर गाम ॥ सुंवे ते पि
ए सांजली, धयो विव्रम तिले गाम ॥२॥ भाव्यो अति उक्तायज्ञो, निज ग्रहंगण जाम
॥ वीघो प्रतिवरी तिहां, धेगो धे बहु दाम ॥३॥ दोढयो गुंय रोशे करी, तुं कुण ठे चंन
ल ॥ मुज मंकिरनो पति थइ, धेगो इहां चोसाल ॥४॥ धन सयलो तें माहरो, विणसाढ्यो
धे माट ॥ उठ उठ जा इहां थकी, पकडी कोईक वाट ॥५॥

॥ दाल २१ मी. ॥ (धन धन जननी वे लाल. इं रहुं विल घरी)

तय ते बोले वे लाल, धूर्त कला करी ॥ मादरे युंवेने वे लाल, इं रहुं विल घरी
॥१॥ तुटक० विल धरी इं रहुं दान वेतो, नथी लेतो केदनुं ॥ धन माल मिलकत माह
री जे, जोगनुं सुल तेहनुं ॥ तूं कयण कपटी इहां आयो, धायो स्यानपरे थई ॥ कुज
जाति हीणो पठे वीणो, अकल बुद्धि वीसे गई ॥२॥ चाल-सुंवेने कपटी वे लाल, विहुं
जेला लरे ॥ पुत्राधिकने वे लाल, बुद्धि न को पडे ॥३॥ तुण न पडे बुद्धि ते सयण सह
न, तय ते विहुंने काठिया ॥ ते कलह करता मान घरता, वधन बोले गांढिया ॥ तिहां

पांच नैना मिट्या समेला, पिण ठात्र न को पडे ॥ बहु ग्राम लोको परिव्रथा ते, राज
दरवारे चडे ॥ ४ ॥ चाल-राजा देखी वे लाल, मूजाई रह्यो ॥ सचिवने एहनो वे लाल,
न्याय करयो कह्यो ॥५॥ तु० कखो एहनो न्याय करिये, तो तुम बुद्धि सोहामणी ॥ तव
सचिव कहे प्रभु कपटनी मुज, खबर न पडे अति घणी ॥ महादेवने वलिराय सरिखा,
राम पिण ठलमें पड्या ॥ जूभो कपट करीने इंड ते पिण, अहिड्याशुं आथड्या ॥६॥
चाल-एहेवे धन्नो वे लाल, परिजने परिव्रथो ॥ नृपने देखी वे लाल, आदर अति कखो
॥७॥ तु० भति कखो आदर लही वेगो, सनामें सुर सारिखो ॥ ऊयडंता देखी ते विहुंने,
किपो ततक्षण पारिखो ॥ तव राय वोले अति अमूलिक, कन्या ठे धनपालनी ॥ जे
न्याय करिने सत्य दाखे, ते वरे गुणमालिनी ॥८॥ चाल-तव कहे धन्नो वे लाल, एहमां
शुं श्रवे ॥ एहने निचेडी वे लाल, जिमशुं जइ पठे ॥ ९ ॥ तु० पठे जिमशुं ए निचेडी,
कही कमल अणारीयो ॥ ते सुरजिगंधे अतिहि सुंदर, देखी सहु मन जावीयो ॥ ए क
मल मुखथी पेसिने जे, नीसरे नाले थई ॥ धनपाल ते सही जाणजो इम, वात धन्ने मु
ख कही ॥१०॥ चाल-तव ते कपटी वे लाल, विया बल थकी ॥ पेसी मुखथी वे लाल,
नीसख्यो बल थकी ॥११॥ तु० वलथकी नीसरतो प्रह्यो तस, वांधीयो वंधन करी ॥ क

हे कपट एतो केम कीधो, विद्या तादरां व खरा ॥ तत्र १०५ याचक मुंघ मुजने,
 कवे चोजन नापतो ॥ परजाते चोजन भापद्यो मुज, उगर पश्यो आपतो
 ॥ १२ ॥ यतः ॥ अनुष्ठुवृजम. ॥ प्रगदास्ये प्रगदास्य, चोजनं ज्ञोस्तयेत्यहं ॥ मा
 सं प्रतारितोऽनेन, कुर्यान्न महीपते ॥१॥ जायार्थः—दे राजन् ! काल सचारे चोजन या
 पीदा, काल सचारे चोजन थापीदा, एम कही कही एक महिना म्ही धका ग्यगगी
 ए कुरले मने गग्यो, तेथी मारं थातुं करतुं पडतुं. ॥ १ ॥ चाल-तय में कोपे धे लाल,
 सार्थ ज्ञेस्वी ॥ तिले मुज दीधी धे दात, विद्या अचिनची ॥१३॥ तु० अचिनची विद्या
 ताम सार्थी, रूप कीधो एहना ॥ में दान दीधो लाज लीधो, काज मीधो देदना ॥ मुली
 लोक संघसो कहे सारो, काम कीधो इह जेने ॥ सावादा तुजने अशो वांगय, मुल लहि
 दा वही परजने ॥१४॥ चाल-निशुणी धने धे लाल, बंधन ठोडियो ॥ कहे नृप तहने धे
 ला०, काम बजो कीयो ॥१५॥ तु० कियो जसो तें काम जाई, इम कही सनमानीयो ॥
 नमि चूपने धना प्रते तव, प्रयाणो तंण कोयो ॥ धनपाज तव संतोप पाम्यो, वाम्यो उःख
 दिजधी संये ॥ घर इहिसागे सबली वधारीदा, जियतो तुं जा संये ॥१६॥ चाल-परिज
 न साथे धे ला०, परिकृत आनियो ॥ स्त्री मुत सहने धे ला०, मनमें जावियो ॥१७॥ तु०

नार्गीयो ते कहे सुणो सजनो, धत्रे उपकृति मुज करी।।माहरी ए सयल लीला, एहथी में
अनुसरी ॥ ते जणी एहने विउं पुत्री, राये पिण प्रांल्यो अठे ॥ नवि वीजीये तो वल क
रीन, राय देवरावे पठे ॥ १८ ॥ चाल-इम चिंती वे ला०, धत्राने तदा ॥ दीधी कन्या वे
ला०, धरी मनमें सुदा ॥ १९ ॥ तु० धरी मनमां हर्ष अधिके, परणावी गुणमालिका ॥
लक्षणे रूडी नही कूडी, सासती कुलवाजिका ॥ उद्याह रूडा ते सजोडा, हुथ्या अधिका
हेजथी ॥ शामा सुरंगी द्यगुरंगी, शोनती पियु तेजथी ॥२०॥ चाल-पूरव पुण्ये वे लाल,
धत्रो सुख वरे ॥ राजा मंत्री वे ला०, दित अधिको धरे ॥ २१ ॥ तु० हित धरे अधिको
स्नेह साचो, काचो नही कोइ वातथी ॥ एक कनकने वलि सुरजियासे, ते लहे यदा
जातिथो ॥ तिम बुद्धि पाइ वली जमाई, गुणे गौरयता लहे ॥ श्रीजे उब्ढासे वीशने
इक, शाल ते जिन इम कहे ॥ २२ ॥

॥ दोहा. ॥ हवे धत्रो सुख जोगवे, पट कामिनीथी खांति ॥ धरणेंदादिकने जिस्ती,
पट इंशणी पांति ॥१॥ चिंते चित्तमें तव चतुर, जइए मगध मऊर ॥ मिलिये श्रेणि
क रायने, रहिये निज भागार ॥२॥ ग्राम सकल संनालिये, गज श्रध्वाधिक तेम ॥ सरवे
सीधाता हुशे, कंत विना स्त्री जेम ॥३॥ कुरुमपालादि सयण सचि, जोता हुशे बहु वा

ट ॥ दयिता धे दिवगीर ते, करती हुशे उचाट ॥ ४ ॥ इम चितीने नृपतणी, मागे धत्रो
शीख ॥ नृप सचिवाधिक ताम ते, बोझे सधि सरीख ॥ ५ ॥

॥ दाल १२ मी. ॥ (भरत नृप जावशुं ए. ए देदी.)

करजोडी घनपति प्रते ए, राजादिक कहे एम ॥ सुणो तुमे शुन मतिथे ॥ अमने
अवदेली करी ए, प्रीत उतारो ठो केम ॥ सुणा १ ॥ ए थांकणी. ॥ प्रीति वंथाणी तुम प
की ए, जेहवी जळने मीन ॥ सुणा ॥ तुम गुण अम मनडे वदया ए, पंकज जिम जल ली
न ॥ सुणा ॥ २ ॥ अम ज्ञाग्ये भावी निड्या ए, तुमे बुडिपात्र सुजाण ॥ सुणा ॥ शील अमे
किम भापी ए ए, तुम अम जीवन प्राण ॥ सुण ॥ ३ ॥ धत्रो कहे स्वामी सुणो ए, अमे
व्यापारी लोक ॥ सुणा ॥ काम घणो अम मंदिरे ए, लेदणां देदणां रोक ॥ सुणा ॥ ४ ॥ ते की
घा घिण किम चले ए, जेवो हृदय विचार ॥ सुणा ॥ बलि मिलयाने आवशुं ए, जो ठे तु
मचो प्यार ॥ सुणा ॥ ५ ॥ तव नृप प्रमुख धनाप्रते ए, आपे वडुली थाय ॥ सुणा ॥ बहेल सुखा
सन पालखी ए, गज रथ घोडा साथ ॥ सुणा ॥ ६ ॥ चाड्या धत्रोदाहजी ए, सडुशुं करीने
शीख ॥ सुणा ॥ बोलावी साजन बड्या ए, साश्रुत लोचन सरीख ॥ सुणा ॥ ७ ॥ सबल से
नाशुं परबखो ए, कामिनी पट संपुन ॥ सुणा ॥ अनुक्रमे राजगृही प्रते ए, मुख विजसंतो

नार्योपोते कहे सुणो सज्जो, धम्मे उपकृति मुज करी।।माहरी ए सयल लीला, एहथी मे
अनुसरो ॥ ते जणी एहने दिठं पुत्री, राये पिण झांख्यो अठे ॥ नवि दीर्जाये तो बल क
रीन, राय देवरावे पठे ॥ १८॥ चान्न-इम चिंती वे ला०, धन्नाने तदा ॥ दीधी कन्या वे
ला०, धरी मनमें मुदा ॥ १९॥ तु० धरी मनमां हर्ष अचिके, परणावी गुणमालिका ॥
लदण्णे रुडी नही कूडी, सारसती कुलवाञ्जिका ॥ उच्छाह रुडा ते सजोडा, हुथा अचिका
हेजथी ॥ शामा सुरंगी दृगकुरंगी, शोचती पियु तेजथी ॥२०॥ चाल-पूरव पुण्ये वे लाल,
धत्तो सुल वरे ॥ राजा मंत्री वे ला०, हित अचिको घरे ॥ २१॥ तु० हित घरे अचिको
स्तेह साचो, काचो नही कोइ वातथी ॥ एक कनकने वलि सुरनिवासे, ते लहे यश
जातिथी ॥ तिम बुद्धि पाइ वली जमाई, गुणे गौरवता लेहे ॥ श्रीजे उब्ढासे वीजने
इक, दाल ते जिन इम कहे ॥ २२॥

॥ दोहा ॥ इये धत्तो सुख जोगये, पट कामिनीथी ग्वांति ॥ धरणेंइचिकने जिंसी,
पट इंचाणी पांति ॥१॥ चिंते चिन्तमें तय चतुर, जइए मगध मजार ॥ मिलिये श्रेणि
क रायने, रहिये निज भागार ॥२॥ ग्राम सकल संजालिये, गज अश्वाधिक तेम ॥ सरवे
सीदाता हुंओ, कंत विना म्बी जेम ॥३॥ कुसुमपालादि सयण मयि, जोता हुंओ बहू वा

ट ॥ दयिता ये विलगीर ते, करती हुये उचाट ॥४॥ इम चितीनि नृपतणी, मागे यत्रो
दील ॥ नृप सनियधिक ताम ते, बोझे सवि सरील ॥५॥

॥ बाल २२ मी. ॥ (भरत नृप जावशुं ए. ए देदी.)

करजोही वनपति प्रते ए, राजादिक कहे एम ॥ सुणो तुमे शुच मतिये ॥ अमने
अयदेली करी ए, प्रीत उतारो वो केम ॥ सुण १ ॥ ए आंकणी. ॥ प्रीति बंधाणी तुम प्र
की ए, जेहवी ज्ञानेन मीन ॥ सुण ॥ तुम गुण भम मनडे वदया ए, पंकज जिम जल ली
न ॥ सुण २ ॥ भम जाग्ये भायी सिद्ध्या ए, तुमे बुद्धिपात्र सुजाण ॥ सुण ॥ शील अमे
किम भापी ए, तुम अम जीवन प्राण ॥ सुण ॥ ३ ॥ धत्रो कहे स्वामी सुणो ए, भमे
व्यापारी लोक ॥ सुण ॥ काम घणो अम मंदिरे ए, लेदणां देदणां रोक ॥ सुण ॥ ४ ॥ ते की
घा निण किम चले ए, जोवो हृदय विचार ॥ सुण ॥ बलि मिलयाने आवशुं ए, जो ठे तु
मचो प्यार ॥ सुण ५ ॥ तव नृप प्रमुख धनाप्रते ए, आपे बहुनी आथ ॥ सुण ॥ बहेल सुग्या
सन पालवी ए, गज रथ घोडा साथ ॥ सुण ६ ॥ चाड्या धनोदाहजी ए, सहशुं करीने
दील ॥ सुण ॥ नोलागी सासन बड्या ए, साश्रुत लोचन सरील ॥ सुण ७ ॥ सबल से
नाशुं परवर्यो ए, कामिनी पट संगुन ॥ सुण ८ ॥ अनुक्रमे राजग्रही प्रते ए, मुख बिलसंतो

पडुच ॥ सु० ॥ ८८ ॥ राजा श्रेणिक हरखिया ए, केर उछव अरि चंग ॥ सु० ॥ सेना शिषागा
 री करी ए, नेजा नच नच रंग ॥ सु० ॥ ८९ ॥ आनंवरथी आणीधा ए, धत्राने आनाम ॥
 सु० ॥ सुसरा सासु मनि मिढया ए, सहर्न पूर्ण आठा ॥ सु० ॥ ९० ॥ सोमश्री नृप पृथिका
 ए, कुसुमश्री तेलीवार ॥ सु० ॥ प्राणेश्वर प्रीतम प्रते ए, आचो कर मनोहार ॥ सु० ॥ ९१ ॥
 सुकुलोणी सोहामर्ण ए, सतिवामं शिग्दार ॥ सु० ॥ आण्ड आणे मासरो ए, ठांड्या न
 हीय खिगार ॥ सु० ॥ ९२ ॥ पारखे पहाती पदमिर्ण ए, त गुण चिचमं थारि ॥ सु० ॥ आठ
 मां अधिकारिणी ए, थारपी सुत्रज्ञ नागि ॥ सु० ॥ ९३ ॥ आठ कार्मिर्न तुपति ए, कमना
 सम गुणखाण ॥ सु० ॥ कोमन्व मंगी कोमन्व वट ए, पार्मी गुण्य प्रभाण ॥ सु० ॥ ९४ ॥
 जित कार्मी धनो थयो ए, बुढिनणा नेमार ॥ सु० ॥ इतणा मुख नागने ए, मानयेन
 भयतार ॥ सु० ॥ ९५ ॥ दान दिव दानत करी ए, परिश्रव परमानेड ॥ सु० ॥ शील यथाज्ञंके
 करी ए, पालेते सुखकंद ॥ सु० ॥ ९६ ॥ देवानेन कर दिव वरी ए, रंखे स्वडो नाय ॥
 सु० ॥ हेप न राखे कोयथी ए, सह्या मन्व स्वनाय ॥ सु० ॥ ९७ ॥ यत ॥ आर्यावृत्तम ॥
 जिनपूजनं विंकेः, सत्यं शोचं सुपात्रदानं च ॥ माहमाक्राइगारं, दोगारः श्राय रुन्वस्यः
 ॥ १ ॥ सावार्थः—जिनपूजन, विंके, सत्य, पवित्राडपणुं, सुपात्रेन दान श्रापनुं येने म

द्विमा एते प्रतिष्ठा एज जेने कृबानुं घर वे, तज आधकयथा...
 कष्टपडुम रासनो ए, ए त्रीजो वद्धदास ॥ सु० ॥ वावीशो बाले करी ए, निरुच्यो ए सुप्रका
 स ॥ सु० ॥ १७ ॥ श्री विजयसिंहमूरीशाना ए, सकल विदुष शिखार ॥ सु० ॥ गजविजया
 निच गुण निलो ए, आगम मर्ष अंकार ॥ सु० ॥ १८ ॥ तस सेयक पंक्ति जला ए, तार्किक
 शास्त्र प्रथीण ॥ सु० ॥ दितविजय गुरु गुण वर्या ए, समता रस लयलीन ॥ सु० ॥ १९ ॥
 तास चर्या प्रसादश्री ए, ए कीचो अन्यास ॥ सु० ॥ जिनविजय कहे युगतिशुं ए, पुण्ये
 लीन विलास ॥ सु० ॥ २० ॥

इति श्रीघनशालिचरित्रिपाठप्रबंधदानकड्डाडुमाख्येतृतीयशाखारूपधनशाहिसकलार्थ
 सिद्धिप्राप्तयर्थेनोनामतृतीयोद्धृतासः समाप्तम् ॥ अस्मिनोद्धृतेषु ॥ २१ ॥

पहुन ॥ सु० ॥ १०॥ राजा श्रेणिक हरखिया ए, करे उछव अति चंग ॥ सु० ॥ सेना शिणगा
री करी ए, नेजा नव नव रंग ॥ सु० ॥ ए ॥ आनंवरथी आणीया ए, घत्राने आवास ॥
सु० ॥ सुसरा सासु सवि मिढ्या ए, सहुनी पूगी आश ॥ सु० ॥ १० ॥ सोमथ्री नृप पुत्रिका
ए, कुसुमथ्री तेणीवार ॥ सु० ॥ प्राणेश्वर प्रीतम प्रते ए, आवी करे मनोहार ॥ सु० ॥ ११ ॥
सुकुलीणी सोहामणी ए, सतियोमें शिरदार ॥ सु० ॥ आपद आवे सासरो ए, गंड्यो न
होय विगार ॥ सु० ॥ १२ ॥ पारखे पहोती पदमिणी ए, ते गुण चित्तमें धारि ॥ सु० ॥ आवे
मां अधिकारिणी ए, धापी सुन्नडा नारि ॥ सु० ॥ १३ ॥ आवे कामिनी उपति ए, कमला
सम गुणलाय ॥ सु० ॥ कोमल सुखी कोमल वंदे ए, पामी पुण्य प्रमाण ॥ सु० ॥ १४ ॥
जित कासी धनो धयो ए, बुद्धितो नंनार ॥ सु० ॥ देव तणां सुख जोगवे ए, मानवने
भवतार ॥ सु० ॥ १५ ॥ दान दिये दोलत करी ए, परिघल परमानंद ॥ सु० ॥ शील यथाशक्त
करी ए, पाले ते सुखकंद ॥ सु० ॥ १६ ॥ देवाचन करे दिल धरी ए, राखे रूपडो ज्ञाव ॥
सु० ॥ देप न राखे कोपथी ए, सहुथी सरल स्वजाय ॥ सु० ॥ १७ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम्, ॥
जिनपूजनं विवेकः, सत्यं शौचं सुपात्रदानं च ॥ महिमाक्रीडागारं, शृंगारः श्रावकत्वस्यः
॥ १ ॥ जावार्थः—जिनपूजन, विवेक, सत्य, पवित्राश्पलं, सुपात्रने दान आपहुं धने म

क्षिमा पट्टे प्रसिद्धा एतज्जैने क्रिदानु परते, तत्र श्रीचक्रकल्पना
 कृत्स्नमुस गसनां ए, ए श्रीजो चक्रास ॥ मु० ॥ श्रायीदो बाले करी ए, निरुच्यो ए सुप्रका
 र ॥ मु० ॥ १८ ॥ श्री विजयसिंहवरीदाना ए, सकल विभुष दिशवार ॥ मु० ॥ गजविजया
 निग गुण निलो ए, आगम मर्थं चंद्रार ॥ मु० ॥ १९ ॥ तस सेयक पंक्ति नला ए, तार्किक
 दान्य प्रवीण ॥ मु० ॥ क्षित्तिजय गुरु गुण यखा ए, समता रस क्षयज्ञीन ॥ मु० ॥ २० ॥
 तस चरणा प्रसायत्री ए, ए कीधो अन्यास ॥ मु० ॥ जिनविजय कशे युगतिष्ठु ए, गुण्ये
 क्षीत्र निजारा ॥ मु० ॥ २१ ॥

इति श्रीधर्मदालिचस्त्रिपाठतमर्कपोधानकृत्स्नमुमाख्येवृतीयदाख्यारथद्विदाहसकक्षार्थे
 सिद्धिसाधनवर्णनेनामवृतीयोऽब्दासः समाप्तम् ॥ अस्मिनोऽब्धतेऽब्दात् ॥ २३ ॥

॥ दोहा. ॥ श्री संतोष्वर समरते, लहिये लगमी जोग ॥ कामित सवि प्रावी
निते, सपत्न सिद्धि संयोग ॥१॥ शारद श्री गुरु संघने, प्रेमे कहं प्रणाम ॥ यचनामृतनी
धांगना, पूरो गुज हित काम ॥२॥ चौथो चतुरपणे करी, रचुं उब्झास रसाल ॥ एक चिन
पइ सांजलो, धोता सवि उजमान ॥३॥ पद्मोदाह राजगृह, रहे ते भाणंद पूर ॥ ह्वेते
धन्यहुमानो, कहुं संवंध सनूर ॥४॥ वेदया कपट प्रयोगधी, चंरुप्रद्योतन पास ॥ रहे
पनय निर्जय धकी, मासीनि ध्यावास ॥५॥

॥ बाल १ ली. ॥ (देवी रसियानी.)

चंरुप्रद्योतन मानय महिपती, रुद्धि समुंद्धे रे पूर्ण ॥ विराजे ॥ लोगे त्यागे जोगे
ब्रागलो, दीसे दूजो रे कर्ण ॥ दिवाजे ॥ गुणजो साजन, कौतुकनी कथा ॥१॥ ए आंक
ली ॥ सांजलतां गुण घाय ॥ सबाई ॥ समकित पिण निर्मल बधतो हुवे, दुखित तिमिर
मिट आय ॥ जजाई ॥ मुण ॥२॥ चार रतन तेहने स्वाधीनेठे, पुण्यबले परवान ॥ सदाई ॥ रा
पी शिपोदेवी चेटक पुत्रिका, शिपननी परम निधानासबाई ॥ मुण ॥३॥ लोहजंघा नामे
तत इक प्रेष्य ठे, गमन करे इत कोया मही तेण ॥ अग्निजिह्व रथ मधिये नवि बले, चाले ते
त्रिरेंगा मही तेण ॥ मुण ॥४॥ धनजनिरो नामा गज उरतो, ए घोरे तग रव ॥ गनुरंण ॥ राग्य

मंदाण ए चारे जाणीने, करे तस सुपरें रे यत्र ॥ ते पूरांण॥ सु० ॥ ५ ॥ एक दिन लोदजंयो दू
 ताप्रली, पहोत्यो जरुअच गम ॥ सवाई ॥ तत्र तिहांना जूपाविक चित्तये, एह विगाडे ठे
 काम ॥ सदाई ॥ सु० ॥ ६ ॥ एहने विप वेईने मारीए, तो हुये शांति संयोग ते ॥ भ्रमने ॥ इम
 चित्ती विपमिश्रित जाडूआ, चार दिया करी योग ते ॥ तेदने ॥ सु० ॥ ७ ॥ लेख लेई लोह
 जंयो चालीयो, प्रहरमें कोप पचास ॥ प्रयाणे ॥ लाया वेगो लाडू जेहये, शुक्रन करे तस
 रीस ॥ ते जाणे ॥ सु० ॥ ८ ॥ विण खाये वलि कोप पचास ते, चालीने कोइ गम ॥ तिवारे ॥
 खाये लाडू तब शुक्रने वली, चर्ज्यो चाड्यो ते ताम ॥ विचारे ॥ सु० ॥ ९ ॥ इम चारे लाडू
 खाते थके, शुक्रन थया नही तास ॥ किचारे ॥ संख्या समये उज्जयिनी प्रते, पहोत्यो तेह
 आवास ॥ तिवारे ॥ सु० ॥ १० ॥ प्रत्यूये जूपतिने जेटीने, ज्ञाप्यां कार्प अशेष ॥ ते पूरां ॥
 मोदक देखाह्या मन मोवगुं, अति सुंदर सुविशेष ॥ सनूरां ॥ सु० ॥ ११ ॥ स्वामी मुजने
 मोदक जकते, शुक्रन थया अति हीन ॥ तिवारे ॥ तेदनी कारण शो हुये ते कहे, बुद्धि
 बले सुप्रवीन ॥ इवारे ॥ सु० ॥ १२ ॥ चंद्रप्रयोत ते मोदक लेयने, पूठयो अन्नयकुमार ॥
 सोद्याहे ॥ निरखी अन्नय कहे एहमें थयो, हगविय सर्प प्रचार ॥ ए मांह ॥ सु० ॥ १३ ॥ तेह परी
 द्या करवा कारणे, मुको वनमें रे एह ॥ ते लेई ॥ आतप योगे रे नाग प्रगट हुये, हटे व

हरी रे तेह ॥सर्वेई॥ सु०॥ १४॥ जिम कह्यो तिम 'करते सहि तिम थयो, हरख्यो चंमप्र
योत ॥ तियारे ॥ कहे तूं 'मोचन विण 'वर जे रुचे, माग तूं मनमें उद्योत ॥ इवारे ॥ सु०
॥१५॥ अन्नप कहे वर ए अन्नारमें, राखो 'संप्रति काल ॥ राजेसर ॥ ढाल ए पहिली चो
पा उड्ढासनी, कही जिनविजये रसाल ॥ बलिसर ॥ सु० ॥ १७ ॥

॥ बोहा. ॥ इये ते चंमप्रद्योतनी, कुमरी रूप निधान ॥ वासवदत्ता नामथी, नृ
पति तणो बहु मान ॥ १॥ कलाभ्यास कीधो घणो, अध्यापकने पास ॥ गीत नृत्य शी
लाय्या, अररनी करे तलास ॥ २॥ पूण्यां मंत्रीने तदा, कोइ न ज्ञाले जाम ॥ अन्नपकु
मर कहे रायने, जो नुम विया काम ॥ ३॥ उदयन कुमार कला निज्ञो, राय सत्तानिक
नंद ॥ गीत नृत्य वार्जिअमें, कोविइ जिम नन्न चंद ॥ ४॥ धोपवतीना 'धोपयी, वडा की
पा यन नाग ॥ ते थावे जो इहां कणे, तो सही पावक लाग ॥ ५॥ सांजली चंमप्रद्योत
तय, लोइजंपने हेव ॥ लेख लिखीने पागवे, कोशंधी ततखेव ॥ ६ ॥ उदयनने कागल
धियो, वांची प्रह्यो उदंत ॥ पुत्रीने पावण ज्ञणी, तेडावे मुज तंत ॥ ७॥ सचिव कहे स्वा

१. धन्या अई मोदक उपर पाणी रेडपु एटले थोही वारमा मण्डिप नाग मगट ययो. २. मृदुया
विना. ३. वचन. ४. हाउसा. ५. वीसप्रीना. ६. इवारे

मी सुणो, तुमने जावो तत्र ॥ न घंटे ते जति कन्यका, वेडांगो तुमं अत्र ॥७॥ नृपयन
 पर मंदिरे, रक्षेतां लघुता क्षय ॥ तज क्षीन जिम दक्षि ह्ये, रनि मंदनमें जोग ॥ ९ ॥
 यतः ॥ मालिनो वृगम. ॥ चतुगण परिचारे नायकोप्योपथीनां, धम्लमय दारीरः कांति
 नाढ्योपिचंडः ॥ जगति विकलमूर्तिर्ममंजं प्राप्यजानां, परमदन निविष्टः को न घने ल
 पुत्यं ॥१॥ जायायः-तागर्जनो समष्टु वे परिवार जेनां, षोपधियोनो नयरु, अमृतमय
 ठे दारीर जेनुं अंन कांतियेठे जरेलो एवो य चंडपण, मूर्धे मंदलने पामोने विकलमूर्ति
 एठेले तेजदीन पाय वे. ते कारण मांटे, षे कुमर ! पर धरंनं विरे र्हेला कोण कोण
 लघुतनि नथी पामता ? अथानि सर्वे पामे वे. ॥१॥

॥ बाल २ जी. ॥ (वैशी मेतीक्षनी.)

उक्थन कंठे ते दूतने वाणी, चंद्रप्रद्योतनी वात में जाणी ॥ सांनज्ञो गुण रागी
 एमारा, सोहना सुखर्मगी ॥ ए थांकणी ॥ वासयवना पुत्री दुमारी, नणया मूकजो अ
 म घर मारी ॥सां०॥ नीदाले जणया सहु आंगं, पिण पाठक पर घर नवि जॉने ॥सां०॥
 वाट्यो ते दूत तत्काल, पदोत्यो तुरत उड्कथिनी विचाल ॥सां०॥ चंद्रप्रद्योतन भागल
 जामे, उक्थन कुमरनी वात प्रकासे ॥सां०॥ निमुणो ग्योग्यो मालेय राय, अचयकुमरने

पूजे उपाय ॥सां०॥१॥ उदयन कृष्ण रीति इहां श्रांते, अन्नयकुमार उपाय व्रताने ॥सां०॥
 चरतणो इरु हाथो कीजे, पटादिक तस वांधी लीजे ॥सां० ॥ ४ ॥ श्रद्धांतर तस पुरुष
 रायावो, वात सकल तेहने समजावो ॥सां०॥ वनमांठे गज रूपे फिरो, तय ते गज ग्रहि
 वा निज धरो ॥सां०॥५॥ वीण वजाडतो श्रांते जिंयार, आणजो ग्रहीने तेह नियारे ॥
 ॥सां०॥ सांजली चंभ्रप्रयोतन हरखो, अन्नयकुमरने कोविद परखयो ॥सां० ॥६॥ विपद
 पुररने काज जलावो, जिम कड्यो तिम गज रूप बनायो ॥सां०॥ वनमांही फिरे क्रीडा
 करतो, देखी वनचर मन सुख धरतो ॥सां०॥७॥ उदयनने गज वात जणांचे, ते पण म्र
 हिया वनमां श्रांते ॥सां०॥ वाई वीण विदोय कराने, तय गज चाले कपट धरीने ॥सां०॥
 ॥८॥ एखलो उदयन रांसे श्रांते, गजरूपधी *जट नीसरी घांते ॥ सां० ॥ ग्रही उदयनने
 प्रयंती भाणयो, चंभ्रप्रयोते अन्नय वखाणयो ॥सां० ॥९॥ तेडी उदयनने केहे राय, में तु
 जने प्रखो करिय उपाय ॥सां०॥ माहेरैर विरोध न तुजुं, देय म धारे मनधी मुजुं
 ॥सां०॥१०॥ माहेर तो तूं पुत्रने तोले, मृगायतीण सोंव्यो ठे खोले ॥सां०॥ पिल तूं तडा
 ल्यो नरि पाव्यो, तय में एहेतो वाच उपायो ॥सां०॥११॥ वामयदजा ठे मुजे वेटी, मरु

अ कला गुणनी ते पेटी ॥सां०॥ तेहने गीत कला देलायो, सुपरे पोपवती झीखायो ॥
 ॥सां०॥ १॥ माग्नी तुमारी झियावंची राणी, रहेजो तिदां निनेय मुय ज्ञाणी ॥ सां० ॥
 इम साक्षिगन वई जाले, उदयनजुं दित नूप वडु रागे ॥सां०॥ ३॥ वल मांही केहे उ
 दयन मुणजं, एक वचन मुज साचो गणजं ॥सां०॥ कन्या काणी ठे ते माटे, वदन वि
 लोरुन कामतां न माटे ॥सां०॥ ४॥ परिच भंतर राखी जणायो, वीणा नाद सुपरें ज
 णायो ॥सां०॥ धेटनिं कंठ पाठक कंठी, तुं जणजे मुगे श्रंवर श्रांठी ॥सां०॥ ५॥ जो
 तदनुं मुग्य देवीदा वाई, तो तुजने गंग विजगंश वाई ॥ सां० ॥ इम श्रयोन्ये झीख्ये
 नूप, धंथां परिचय भरीं शृंप ॥ सां० ॥ ६॥ उदयन उदयमथी झीखांचे, वीणा प्रमुख
 कला वडदांय ॥सां०॥ बीजी दास ए चोथे उच्छ्रांसं, केहे जिन वान कड्यडुम रासे ॥सां०॥ ७॥
 ॥ दोहा. ॥
 नामयवचा यिनयर्था, पगल करे नितमंय ॥ झीखे वीणानी कला,
 हांदा भरीनं हेव ॥ १॥ एक त्रियस पठते श्रंके, चूकी वार वे चार ॥ तव रोपे उदयन केहे,
 काणी फिरी संजार ॥ २॥ सांजलिने मन चितये, काणी मुज केहे केम ॥ फिरी जव
 काणी ते केहे, तव येजो सा एम ॥ ३॥ रे रे कुष्टी मुज जणी, कूडा थाल म जाल ॥
 इ नं नयन मुनोचना, कठिन गचन मत दास ॥ ४॥ उदयन केहे ते झावती, कुष्टी चांख्यो

पुत्रे उपाय ॥सां०॥१॥ उदयन क्विण रीते इहां श्रुते, अन्नयकुमार उपाय बताने ॥सां०॥
 यस्तत्तणो इरु हाथी कीजे, पट्टादिक तस वांधी लीजे ॥भां० ॥ ४ ॥ अत्र्यंतर तत्त पुरुष
 रयायो, वात सकलतेदने समजावो ॥सां०॥ वनमांहं गज रूपे फिरेशे, तय ते गज ग्रहि
 या चित्त परशो ॥सां०॥५॥ वीण वजाहतो श्रावे जियां, आणजो ग्रहीने तेद तिवारे ॥
 ॥सां०॥ सांजली चंनप्रयोतन हरख्यो, अन्नयकुमरने कोविद परख्यो ॥सां० ॥६॥ नियद
 पुरुषने काज जलावो, जिम कछो तिम गज रूप बनायो ॥सां०॥ वनमांही फिरे क्रीडा
 करतो, देखी वनचर मन सुख धरतो ॥सां०॥७॥ उदयनने गज वात जणावे, ते पण म्र
 हिया वनमां श्रावे ॥सां०॥ चाई वीण विशेष कराने, तव गज चाले कपट धरीने ॥सां०॥
 ॥८॥ एकलो उदयन वांसे थावे, गजरूपधी 'भट नीसरी धावे ॥ सां० ॥ ग्रही उदयनने
 म्रयंती प्राणयो, चंनप्रयोते मनय वखाण्यो ॥सां० ॥९॥ तेडी उदयनने केहे राय, में तु
 जने प्रहो करिय उपाय ॥सां०॥ माहेरैर वियोथ न तुजशुं, देर म धारे मनधी मुजशुं
 ॥सां०॥१०॥ माहेर तो तूं पुत्रने तोले, मृगायतीए मोंप्यो ठे खोले ॥सां०॥ पिल तूं तेडा
 न्यो नवि पाव्यो, तव में एहेतो दाव उपायो ॥सां०॥११॥ वासयइना ठे मुजकेटी, मरु

त वाञ्छय धरी मा०, कक्षा कंड अयत्न उगाय ज्युं वटा भावे इरी मा० ॥ भक्षय क्ल
 'वक्राज वीजाना नाक्षत्री मा०, वाग्यदत्ता संग धर्म शुद्ध स दृष्टी मा० ॥३॥ ए वदय
 आण्डो 'नाग ते नागप्रेम प्रदो मा०, दीपो नृप अविज्ञ कुमर । तय कक्षा मा० ॥ 'नृजं
 तीण वेग चट्यां वांगदीपनां मा०, नटनी तीरे ताम गयां ते जीपतां मा० ॥३॥ वाडं नीण
 विदेश अक्षय कक्षा कर्षी मा०, गांवे मग्ने मात भावोपे फिरी फिरी मा० ॥ नांवे मोह्या
 कुंभ मुंभग सांभवे मा०, जोग। पिण न्चर विठ भनक भावो मिक्षे मा० ॥६॥ तेष्ट भनल
 गत्रगज गुणी म्भर वीणनां मा०, मृगप्रेम आल्यो तत्र सुणे थड डक मनो मा० ॥ वदय
 करी वक्रगज प्रलो। मृगनां परे मा०, 'वेगवर्तनि केडे फिगंवे त्यूं फिंरे मा० ॥७॥ गतो
 मीन मुंभग वजाढतो वीणने मा०, वेड बाल्यो गत्रगज ते प्रद्योतन कने मा० ॥ बांध्यो
 भावानथेन पधंन ते कुपन्था मा०, भक्षय थकी गुण गग वध्यां तत्र जूपनो मा० ॥ १॥
 मृगया पिण नर भाग मात्त्रयपनि कंठ दृषी मा०, दृग्वी बुद्धि भनूप थयो हुं अति मुद्री
 मा० ॥ अनन कंठ नंदार ए नर वीजो थयो मा०, उदयन पिण प्रस्ताय लही स्त्री खेड ग

* दावो. २ वसुंधरा मगा संतानिकनो पुर उदयन कुमर. ३ दाथी. ॥ दाथणी उदर " वेगवर्तो

दाथणीनो गुंउ.

॥ अ ॥ पिण एतो ताहरे पिता, कपट देखाह्यो गूज ॥५॥

॥ डाज ३ जी ॥ (पीठोलांरी पाल, आंवा दौइ राउला मारा जाल. ए देशी.)

वासवदत्ता बल्ल करे तव धेगलो मारा लाल, दीठो रूप भनूप कुमरनो अति जलो
 ॥ मारा लाल ॥ अन्योन्ये थइ प्रीति नयनर्था निरखतां मा०, जाळीए दंपति दोय सदा
 आगे हतां मा० ॥१॥ यतः ॥ नयन पदारथ नयन रस, नयने नयन मिलंत ॥ अणजाण्या
 शुं प्रीतडी, पहिली नयन कांत ॥१॥ आपणने अर्थोन्य रखे अंतर पडे मा०, करिये गु
 त विचार रखे कोइ मुख चडे मा० ॥ वासवदत्ता येग केहे तव कुमरने मा०, माहरे नूं ज
 रतार चरुं नही भवरेने मा० ॥२॥ चार कलश धरी चंग दखां ते दंपती मा०, ते बे सुख
 मय काल गमावे शुभ्र मती माण ॥ गुप्तपणे सुख जोग संयोग सेवे रत्नी मा०, पूरव पुण्य
 संयोग बंठित भाशा फली मा० ॥ ३ ॥ एहेने अतलगिरी तोडी अलान मदे करी मा०,
 विफल्पो करे विनाश हणे नरने तुरी मा० ॥ सागरमें जिम पोत जमे पवने चड्यो मा०,
 तिम ठोडी निज वाम जई वनमें पड्यो मा० ॥४॥ चंद्रप्रद्योतन वात वेगे जव सांजली
 मा०, वूथ्यो अतलगिरी आज प्रेहे कहे कुण वली मा० ॥ माहारा गयनो सार जीवन सम
 ए अठे मा०, गज अश्वादि अनेक सेवे इणची पठे मा० ॥ ५ ॥ एते अतलगिरी तास

त पात्रय धरी मा०, रक्षो कोंड अग्रज उराय गुं यडा पाव त्हा मा० ॥ मज्ज ४०
 'वज्रगत धीणाना नाद्वयी मा०, चास्यदना संग धर्म दुज्ज स द्ययी मा० ॥३॥ ए वद्य
 आणदो 'नाग ते नागपंथे प्रहो मा०, दीधो नृप अविदा कुमर । तय वही मा० ॥ 'ज्जं
 तीए नंग चट्ठ्यां दीयदीरतां मा०, तटनीतीरे ताम गवां ते त्रीपतां मा० ॥३॥ वाडं वीण
 निदोए अदोए कत्ता क्की मा०, गांने मग्गं माद बालोए फिरी फिरी मा० ॥ नांने मोत्था
 कुंग मुग्ग मांमेवे मा०, जोगो विण द्वाए विठ भंनेक भायी मिद्धे मा० ॥७॥ तेह भनल
 गज्जगज्ज मुली म्बर वीणनो मा०, मृगपरे अल्ल्यो तत्र गुणे थड डक मनो मा० ॥ वद्य
 क्की वज्रगज्ज प्रलो मृगनो ये मा०, 'वेगवर्तनि केडे किरांने त्त्वं किरि मा० ॥७॥ गातो
 मीत मुग्ग वज्जाटतो वीणने मा०, लेड बाल्यो गज्जराज ते प्रद्योतन कने मा० ॥ वांध्यो
 पायानपंत भवंन ते ऊरुंधो मा०, मज्जग अक्की गुण गग वध्यो तय जूपनो मा० ॥ १० ॥
 मूग्ग विण वर माग मालवपनि क्केद ह्मी मा०, दग्गी बुद्धि भनूप थयो हुं अति मुदी
 मा० ॥ मज्जग केंद्रे भंमार ए वर धीजो थंयां मा०, उद्यन विण प्रस्ताय लही म्मी लेड ग

१. दाथो. २. वज्जेज्जता गता संतादिकनो एव उद्यन क्कुर. ३. दाथी. ॥ इयाणी ऊपर ॥ वेगवनी

दागणीनी गुंउ.

यो मा०॥१॥ एहंवे प्रवंतीमांही अनल प्रय ऊपन्यो मा०, प्रतिदिन बाले गेद ए अनरथ
नीपन्यो मा०॥ पूत्रयो अनयकुमार उपाय केहे वही मा०, अग्निनो औपथ अग्नि कह्यो ठे
ते सही मा०॥२॥ साहमी करयी अग्निमे अग्नि हुये यदा मा०, अन्नयनो वचन प्रमाण
यरी 'कीधी तदा मा०॥ उत्राणी ते भाग लागी नही तेदयी मा०, बुद्धि वखाणी राय वि
यो वर नेहथी मा०॥१३॥ मूक्या विण ते जाणी प्रंदार ते तब धख्यो मा०, त्रीजो वर तिले
गाय अन्नयकुमरे वख्यो मा० ॥ दैवप्ररूपे रोग अवंतीमें थयो मा०, पूत्रयो अन्नयकुमार
तियारे उतर लह्यो मा०॥१४॥ जे स्त्रीथी तुम नेत्र गले अथ त्रोकतां मा०, तेहने हाथे पिंन
देवारो बलि ठतां मा० ॥ राज्ञेये न्यी सातसे सवि जेळी करी मा०, मांडी जौवे दृष्टि
सहुथी फिरी फिरी मा० ॥ १५ ॥ अनमिप नयन विकार र्ह्यो नही केहनो मा०, चेडा
पुत्री ताम शिया नाम जेहनो मा०॥ सतीयोमें शिरदार वीरे जे मुखे कही मा०, अन
मिप नयनथी तेह आगज ऊज्जी रही मा० ॥१६॥ राजानी गज्जी दृष्टि ते रामा आगले
मा०, तय केहे ए बलिपिंन दिवो जइ 'जागले मा०॥ दीयो बलि ततकाल उपच्य सवि गयो
मा०, सतीयना शीपल प्रजावथी सहने सुग्य थयो मा० ॥१७॥ आग माग वर मुज मू

नया निण नूं ह्ये मा०, तव ते अन्नयकुमार विचार ते संज्ञये माण॥ श्रीजी दाल रसाल
ए चोत्रा उद्दहायनी मा०, कही त्रिनत्रिये जोय कडरडुम रासनी मा० ॥१७॥

॥ दोहा. ॥ कहे भजय बुदि कंठयी, मेजयी चित्त विचात्र ॥ चारे वरनुं सार ए,
कटुं ते सुणो नूयात्र ॥१॥ चय लडकायो चोकरुं, अग्निनीरु रथ ज्ञांजि ॥ भनल गजे
इडुं नहुं, शिपा उछेगे आज्ञ ॥२॥ तूं धेसे वांसे धर, अम उपर धरि ठत्र ॥ चयमें जइने
क्षीनीण, अग्निपाप एकत्र ॥३॥ चूयव शिर घृणी र्हो, वयण न वाड्यो जाय ॥ करजो
ही गुमर प्रते, हाग्यो दूं कहे राय ॥४॥ तव बोड्यो धीरज धरी, भजय कहे सुण भूया॥
धर्म उगाई तं करी, पकड्यो मुज धरी चूंप ॥५॥ त्रिनशासन मेजो कखो, लोपीने कुल
सात्र ॥ आज्ञ पवी ह्ये एह्यो, करयो नही भकाज ॥६॥ पिण मुज देख पटंतरो, त्रस
श्यो ते इक चार ॥ पिपा यती जोजे पारगुं, पकडूं वीजी चार ॥७॥ बांधी मुमके तुज
प्रते, वेतो ईरु प्रहार ॥ केई जानकं सहुं देखतां, तो हुं भनयकुमार ॥८॥ डीग्य करी मा
सी प्रते, नूयगुं करी सुधार ॥ गुज वेला साथी करी, चाड्यो निज आगार ॥९॥

॥ दाल ४ श्री. ॥ (वेडो नांजी. ए देदी.)

अन्नयकुमार पगिांगे पगिृत, मगयदेशमें आये ॥ पुत्रागमन सुणीने श्रेणिक, हर

रो साहसो जाये ॥ भचरिज देसो देसो र अचरिज देखो ॥ एहने पुण्यतणो नहो ले
 रो, भचरिज देसो रे ॥ लहो जदा जगमें सुविशयो अण ॥ तुमे ज्ञान नयनयी पेलो
 ॥ अण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ भन्नपकुमार निज तात लहीन, हरोखरित तव आये ॥ प्रण
 मी प्रेमे तात चरणे, विनय वचन संनदांवे ॥ अण ॥ २ ॥ तांत हृदय संगाये श्रीडी, उद्यं
 गे वेसाख्यो ॥ एता दिनो विरह तणो दुःख, कण एक मांडी यिसाख्यो ॥ अण ॥ ३ ॥ प्रादं
 धरयी अनपकुमरने, नगर प्रवेश करांवे ॥ श्रैलिक राजा अति मन हरये, नंदा तिम
 सुर पाये ॥ अण ॥ ४ ॥ नंदियेण मयादिक बांधय, आवी मिलिया येगे ॥ शेर सेनापति स
 चिर तरुल पिण, मिलया आंवे नेगे ॥ अण ॥ ५ ॥ दिन कंताइक विचमें गाडी, पूरव वात
 संनाले ॥ अनपकुमार बणजारा बंर, पोठ देइने चान्ने ॥ अण ॥ ६ ॥ पांच सात घोडा अति
 ताता, उंट ये चर भटालो ॥ विमत्र नाम बणजारा घइने, भाव्यो अति उजमालो ॥
 अण ॥ ७ ॥ आहो पादे करतो पोठे, गुण संनाली लेवं ॥ उज्जयिनीने चोके आवी, मेरा तंतु
 वेये ॥ अण ॥ ८ ॥ नुरने जेट देइने मिलीयो, विनय धकी मन व्यापे ॥ राय प्रसन्न अइ
 निज मंदिर, पाते स्थानक आये ॥ अण ॥ ९ ॥ मेरा तंतू तिहां आरोप्या, मालना गंज ते

१ बाजारबोपराजा पटोश चमिचरो द्या उराणे अन्नपबंध बणजारा नाम दे.

कीधा ॥ व्यापारीने देई क्रियाणां, वाम रोक तस लीधा ॥ अ० ॥ १० ॥ 'विकलेन्द्रिय एक
 नर निपजाव्यो, पाठ जणाची ठामे ॥ ते कहे हूं मालवनी महिपति, चंन्द्रप्रद्योतन नामे ॥
 अ० ॥ ११ ॥ ए सधला ठे अमचा सेवक, राणी सर्व अमारी, ॥ ह्य गय रथ पायक सनि
 अमचा, प्रजा प्रमुख निधि सारी ॥ अ० ॥ १२ ॥ तव ते वांधी मारे तेहने, रे मूरख अंधो
 ले ॥ ते राजा मालवनी महिपति, तूं गदिलो तूण तोले ॥ अ० ॥ १३ ॥ इम प्रतिनि करतो
 ते नगरे, सधले प्रथिन ते जाणयो ॥ एक दिवस संध्या समये तव, नेद करण चित्त आ
 एयो ॥ अ० ॥ १४ ॥ गणिका येने गुप्त जे आणी, इंद्राणी सम पोते ॥ ते पासे तव नृत्य
 करावे, चंन्द्रप्रद्योतन जोले ॥ अ० ॥ १५ ॥ देखी रूप ते गणिका केरो, चंन्द्रप्रद्योतन चूस्यो ॥
 दूती भेली यात करायी, लाहो द्यो आजूको ॥ अ० ॥ १६ ॥ तव ते वोःरी भ्रमे तो नाहू,
 खूप होय तो इहां थावे ॥ पिण भ्रम त्यामी कार्य विशेषे, जब ते वदिर जावे ॥ अ०
 ॥ १७ ॥ दूतीए जइ यात जणावी, चंन्द्रप्रद्योतन हरख्यो ॥ समय जोइने मरे येणो, अन्न
 यकुमारे निरख्यो ॥ अ० ॥ १८ ॥ रात्रि प्रहर जाते तस वांधी, ऊपर मार ते देने ॥ रथमें
 घाली खेडी चाड्या, मुखची शब्द कहे त ॥ अ० ॥ १९ ॥ चंन्द्रप्रद्योतन कहे हूं राजा, मुजने

ए लेइ जावे ॥ शेर सामंत सबि सज्ज पइनें, मूकायो वडवावे ॥अण॥१०॥ सहु को सांज
 ली चिंते मनमें, एह तो गहिलो बोले ॥ कपट तणो तो कोय न जाणे, कपटे सघला
 झूले ॥अण॥११॥ ग्राम ग्रामथी अथ पालटी, आव्या तुरत निज देशे ॥ श्रेणिकने चघा
 मणी पहेती, आव्या अजय सुवेवे ॥अण॥१२॥ अजयकुमर प्रद्योतनने तव, नातने पा
 य लगाडे ॥ वचन कछा माटे में तुजने, आणयो इणे आ खाडे ॥अण॥ १३ ॥ आज पवी
 कोइ राजा साथे, वैर म करशो जाई ॥ इम कही मालवपतिने वेगे, पदोचायो चित ला
 ई ॥अण॥१४॥ वैर विरोध सहूत्री जांज्या, अजये बुद्धि प्रकारे ॥ चोपी ढाल चोथ्रे उड्ढा
 से, कही जिन मति अनुसारे ॥अण॥१५॥

॥ दोहा. ॥ अजयकुमर वंजित फडयो, बुद्धियकी सुप्रमाण ॥ श्रेणिकनी चिंता
 टली, दिन दिन कोडि कडयाण ॥१॥ कहे नृप सांजल अजय तुं, तुज विण सहु मूजाय
 ॥ न्याय नीति करवी पडे, पिण ते किणही न धाय ॥ २ ॥ सेचन गज नूद्यो हतो, पाड्यां
 धरने हाट ॥ वाट विगाडी नगरनी, अमने अयो उचाट ॥३॥ पिण धन्नोशाद नेहने, आ
 व्या आपणे काम ॥ हाथी पकडी वांधीयो, मोटी राखी माम ॥ ४ ॥ काणाथी ऊजडो
 पड्यो, गौजइशेठने देय ॥ न्याय कियो नरपति परे, उग टाडयो ततलेव ॥५॥ बीजां प

ए बुद्धि करी, काम समायां कोउ ॥ अर कोइ धारे नही, जोतां एहनी जोड ॥ ६ ॥
 साहसिक सुकुतीन ए, आर्यवंत सरार ॥ जुजावले सुख जोगे, दिन दिन चडते नर
 ॥ ४ ॥ तात यगण सुणी अनय तय, प्रति धरे प्रति पूर्ण ॥ एक रंग तांबूजमं, जिम का
 आविक नूर्ण ॥ ७ ॥ अद निशि तय र्हे एकठा, धरने अनयकुमार ॥ प्रीति वधी प्रेमे
 करी, सुख बिलसे श्रीकार ॥ ८ ॥

॥ दाल ॥ सी. ॥ (जीतल जिन सुरंगा. ए देखी.)

एहे धनाना चाडि, करे ग्रामतणी वहुगइरे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम विच धारो
 ॥ जिम जगमं मुजश यथारोरे ॥ सुगुणा ॥ न्याय धरम विच धारो ॥ लोक जणी सं
 तापे, लोने करे अरुने शारेरे ॥ सुगुणान्य. ०॥ १ ॥ ए भांकली ॥ जिम शनिनी दृष्टे न्या,
 नवि धारो अति उल्कारा रे ॥ सुगुण ॥ तिम ते ग्रामाधिप थाते. उर्जद थयो सवि वातेरे ॥
 सुगुण २ ॥ लोक गया सवि ज्ञांजी, हाथे नरदी कांड वाजी रे ॥ सुगुण ॥ तृण धान्यात्रिकने
 अनाने, गज अश्यादिक मरी जांचे रे ॥ सुगुण ३ ॥ एहेवे अगनि प्रयोग ते दीगो, थयो ते
 हेने अतिदि अनीगोरे ॥ सुगुण ॥ नृपे पिण दंकी लीधा, अन्याय जिवारे कीधारे ॥ सुगुण ॥
 ॥ ४ ॥ चोरे पिण तिम संताप्या, दुःख पाग्या देव सराप्या रे ॥ सुगुण ॥ ताततणो धन लेवे,

पिण पावो कदिय न देवे ॥ सु०॥१॥ इम करंत तेह घाग, बघदेशे शकी तय नाग रे ॥ सु०॥ त्रिणये मानयमें भांवे, कृपिकर्म करे यडदेवे रे ॥ सु०॥६॥ बीज ज्ञात बलद हल लेवे, भनुचरने पिण धन देवे रे ॥ सु० ॥ कर्मबशे तस श्रांवे, वृपचादिक पशु मरी जावे रे ॥ सु०॥३॥ तीड गयां कण खाई, न धई तस पेट जगई रे ॥ सु०॥ तय ते पोठी बाहे, जई मगंधे चित्त नुमादे रे ॥ सु०॥७॥ अन्य दिवस घडं लीधां, नरी पोठयो चाड्या घरी सीधा रे ॥ सु०॥ राजगृहीमं श्रांवे, पोठयो सवि चहुटे गवे रे ॥ सु०॥९॥ 'पाड जियारे जेवे, तव मूलगी 'नीमी खेवे रे ॥ सु०॥ जागय ते आगल चाले, तेहनो डुःख कहो कु ण टाले रे ॥ सु०॥१०॥ यतः ॥ पडिवत्रो गिरयातणो, पावीजे निरवाण ॥ तुमे देदांतर चाजिया, अममे आगेयान ॥ १ ॥ जावार्थः—जेम महोटा माणसने हाथ जे चने, तेने ते नकी पालेज. तेम इहां जागय कहे ठेके, (अमने तमे मड्या ठो, तो अमे पण तमने वोडीशुं नही.) जो तमे देदांतर जशो, तो त्यां पण अमे आगेयान थइ साथे आयीशुं. ॥ १ ॥ सीत तापादिक सेवे, उजंजा देवने देवे रे ॥ सु० ॥ धान्यना ढगला कीधा, त त्रि

१ जाय. २ अर्थां पुरी अर्थान् राजगृहीनां आवीने नृप. ना पउंनो नार अर्थे दोगे एतले अर्थां पुरी तो नापसांत्र प्रती गरी !

एये तिहां रत्ना सीधारे ॥ सु० ॥ १ ॥ एह्ये घनोगाह, मन घरतो अतिदि वमाहरे ॥ सु०
 ॥ राजसन्नाथी ऊले, घणो परिकर चांने पंते रे ॥ सु० ॥ १२ ॥ अट तिहां आगल चाले,
 कंवाथी लोकने पाले रे ॥ सु० ॥ घनवत्ताधिक जेह, चहुटा विने वेग तेह रे ॥ सु०
 ॥ १३ ॥ कंवा देर तस ऊगाडे, पग पाटुए करीने पाडे रे ॥ सु० ॥ गुणयो पिण वली उप
 टाये, राजमार्ग विधे समराये रे ॥ सु० ॥ १४ ॥ आयास करंता दीग, घने निज बांधव धी
 ठारे ॥ सु० ॥ चित्ते इहां ए किम आब्या, बणजारा नाम धराब्या रे ॥ सु० ॥ १५ ॥ गाम
 ने ह्य गय बीघा, ते किल नृपे पाडी लीघा रे ॥ सु० ॥ केगो ए किम डःख पांचे, मुज
 बांधव निगुण स्वभाये रे ॥ सु० ॥ १६ ॥ इम चित्तीने तेडाब्या, तय ते पिण दोडी आब्या रे
 ॥ सु० ॥ निज मंदिर तेढी जाये, बत्तादिक गुज पहिराये रे ॥ सु० ॥ १७ ॥ द्यस्य करीने
 पूंये, निर्धनतुं कारण गुंठे रे ॥ सु० ॥ तय तेण ह्वय विमास्ती, तस सघली यात प्रकास्ती
 रे ॥ सु० ॥ १८ ॥ तुमे बीघो अम धन जेद, पिण पासे न रक्षो तेह रे ॥ सु० ॥ दरिद्रपणो
 रक्षो साये, असे भावखो दाधो हाये रे ॥ सु० ॥ १९ ॥ कोई तुमने दोप न देवो, पोतानो
 लेदणो देवो रे ॥ सु० ॥ मात पिताने दारा, कोठांधी मंदि उदारा रे ॥ सु० ॥ २० ॥ असे

इहां पोण्यो खेहुं, हाथे सवि काज निवेहुं रे ॥ सु० ॥ इह चोथे उड्हासे दाखी, टाल पां
चमी जिने इम ज्ञाखी रे ॥ सु० ॥ २ ॥

॥ दोहा. ॥ तव धम्मो कहे व्रतने, रहो ते माहरे पास ॥ खावो पीवो खांतिहुं,
विलसो लील विलास ॥ १ ॥ ते कहे तुम हेठे श्रमे, रदेनां लहायि लाज ॥ सूर्य शुक्र गृह
मां गये, नीच कहे कविराज ॥ २ ॥ तव धेने बांधव प्रते, चौव चौव धन कोडि ॥ दीधी मन
बोलत करी, कुण करे एहनी तोडि ॥ ३ ॥ देखो तस दुर्जनपणो, धन्नानो तिम नेह ॥ अ
णतोढ्यां आवी मिढ्यां, सहज मुज्जावे एह ॥ ४ ॥ यतः ॥ अनुपुव्वुत्तमम् ॥ सज्जनाः स
ज्जना एव, दुर्ज्जना एव दुर्ज्जनाः ॥ नोआः सुधांगुचिकिणां, न शीतास्तिग्मरोपि च ॥ १ ॥
आचार्यः—सज्जन ते सज्जनज रहे अने दुर्जन ते दुर्जनज रहे. जेम चंजमानां किरणो कदि
पण गरम पतां नथी, तेम सूर्यनां किरणो शीतल पतां नथी ॥ १ ॥ चाढ्या कोशंवी जणी,
पन लेईने जाम ॥ धनरक्कक तव देवता, मारे मुजर ताम ॥ ५ ॥ बोले प्रगट थई मुखे,
हज्जीप न लागी लाज ॥ जन्मथकी जोयो नही, करतां काज अकाज ॥ ६ ॥ धन सवि
धम्मा चाग्यथी, थावी मिढ्यो ठे पत्र ॥ तटनी नीर सचे सदा, जलनिधिमें एकत्र ॥ ७ ॥
॥ बाल इ ङी. ॥ (जट्टीयाणीना गीतनी देडी.)

तव ते वचन सुणीनि हो धनदनादिक त्रिगये तिहां, आलोचने मनसांहि ॥ मापणने
 वली जाग्ये हो धन अर्जन इहां आयो नथी, खोटी होंदा ही त्यांहि ॥ तवणा ॥ १ ॥ ए भां
 कली ॥ एटला दिन भायासं हो सुप्रकासे धन आगम नही, न रत्नो मूलगो गेद ॥ वां
 घयथी पिण पाम्यो हो धन याम्यो एह विलोक्तां, पुण्य विना नर वेद ॥ तवणा ॥ २ ॥ इम
 चिंती मन गंतं हो निःव्रंत पोठी वालीया, धनथी जख्या हुता जेह ॥ घत्राने सवि सांपे
 हो नयिकांपे मन वच कायथी, वात कहे सवि तेह ॥ तवणा ॥ ३ ॥ एटला दिन ह्य राग्यो
 हो नवि प्रांब्यो गुण कोर ताहरो, ते अमचो अपराय ॥ तूं अम सहुथी लेंहुडो हो गुण
 दोहो दीवो हे जथो, गुण निधि जलथी अगाथ ॥ तवणा ॥ ४ ॥ अम कुल भंवर दीवो हो चिं
 रंजीवो तेज प्रतापथी, अमे तुं गज्यूआ सरूप ॥ तूं अम प्रीते पालक हो दुःखटाजक
 सकल कुंडुवनो, अमे तो 'डुमक सरूप ॥ तवणा ॥ ५ ॥ घणुं घणुं डूं कद्रिये हो निरग्रहिये
 अमने आजथो, जाणी वांथव प्रेम ॥ ए धन जे तुमे दीवो हो नवि लीवो जाण अम अ
 की, जिम कायरथी नेम ॥ तवणा ॥ ६ ॥ एहना जे अधिष्ठाता हो मय माता ते ताहरे वडो,
 अम वडा कहे किम आय ॥ जिम निज हाथे परणी हो गर तरुणी वांडी कंतने, अन्य

गृहे नवि जाय ॥तय॥३॥ तय धेने सनमानी हो बहुमाने वांधव राखीया, थाप समा करी त्यांहि ॥ मात पिता जोजाई हो तेडाव्यां अति आदर करी, मकी सेवक त्यांहि ॥ ॥तय॥ ॥७॥ यतः ॥ अनुष्टुप्चुत्तम् ॥ माता तीर्थं पिता तीर्थं, तिर्थं च ज्येष्ठवांधवाः ॥ यास्यं यास्ये गुरुस्तिर्थं, सर्वं तीर्थं जनार्दनः ॥१॥ ज्ञावार्थः—माता पिता अने महोटो ज्ञाई, ए सर्वं तीर्थरूपेण तेमज इरेक वचन बोलयामां गुरु तीर्थं ठे अने परमेश्वर ए सर्वं तीर्थं ठे ॥२॥ सुंदर मंदिर आप्यां हो दुःख काप्यां मात पितातणां, जाईनी करी ज्ञीरा ॥ खाये पीवे खेले हो अति गेले नव नव नेहथी, जिम संहकारे कीर ॥त० ॥७॥ प्रहसमे नित प्रणमे हो घणुं विनये मात पिता प्रते, युगते जिनवर सेव ॥ पात्र संयोगे रंग हो प्रतिलात्रे जाय धरी घणो, धर्म करणनी देव ॥तव० ॥१०॥ एहचे तिहां कणे भाव्या हो मन जाव्या चौविह संघने, विचरंता त्रूपीठ ॥ धर्मधोय इशे नामे हो पुण्यकामे सुरतरु सारिखा, सयल गुणे सुविसिद्ध ॥ एहचेण॥१॥ ए अंक्कणी ॥ वंदणने तिहां धाया हो मि लि धाया प्रियण जावशुं, वेग जोई गम ॥ धनसारे पिण जाणी हो गुरु वाणी सां जलगा प्रते, घेर उयम हित काम ॥एहचेण॥१२॥ चारे पुत्र संघाते हो जली जाते वधि

तांन तिरां, गदुअर सधत्ती माध ॥ मादंवरधी पांय हो जल ज्ञान गुरु चरणामुग, कह
 जोडी ह्यथ ॥ अहंवेण ॥ १३ ॥ थिर चित महुनो ज्ञानी हो गुणखाली गुरु किये देयाना, कह
 तजो पंच प्रमाद ॥ उक्तायने चित थारां हो तुमे थारां हिंसा तेहनी, तेहो जीज सयाव ॥
 ॥ अहंवेण ॥ १४ ॥ चार कथायेन जोपां हो जिम वीपां श्री जिनधर्ममें, पांको प्रयचन मात ॥
 पंपाथय तुमे थारां हो बलि थारां दशनिध धर्मने, तिम टालो जय सात ॥ अहंवेण ॥ १५ ॥
 बलीया जो अति थारु हो तो धारु शिवमेंधिर जणी, पंच महाव्रत लेय ॥ तप जप
 मंयम करणी हो अति सुखनी तरणी एद ठे, चिकरण शुद्ध केंय ॥ अहंवेण ॥ १६ ॥ थायक
 धर्म मंचालो हो षजु थालो ठादश जेदथी, थाणी मन उजमाल ॥ जोथे उब्हासे गोये
 हो मन जोय वही दालमें, जिन डम वचन रसात ॥ अहंवेण ॥ १७ ॥

॥ दोश ॥ देयाना सांजली विल उख्ये, धन धन कहे धनसार ॥ मानव जयनो
 भाज में, लान ललो सुप्रकार ॥ ? ॥ प्रमुक्ति थई पूंठ तदा, विहुं करजोडी शेठ ॥ कया
 कमी प्रमुज्जी कहो, पूंठ जयांतर ठेठ ॥ ७ ॥ धम्र डा। करली कर्मी, जिले करी पाम्यो क
 ङि ॥ दुःख नयि वीठा वेदधी, पद पद सकल समुंढि ॥ ३ ॥ त्रिपय मोटा सुत साहसी,
 धनदचादिक जेद ॥ पामी पामी हागंय, डं करमें दुःख तेह ॥ ४ ॥ डाखिचड जगिनी

नती, मती मुनश्च सार ॥ दो करमे माटी बही, दुःख सह्यां विविध प्रकार ॥५॥ एह
संदेह तणा इहां, ज्ञानतले आधार ॥ चिवराने कहो वेगथी, सयल संबंध विचार ॥६॥

॥ ताल ३ मी. ॥ (गांति जिलसर केसर अर्धित जगधली रे. ए. देसी.)

कहे मुनियार गुणां देव पूरा नव वारतां र पूरवण, पुरपइवाण सुवाण जिहां वा
से दता रे त्रिण ॥ तिल नगर एक नारि कात्थायन दुर्बली रे काण, करे पर घरनां काज
पीमल संमल बती रे पाणार ॥ दलनांन तस पुत्र सुपुत्र बखाणीयो रे सुण, तात विना
जे जात दुःखी महा जालीयो रे दुण ॥ चार गायना वछ जेला करी चोकमां रे नेण ॥ पेट
जराई मात्र हुवे ते लोकमां रे हुण ॥ एक दिन परव विशेष भशयथी देवीयो रे अण,
पर पर खीरने खांड घृतादिक पखीयो रे घृण ॥ आवी ततकल गेद माता पालव ग्रह
रे माण, ये मुज परिधत खीर इशुं मुग्यथी कहे रे इणार ॥ मात कहे जरपूर न कृकत
संपजे रे नण, तो ते खीरने खांड कहे केम नीपजे रे कण ॥ हठ नचि ठंने वाल रंड तव
मागडी रे रण, देवे भयस्था एम दीधी किम मागडी रे दीणार ॥ यतः ॥ अनुपुत्रवृत्तम्. ॥
बालको र दुर्जन र भोगे ३, वैयो ५ विप्राश्च ५ पुत्रिकाः ६ ॥ अर्थी ८ नृपो ८ इतिथी ए

चन्द्रया १०, न विदुः गच्छतां इत्यां ॥१॥ ज्ञानार्थः-याज्ञक, बुद्धि, चोद, नैय, ब्राह्मण, पुत्री,
 भर्षी, गजा, यतिप्रिय (ब्राह्मणा) अने चन्द्रया, ए सर्वे मरुती हास्रतेने ममजता नथी.
 अश्यांन ए सर्वे पानाना दुःखनी पंत पाग्धा दुःखने ज्ञानता नथी. ॥ ? ॥ माता पुत्रने
 माध्र पंली गेली अहीरे ३०, चार पांडांदाणा ताम आनी कहे डम बकी रे आणा तू रो
 रे टा मांटे मंचे छिम दीकरां रे ग०, दुःखनी जे होय बाल ते भ्रम आगल करे रे तेणा
 ॥१॥ तत्र निर्ण पुत्रनी बाल मंची मांडी कही रे म०॥ मांचनी कहे परमाध मांदि शू ने
 महीरे मां०॥ चार पांडांदाण तत्र मामथी ततकले रे मा०, आणी आपी तास घरी ऊत्त
 ट पले रे थ०॥ ६ ॥ माताये नय ग्रीर नीपाड जगथी रे नी०, बेमाडी निज पुत्र पिरसे
 अति जगथीरे रि०॥ कोडक काय विडोय माता घमं गड रे मा०, पुणयोदयथी दान त
 णी मति तग प्रडे रे त०॥१॥ एद्वेय तपथी एरु मुखं मंजालतो रे मु०, फिरतो आहा
 मने कात्र नमर परे माततो रे ज०॥ मामनमणने पारणे चारणे आवीयो रे था०, देखी
 न तत्र इय तणे मन नानीयो रे त०॥६ ॥ पाल जरी हती ग्रीर मंचे आये मुदा रे स०,
 मातुना बंदी पाय बंका स्थानक तदा रे थ०॥ आनी देखे मात ते घाली चाटतो रे त०,
 पिरमं मातनी ग्रीर निते मंचे काटतो रे नि०॥ १॥ वचन उक्तेथी तास उदर गंग ऊप

न्यां रे ३०, मरण समय मध्यरात्रि सुस्थाने नीपन्यां रे सु०॥ ते चवि दान प्रनाय एधत्रो
 सुत लदे रे ए०, तुज कुलनो शिणगार सकसन निरवह रे स०॥ १०॥ चारे कीधो योग
 क्षीगाम तणो तथा रे द्ही०, चारे बली परसंश करी तेहनी मुद्गारे क०॥ इमते आठे नारि
 धीगो मुनि गहोरतो रे दी०, चिते धन धन एह दिंय मुनिने ठतो रे दि०॥ ११॥ सायु प्रसं
 सा योगे उजम कुल ऊपनी रे ३०, ते ए आठे नारि धनानी नीपनी रे ध०॥ जेह मुज्जडा
 दुःख लही ते सांजलो र ल०, सरस करो निज चित्त तलो मन आमलो रे त०॥ १२॥ पूं
 जेव इले रोप वसे मखीने कलो रे व०, वंहे माटी रे दास पोते धनमद बहो रे पो० ॥
 ते कर्म इले शीश घकी माटी वरी रे ध०, हसतां वांधे कर्म रोतां नूटे नही
 रे रो० ॥ १३ ॥ यतः ॥ जाति लोन कुंलेश्वर्य, धंजं रूपं तपः श्रुति ॥ कुर्वन्नष्टौ मदान्यु
 तां, हीनानि लभते जनः ॥ १४ ॥ ज्ञावार्थः—जाति, लाज, कुल, ठकुराई, बल, रूप, तप
 धने विद्या, ए आठनो मद करनारो माणस; ए आठ हीणां पामे वे. ॥ १५ ॥ ए संसारभे
 जीय भिज्याल्य गुणे कगी रे मि०, जन्म जगने मृत्यु लहे ते फिरी फिरी रे ल० ॥ पामी
 सवगुरु योग दानादिक अन्धे रे दा०, धनानी परे तेह बंठित लीजा चरे रे वं०
 ॥ १६ ॥ परगंशा पिल पुण्य पदारथ वही मरी रे प०, देवो ने परतक आठे गह मुंदरी रे

श्राण ॥ चोत्रे छट्दशसे शाल कही ए सातमी रे कण, जिनविजये मन रंग श्रोता मनमें
गमी रे श्राण ॥ १५ ॥

॥ दोश ॥ हवे घनदत्तादिक तयो, पूर्य जय भधिकार ॥ सदगुरु कहे शुन चिन
श्री, सांजल रे धनसार ॥ १ ॥

॥ द्वात्र ऽ मी. ॥ (नमो नमो मनक महामुनि. ए देशी.)

मुनिपति कहे तुभे सांजलो, पूर्य जय विरतंतो रे ॥ ग्राम सुग्राम नामे जलो, क
द्वि समृद्धिओ कंतो रे ॥ मुनिपतिण ॥ १ ॥ ए श्रां कणी ॥ तिहां कठियारा विण्य रवे, घन ही
णा मति धीग रे ॥ संदने भासन ठे तेहनां, मित्राइ गुणे ते मीग रे ॥ मुण ॥ २ ॥ एक
दिन काष्ठ लेया प्रते, ग्रहीने संवल साथे रे ॥ पोहल्या वनमें पढवडा, लेइ कुगर ते हाथे
रे ॥ मुण ॥ ३ ॥ मध्यनिने जोजन समे, वेग नोजन कामे रे ॥ मासखमण पारण यति, क
मासागर इशे नामे रे ॥ मुण ॥ ४ ॥ दीग दूरधी आयता, सन्मुल जइने वंदे रे ॥ संवल स
घलो शुन मने, भापे मन श्राणदे रे ॥ मुण ॥ ५ ॥ सुलनवोधी श्रावक कुले, काजवोति
हां बांध्यो रे ॥ काष्ठ ग्रही संध्या समे, आठ्या प्रसन न लाध्यो रे ॥ मुण ॥ ६ ॥ एटले रोये

एम रडे, शानतनां पत्र बाज रे ॥ तुर्ये कुस पाण्या इरा, दण्ड गा इयो मीत्रां रे ॥
 ॥मु०॥ एम निरा ते शानतो, चार वेला निले दीधी रे ॥ पद्यानाय नयोग्या, स्वदा
 पने एद सीधी रे ॥मु०॥ ते चरि अनुक्रमे नाहरा, पुत्र दया विषय एदो रे ॥ चार
 वरा कुरा अनुत्तयो, पररहन गुण तेषां रे ॥मु०॥ सांजडा धनदन प्रमुग्गता, पूग्ग
 तत्र श्रुदिसां रे ॥ पराग मन वार्षां, वृज्या तत्र वननां रे ॥मु०॥ चिने एद
 संसारनां, धराने शेष न नां रे ॥ संतारिक मुग्ग कारनां, विरममं केवती वेले रे ॥
 ॥मु०॥ संपन लेवो माररे, इम मनमां जात्रोचरे ॥ द्रायु इधिर ए आयलो, जाणी
 पई कुण रेषे रे ॥मु० ॥ ३॥ मुनि बांधी मंदिर गयो, परिकर युत धनमार रे ॥ दीक्षा
 लेखने तस, पृष्टयो मधि परिचार रे ॥मु०॥ ३॥ शीत्रवती विष सज्ज धई, वज्रजादिक
 तम रे ॥ शिरोपे पुत्र संपनजली, धरता धर्मगुप्तेन रे ॥मु०॥ ५॥ उड्डव करी यत्रे तदा, सं
 एम गुररे देसायो रे ॥ मरु कहे एन्य धनमारते, सुररे धानम ताग्यो रे ॥मु० ॥ १५॥
 एमे धारक इव पलां, द्राग विषा दुत योने रे ॥ शिरग्यो विगव विदोःश्री, रुडी श्रानम
 रे रे ॥मु० ॥ १६॥ एत्रोःनाह पर द्रापीषा, परिकृत मधि परिवारो रे ॥ मुग्ग विग्गे मं
 साणो, धर्मावर मर द्रवनागे रे ॥मु०॥ १७॥ दीक्षा कंडे तेहने, शीखोःमय आचारो रे ॥

धनसागविक साध लेइ, मुनियरकर विहारो रे ॥ मु० ॥ १० ॥ चारित्र पाली शुच मन, त्रिणये
 मुत युत तेहो रे ॥ देवलोक जइ ऊपन्या, देवपणे गुण गेहो रे ॥ मु० ॥ ११ ॥ एक जये दिय
 सुव संधे, जेहे ते निरधारो रो ॥ चोथे उब्दसे थावमी, ढाल कही जिन सारो रे ॥ मु० ॥ १२ ॥
 ॥ दोहा ॥ अथ श्रोता जन सांजलो, आतिजइ मुचरित्र ॥ देवलोक सुख नरज
 ने, जोगये दुएय पत्रि ॥ १ ॥ इणे अयसर नेपालथी, सोदागर सुवियेक ॥ रत्नकंबल लेइ
 करी, आढ्या मगध सुवेक ॥ २ ॥ ग्रामागर फिरतां धकां, राजगृहीमें रंग ॥ वेखाडे चहुटे
 डुरस, रत्नकंबलनां नंग ॥ ३ ॥ जेये सहुको यतनहुं, रत्नकंबलनां रूप ॥ पूरे मूल तस प
 गढो, चिनमें राखी चूप ॥ ४ ॥ व्यापारी कहे वयणथी, सयालाख सुयणो ॥ एकतलो
 ए मूल ने, सांजलजो धरि कर्ण ॥ ६ ॥ मूल मुणीने डोगिया, सहुको स्थानक जाय ॥
 व्यापारी कंबल गद्दी, जेढ्या श्रेणिक राय ॥ ५ ॥

॥ ढाल ए मी. ॥ (धारा महोलां ऊपर मेह, ऊगले बीजली हो लाल. ए देसी)

तय श्रेणिक नर राय बोलाये तेहेने हो लाल बोण, किहांथी थाव्या डोग ने सुख
 तुम बेहने हो लाल ठेण ॥ तय बोड्या ते शाह अमे नेपालथी हो लाल अण, भाव्या इहां
 व्यापार करण जूपाजथी हो लाल कण ॥ १ ॥ ताच्या कंबल सोल अमृदय भंजालता हो

लाल भ०, भाव्या तुम परसाद मगधमें माझता हो लाल म०॥ देखो स्वामी वस्तु सु
 वस्तु सुनायधी हो लाल सु०, अगनिमें नांखे मेल तजे एह दावधी हो लाल त० ॥ २ ॥
 मूत्र सयालय दाम एकैका बखना हो लाल ए०, नृप कहे अमे आसक्त अमूलिक शस्त्र
 ना हो लाल अ० ॥ गत्र अश्वदिक काज अमे धन वाचरुं हो लाल भ०, लाख
 गेमे धन देय कंबलने शुं करुं हो लाल कं० ॥ ३ ॥ तव ते मूकी निसास ऊठीने
 चालीया हो लाल ऊ०, शालिकुमर आवास समीपे मालीया हो लाल स० ॥ कहे
 अन्योन्ये एम आपण सवि पांतत्या हो लाल आ०, देई दाम केइ लक्ष कंबल पासे धर्यां
 हो लाल कं० ४ ॥ राजगृहीमें एक खप्यो नही कंबलो हो लाल ख०, कही कुण नगरने
 गाम होशे एहथ्री जलो हो लाल हो०॥ नज्ञये ते वात गवाके सांजली हो लाल ग०, वो
 लाव्याते ताम व्यापारी कहे वली हो लाल व्या०॥५॥ नृप सरिखे कख्यो लोन थोन्नाणो
 देखिने हो लाल थो०, तुमे पिण विफल प्रयास करावशो पेखिने हो लाल क०॥ नज्ञ
 कहे अहो व्रात! कंबलवे केटलां हो लाल कं०, ते कहे सोल प्रमाण अमे लाव्या जलां
 हो लाल अ०॥ ६ ॥ माहरे बहु वत्रीश संच गुण शोनती हो लाल स०, आपुं कहेने वख
 टाखुं कहेने वती हो लाल टा०॥ साये जो वत्रीश तो सघलां राखीए हो लाल स०. लाल

सहित तस मूढ्य विचारी जांग्वीए हो लाल वि०॥७॥ तय बोड्या कहे मात कंचल अधि
को नथी हो लाल कं०, जिम जायो तिम कार्य करो एह मांढधी हो लाल क०॥ वीश
लाग्न धन पूर्ण देयारो अम प्रते हो लाल दे०, सोलतणां वत्रीश करी यो वयु प्रते हो लाल
क०॥७॥ सुणि ज्ञवायेवेग चंनारी बोलाविया हो लाल जं०, ते यिण धनद सरूप चडांपि
भावीया हो लाल जण॥ कहे वीशलाग्न वीनार वीयो धन एहने हो लाल वी०, तय ते
लही आवेदा गया लेइ तेहने हो लाल ग०॥७॥ उघाडे जंनार वेले तय वाणिया हो लाल
दे०, रूप्य मुखर्णना पाट हयद परे जाणीया हो लाल दे० ॥ मोतीना केइ माट लस
शिपा खुण लीये हो लाल ल०, पानानो नही पार हीग न गुणे दीये हो लाल ही०
॥१०॥ मणि माणिकनो मेल कखो न हुवे कवा हो लाल क०, विडुम विचिध प्रकार अ
पार देखे तदा हो लाल अ०॥ यंजाणा तय तेह विचारे चिचमें हो लाल वि०, ए प्रत्यक
देवेइ धनव सम चिचमां हो लाल घ०॥१॥ गणि आपे धन सर्व लेखो करिने मुदा हो
लाल ले०, व्यापारी लेइ वाम आव्या धानके तदा हो लाल आ० ॥ करे अन्योन्ये वात
विचन देखो वता हो लाल वि०, नृपने इच्यमें रुदि अंतर घणो पेलतां हो लाल अं०
॥११॥ भंवरधी धनराशि उत्तरती जेहने हो लाल ऊ०, मणि मुक्ताफल एम न दीगं

तेरने हो लाल न०॥ चोप्रेउब्हासे ढाल नौमी मन जावती हो लाल नौ०, जिनविज ये कही एह आणंद उपावती हो लाल आणा॥३॥

॥ बोहा. ॥ एहेचे राणी चेलणा, सुण कंवज निरतंत ॥ होंश थकी वेगी हवे, आ णी यो मुज कंत ॥ १ ॥ राजा कहे राणी सुणो, कंवजनो शो काज ॥ धनथी सेना बल करी, राखीजे निज राज ॥ २ ॥ राजाने बहून तुरी, केगज के वलि शल्व ॥ कंवलथी संवज नही, निष्कारण ए वल्व ॥ ३ ॥ कहे राणी कंवज यिना, न लिनं श्रवने पान ॥ होंश न पहेंचे एटली, तो शो तुमचो मान ॥ ४ ॥ तय राजाये तेडिया, ते व्यापारी ता म ॥ आदरथी ते आविया, वेवा करी प्रणाम ॥ ५ ॥ कंवज यो राजा कहे, एक प्रियाने काज ॥ सवालाव धन सामटो, देवरावीशुं आज ॥ ६ ॥ बोड्याचे करजोडिने, सुणो नृ प सुणुण समृद्ध ॥ सोले कंवज सामटां, नश जामिनी लीध ॥ ७ ॥ वीशजाल धन विवि घ परे, एक मूठ गणि वीध ॥ भंगज इं३ समो श्रेठे, शालिनइ सुप्रसिद्ध ॥ ८ ॥ सोले कं वलनो बली, खप ठे थहो महाराज ॥ ते कारण श्रमे चात्रशुं, नेपालय चणी आज्ञा॥ ९ ॥

॥ ढाल १० मी. ॥ (ए र्डीडी किहां राखी. ए देशी.)

सांचली श्रेणिक भूपति चित्ते, मुज. समं श्रयर न कोई ॥ मादरी उत्र जायाये

मानय, सुलोया ते सहु कोई रे ॥ नविका, पुण्यतपां फल पेखो ॥ पुण्यं वांछत सकल
 फले सधि, हृदय मिमासी देखो रे ॥ न० ११ ॥ ए श्रांकर्या ॥ सामंतने मूक्यो ज्ञज्ञा घा,
 रत्नकंचल इक भायो ॥ सवालाल धन तेहनो पूर्वे लेई घट्ये थापो रे ॥ न० १२ ॥ सामंते
 सधि यात प्रकाशी, तय कहे ज्ञज्ञा एम ॥ कंचलनो व्यापार करेया, अमने तो ठे नेम रे
 ॥ न० १३ ॥ रत्नकंचलमें अचरिज दोवे, अमने नृपयो आम ॥ नृपने नाम ज्ञानी नांछु,
 ए घनने ए धाम रे ॥ न० १४ ॥ पिण एक मागी वीनति नृपने, वीनवज्रो करजोडी ॥
 रत्नकंचल में सोलना कीया, खंरु घत्री सवि जोडी रे ॥ न० १५ ॥ बहु धत्रीशेन वेदनी
 दीया, पिण तेदने मन नाव्या ॥ शूंकंचल करीए ए पेहरी, इम कही जूमि जिताव्यारे
 ॥ न० १६ ॥ स्नान करी तेणे पग लूही, नांख्या जलने खाले ॥ जो मुज वयणनो प्रत्यय
 नाये, तो जोयो परनाले रे ॥ न० १७ ॥ अर काज फरमावशो जे कोइ, ते करशु शिर
 नामी ॥ वस्त्राचरण थकी संतोशी, मूक्यो वंइ सजामी रे ॥ न० १८ ॥ यात सर्व नृपन तेणे
 थायी, धिगतेशुं समजावे ॥ सांचली नृप मन विस्मय पाव्यो, अत्रय प्रते तेढावे रे ॥
 न० १९ ॥ जज्ञने मंदिरे तुमें जज्ञने, शालिकुमर बोलायो ॥ गीचज्ञेशठ तणो ए अंगज,
 अम खंगे तेही भायो रे ॥ न० २० ॥ अत्रयकुमर ततरुण ज्ञज्ञा घरे, तात वयणधी

श्यां च ॥ देवी जज्ञा हर्षं धरिनि, मोतीय धाल वयोचरे ॥ ज्ञ० ॥ ११ ॥ वन्य वेला धन्य दिव
स प्रमो, भांगलेडे तुमं भाया ॥ कायोंदश हुच ते दाखो, स्वामी करी सुपसाया रे ॥ न०
॥ १२ ॥ तातजी शाळिकुमरने मिलवा, अन्नप कहे तिहां तेडे ॥ ते ज्ञणी शाळिकुमरने
सांप्रति, मूशो मादरी केडे रे ॥ ज्ञ० ॥ १३ ॥ तव जज्ञा बहु जेटलो लेई, अन्नपकुमरनी
साथे ॥ भावी नृपने नर्मनिं इणिपरे, भरज करे विहुं हाथे रे ॥ न० ॥ १४ ॥ चंड सूर्य ऊ
यो नयि जाले, नयि जाले दिन रात ॥ गमनागमन व्यापारादिक तिन्न, नयि जाले मु
ज जाते रे ॥ न० ॥ १५ ॥ धालपणाधी लाडकवायो, निश्चित सयली वोते ॥ पूर्व स्नेहयो
देर घईने, सुखीयां कीयां ताते रे ॥ न० ॥ १६ ॥ ते मांटे करुणा करी साहिव, मंदिर आयो
भाज ॥ शाळिकुमर तुम चाले नमसे, अमची वधारो लाज रे ॥ न० ॥ १७ ॥ राजा सां
जनी मनसं हरख्यो, जज्ञा वचनथी ताम ॥ शाळिकुमरने मिलवा तत्पर, उद्यक थयो
गुणधाम रे ॥ न० ॥ १८ ॥ नृप श्रादेदा लेईने जज्ञा, निज मंदिर तव श्राचे ॥ चोथे उद्धासे
डाज ए दसमी, जिन मन रंगे गाये रे ॥ न० ॥ १९ ॥

॥ दोरा. ॥ भागम जाली नृपतणे, गौजज्ञ देवतो जीय ॥ देव पुत्र नेहे करी, र
चना करे प्रवीर ॥ १ ॥ शाळिकुमरना पर धकी, नृप मंदिर खेणे याल ॥ मलि माणिक.

मंरुप रच्या, चिहुं दिशि तोरण तास ॥२॥ मणिमय माला जालियां, मुक्ताफलनां की
 व ॥ अमरच्युवन अचनी तले, देव शक्तिपी सिद्ध ॥ ३ ॥ धरणी तल बांध्यो धवल, स्फ
 टिक रत्न सुनिचित्र ॥ क्षीरसमुद्र परे सुजाग, विच विच कमल पवित्र ॥४॥ आवासे आजा
 अधिक, सूर्यपरे सुप्रकास ॥ पंचवर्ण मणि तेजपी, सुंदर शोभे खास ॥५॥

॥ दाल ११ मी. ॥ (लंकानो राजा. ए देवी.)

ह्ये श्रेणिक राजा तिहां रे, जेरी सुदर्शना नाम ॥ यजडोवे मन रंगशुं, जस ना
 म थकी आराम रे ॥ श्रेणिक महाराजा ॥ अति रूपडो रे, करे अधिक विवाजा ॥ न्याय
 धरमी रे, भूपति अति धरमी ॥१॥ ए आंकणी ॥ अलवेला तव आविया रे, कोणिक प्र
 मुग्न कुमार ॥ निज निज परिवारे करी, परिवृत एक शत उदार रे ॥ श्रेण ॥२॥ पंच शत
 सचिव सोहामणा रे, शैठ सामंत अनेक ॥ गणक चिकिद्यक सामट, पंक्ति बली घर
 ता टेकरे ॥ श्रेण ॥३॥ चतुंगी सेना सजी रे, सुपरे करीने सार ॥ सेचनक गयचर ऊप
 रे, नृप श्रेणिक ययो अस्तवार रे ॥ श्रेण ॥४॥ अजयकुमार आंगे चले रे, कदमी पुरुष प्रया
 न ॥ सकल कलाये आगजो, चारे बुद्धिणो निधान रे ॥ श्रे ॥५॥ एह्ये आरुंवर थकी रे,
 आये शांति आगार ॥ मंरुप तोरण देगिने, अचरिज लहे सह परिवार रे ॥ श्रेण ॥ ६ ॥

राजगृही रतियामणी रे, किम शणगारी एण ॥ एता दिन लों एहवी, नवि वीठी हुती
नेण रे ॥श्रेण॥३॥ नञ तव झूपति प्रते रे, वधावी कहे वेण ॥ राज पघारो ऊपरे, जुनु
मंदिर भमचो सेण रे ॥श्रेण॥४॥ प्रथम भूमि जेतें थके रे, विस्मय मनमें होय ॥ सुह
णो के साचो अठे, ब्रम नटले चित्तथी कोय रे ॥श्रेण॥ ५ ॥ तिम वली वीजी भूमिका
रे, निरखी हरखित थाय ॥ नञ कहे ऊपर तुमे, पाउ धारोने महाराज रे ॥श्रेण॥ १० ॥
त्रीजी भूमि जेतें थयो रे, राजा विव्रम चित्त ॥ शुं देवलोके भावियो, कोई देव थकी
घरी प्रीत रे ॥श्रेण॥ ११ ॥ तव नञ कहे इहां रहे रे, भमचा दासी दास ॥ स्वामी पघा
रो ऊपरे, जिहां शालिकुमर भावात्त रे ॥श्रेण॥ १२ ॥ चोथी भूमिना चोकमां रे, थावे भू
धव जाम ॥ नजरे जज्ञ सम निरखीयो रे, नर पामी ऊजो रह्यो ताम रे ॥श्रेण॥ १३ ॥
अजये ततक्षण मुञ्जिकारे, नांखी प्रत्यय काज ॥ राज्य पघारो रंगमें, मणिपीठ अठे
महाराज रे ॥श्रेण॥ १४ ॥ राजा कहे थमथी हवे रे, आगें तो न भवाय ॥ शालिकुमरने
भम कने, तेडी लावोने इणे गाय रे ॥श्रेण॥ १५ ॥ सिंहास्तन तिहां मांडियो रे, वग अेलि
क राय ॥ तव नञ उच्चकथकी, शालिकुमरने तेढण जाय रे ॥श्रेण॥ १६ ॥ जइने कहे
ऊजो नान्हारे, सुपरे करी व्यवहार ॥ श्रेणिक अंगण भाविया रे, इहां करवो कवण वि

पार रे ॥ श्रेण ॥ ७ ॥ पूर्वे कश्चि न सांनन्द्यो रे, कार्यतणो लचलेद ॥ ते निगुणी नित
 क्षितने रे, एष्टु कहे मात विदोय रे ॥ श्रेण ॥ ८ ॥ रे माता ! तुमे शं कहु रे, में नयि लाघ्यो
 नैव ॥ जोये उट्टदासे इग्यारमी, वाज जिन कहे परि उमेवे रे ॥ श्रेण ॥ ९ ॥

॥ बोधा ॥ शुं पूवो नो मातजी, व्ययसायादि निवार ॥ श्रेणिक लेई सामटो, ज
 रो भंनूय मजार ॥ ! ॥ जज्ञ कहे रे पुत्र गुण, नदि किरियाणो एह ॥ त्रिचुवन मंदि म
 मूट्टव ठे, रूप कला गुण गंद ॥ २ ॥ तय प्रटकी कहे मातजी, एगठो दो आलोच ॥ मुह
 माग्यो पन देयने, राखतो घानक टोच ॥ ३ ॥ जज्ञ कहे रे जूज मां, वचन विचारी थोल ॥
 श्रेण मगणनो ठे पाणी, ईच तमान भतोल ॥ ४ ॥ हय गय रय पायक तणो, कोय न लाने
 पार ॥ आपण सरिला एदने. व्यापारी लल सार ॥ ५ ॥ आपण ऊपर एह्नो, दित ठे
 तिष्ठो लंगं सयं ॥ आपणाने भाषीन ठे, ठेसो ते जणी गर्वं ॥ ६ ॥ यतः ॥ सासा ? पासा ?
 भगनि ? जज्ञ ५, उग ॥ गगुरद सोनार ७ ॥ एता न हुए आपणा, मंकठ ७ बहुअण विला
 ठ १ ० ॥ १ ॥ ज्ञानार्थः—श्यामांश्वास, पासा, अग्नि, पाणी, उग, राजा, मोनी, मांकड, बहुउ
 घने विलाठी; ए सयं आपणा न होय. ॥ १ ॥ आनी प्रणमो एदने, मनयी मूकी मान ॥ दुर्व

१ मात्रा कालना मुना हांग ठे. मोठे तैपलो पिनय अरग्य कालो त्रोइय.

ल कन्या राजवी, एहथी विनय निदान ॥३॥

॥ बाल १२ मी.॥ (सरसति माता रे, दियो मति निरमलो. ए देशी.)

वयण सुणी विप सरिखां मातनां, चिंते शालिकुमार ॥ मुज ऊपर वलि स्वामी
पणो श्रुते, धिग धिग ए भवतार ॥ शालिकुमार आलोचि चित्तमें ॥१॥ ए आंकणी ॥ में
नवि कीधो रे धर्म ॥ धर्म विना परवश बंधन हुवे, करे तय माठां रे कर्म ॥शाण॥२॥ जे
परवश ते रे सुख शो भोगवे, परवश डःखनो रे मूल ॥ स्ववशपणानां रे सुख जोते अ
के, परवश सुख भक तूड्य ॥शाण॥३॥ यतः ॥ अनुदुःखत्तम्. ॥ सर्व परवशं डःखं, सर्व
मात्मवशं सुखं ॥ एतडुक्तं समासेन, लक्षणं सुख डःखयो ॥ ? ॥ जावार्थः-परवशपणे
बधुं डःख ठे श्रने पोताने वश पणे बधुं सुख ठे. टूंकामां जे कह्युं, ते सुख डःखनु लक्षण
ठे ॥१॥ एटला दिन लगे स्वामी सेवक तणी, में नवि जाणी रे वात ॥ आज सुणाव्यो रे
माताये ईहां, एह कटुक श्रवदात ॥शाण॥४॥ तो हवे माता रे वयण न लोपयुं, नयमो
वसुधा रे नाथ ॥ तेह पवी करशुं सवि जोयने, साधशुं अविचल. साथ ॥शाण॥५॥ इम
निश्रय करी शय्यापी तदा, पाठ घरे जूपीठ ॥ सातमी भूमिथी कतरयो पड्यो, ते थयो
अतिही अनीठ ॥शाण॥६॥ अतस्ते येऽपि कृते पत्नी तस्मै वि

म्बी श्रेणिक रूप कला नीलो, अमर सदृश अनुकार ॥शाण॥७॥ हृष भर। उद्यम भा५५५,
 वेसास्थो ततकाल ॥ भातपथी जिम मालया परयले, तिम प्रथेद्व विशाल ॥शाण॥ ८ ॥
 वेवी माता रे भूप प्रने जले, ए पीतलियो रे देव ॥ परकर फरस न ए साहसी शक्रे, शू
 जाले एदु सेव ॥शाण॥९॥ शील्य बो एहने रे राज्य मया करी, एहठे तुमचो रे बाल ॥
 तुमची कृपाथी रे एलीला करे, तुमे एहना प्रतिपाल ॥शाण॥१०॥ मधुर वचनथी रे बोला
 ची मुद्रा, दीधी शील्य तिवार ॥ विपथर कंजुकी ठंढं तिणि परे, ओडि चढ्यो सुविचार
 ॥शाण॥ ११ ॥ वेठो जश्ने रे निज वातापने, सोचे चिच मज्जार ॥ पंच विषय सुख निय
 सरिखां थपां, न गमे वात विचार ॥शाण॥ १२ ॥ भालोचे मन अति उद्वेगथी, दुःखग
 भ्रित वहराग ॥ एहवी करणी रे आजथी आवळं, जिणे करी लडु नय तग ॥शाण॥१३॥
 नाथ न राळूं रे माथे आजथी, रही गृहवासे रे रंग ॥ नाथ कळं एक त्रिभुवननो घणी;
 जेहनो स्नेह अन्नंग ॥शाण॥१४॥ जिम योगीश्वर ध्यान घरी रहे, तिम रहे शाशिकुमार
 ॥ चोथे छब्हासे रे ढाल ए वारमी, जिन कहे वचन उवार ॥शाण॥१५॥

॥ दोदा. ॥ हवे नश नूप आगले, थाची करे अरदास ॥ भोजन अवघारी जलां,
 पठे पहेचो आवास ॥१॥ नशानो मन राखया, रहा तिहां मन रंग ॥ लक्षपाक तैलादि

तय, जज्ञ लावे चंग ॥२॥ मर्दनिया मर्वन करे, कटवले घनसार ॥ स्नान करण अचि
तुरत, स्नानतले आगार ॥ ३ ॥ जलक्रीडा करते थके, पडी मुडडी तत्र ॥ जोचे पिण
लाचे नही, श्रेणिक लहे ते चित्र ॥४॥ मुख विजखो करि चिंतये, माहरा घरनो सार ॥
एहवी मुडडी माहरे, अवर नदि इणिवार ॥५॥ नीचे आनन निरखते, वेखे कूपक एक
॥ मणि आनूणथी जखो, चिंते तव सुविवेक ॥ ६ ॥ पूठे वासीनि प्रगट, एह कीशो ए
कत्र ॥ ते कहे शालिकुमारनां, 'मुक्ताचरण ते तत्र ॥ ७ ॥ नृप चिंते नवि सांनढयो, जे
आनरण उछिट ॥ ते में नजरे निरखियो, अशो अहेर पुण्य प्रकट ॥८॥ एहे जज्ञ नृप
तणी, अडवी थंगुली देख ॥ तुरत कढावे मुडडी, कत्र करि सुविशेष ॥९॥

॥ ढाल १३ मी. ॥ (देशी मधुहरनी.)

जज्ञ मुडी अवरथी, जरीने थाल सुचंग हे ॥ साद्वि ॥ मध्ये नृप मुडी घरी, आ
गल करे उग्रंग हे ॥ सा० ॥ देखी नृप मन चिंतये ॥१॥ ए आंरुणं ॥ जुड जुड
पुण्य प्रमाण हे ॥ सा० ॥ एहनी मुडी आगते, मुज मुडी शे मान हे ॥ सा० ॥ देखी०
॥ २ ॥ दोणी देखी उजली, ते लेवे ततले ॥ हे ॥ सा० ॥ जज्ञ कहे जोजन जणी, वेसो

१ जोगीने काढो नांखेडा पराण.

स्वामी हेतु हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ३॥ आसन वंदन अति जलां, सडु कान सुमकार ॥
 सा० ॥ नृपने मणिरयणे जड्यो, जडासन सुखकार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ४॥ आज्ञा क
 चोलां रयणनां, केरु कंचनमव कांत हे ॥ सा० ॥ जारी प्रमुल गिन्धि सयं, उचित दिये
 तिणि पांति हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ५॥ ततक्षण वेव प्रथोगथी, ज्ञाजन गिन्धि प्रकार हे
 ॥ सा० ॥ पटरस सरस सयावथी, निपन्या ते मटुहार हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ६॥ पफात्रावि
 क प्रति जला, वत्रीश जातिनां डाक हे ॥ सा० ॥ भया मीगाई वणो, नय नय जातिना
 पाक हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ७॥ मंदन वननां नृप मंत, कट्टपट्टम फत्त खास हे ॥ सा० ॥ पिरसे
 ज्ञा प्रेमशुं, प्रति सुन्धार सुवास हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ८॥ पिरसणिया पिरसे तिदां,
 वेव सरुपी सुरंग हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ नृप विरमय लहे, ज्ञाजन हाव सुचंग हे ॥ सा० ॥
 दे० ॥ ९॥ दाति अनोपम सपती, विविध प्रकारनी दात हे ॥ १०॥ घृत गोरसत्री शोज
 ती, जमते हर्ष विद्याज्ञं हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ ११॥ सेन्व सफल सुरंग तिहां, ज्ञाजन करे जली
 जांत हे ॥ सा० ॥ जिम कुंज पर सेन्वथी, तिन नृज धी खंत हे ॥ सा० ॥ दे० ॥ १२॥
 ॥ थथ ज्ञाजनवर्णनम् ॥ सवेया एकत्रीशा. ॥ मंतीचूर पूर कर जलवी खात्रप कर
 दोट दिये वेगे पर लाडुगुं लरीजीण, घेवरको घेर कर पडासंती पेट जर पतसिको

पास पर लापसीकुं लीजीए ॥ आंवा कक्षां करी शाख राइतेकी तीखी डाल वाटकुं व
 डाइ देय पायसान्न पीजीए, कूरसेंती दालि मेलि घमकेशुं घृत जेलि शाककी सरायगूं
 लराइ एसी कीजीए ॥१॥ ऊपर गंगाजल दीया, वासित सुरजि सुवास हे ॥साण॥ तांबू
 लादिक नुरतमें, देवे ज्ञज्ञ तास हे ॥साण॥देण॥ १२ ॥ यथायोग्य पहिरामणी, लेई नृप
 भावास हे ॥साण॥ भाव्या अति आणंदशुं, पहेती सवि मन आश हे ॥साण॥ देण॥ १३॥
 पुण्य प्रसंज्ञा परगडी, जाले प्रेमे नूप हे ॥साण॥ चोथे ठब्दासे तेरमी, कही जिनविज
 ये अनूप हे ॥साण॥देण॥१४॥

॥बोहा॥एहवे कत्रीशे मिली, कामिनी करे विचार ॥कंत कहो शे कारणे, नवि बोले
 इणिवार ॥१॥ आपणे तो नथी दूहव्या, नवि लोपी कुजवट्ट ॥ रीश चढावीने रद्या, आज
 तो एह निपट ॥ २ ॥ बोलावीजे बहु परे, नेह धरीने नाह ॥ प्रेम धरीने पूगीए, जे भ्रम
 चो अपराह ॥ ३ ॥ दयिता ईम दीलमें धरी, आवी प्रीतम पास ॥ विविध विनय बचने
 करी, अधिक करे भरदास ॥ ४ ॥ पिण नवि बोले तेहथी, शालिकुमर लवलेश ॥ तव ते
 साखेने कहे, विनय पकी सुविशेष ॥५॥

मृणो वाडंती परदाग अनोपम अमत्तणी साग्र जी, कळं नीनति गोद विद्याय
 दती तवी तुम तणी साग्र जी ॥ तुम नंदन सुगुण नियात सोनागी सेवरो सा०, एह
 इड म्मि अन्ताग सुगार ते देवरो सा० ॥ करतो कोडा मन कोड सुजांडयी सर्वेश
 सा०, परतो मनमें थिसगाग भावास मांही तदा सा० ॥ इंजर्णनिं भनुकार सुवार ते
 जाणतो सा०, नित पंच थिययगुल नोग अमर परे माणतो सा० ॥ २ ॥ नृप अभाव्याथी
 मनमांही थियार कां ऊरव्यो सा०, नचि जार्णीत्रं अम कोय जे दयाथी नीपन्यो
 सा० ॥ न गुणे गुण गीत थिनोर गुडुडिथी मेलनी सा०, इने न करे यात विचार कामि
 नीडूं केळनी सा० ॥ ३ ॥ अमे सुकुडीणी भिवी सर्वं कळं प्रणी नीनतो सा०, तो थिण
 वांजे नदी एह जिडो ॥ इण मुनियती सा० ॥ नचि पंडुं जोजन यात न ताति यसन तणी
 सा०, आनूरणडूं भनुराग सुराग न धन जणी सा० ॥ ४ ॥ अमे देवनी पति थिवगीर जूळं
 सचि जामिनी सा०, न कळं सुपरं थिणगार न म्युं यामिनी सा० ॥ अमचो ए प्राण
 थानार थिनार अरे थिडो सा०, जो लक्षियं तदनां जेद उद्यम करियं तिसो सा० ॥ ५ ॥
 अमे थळपां थिगु दुःख देवनी थिडोय लहूं नही सा०, जिम रूपकंठरी वांय समाने तिहां
 मही सा० ॥ अमचो कोड थोये थोय तो वागो तहांने गा०, अमे तुम थिण ए थोकार कही

जे केहने सा० ॥ ६ ॥ इहने कोई आरतथ्यान के ग्यान हीये वशो सा०, तिए करी अम ऊपर राग दतो ते सवि खशो सा०॥ जाणावां मन परिणाम उदासी एहनो सा०, इले उंमथा भोग संयोग मगन नही केहनो सा०॥३॥ एहनो अम ऊपर स्नेह कहो किम भा यशे सा०, ए आखर ठंढी घाम भाराम वसावशे सा०॥ अमने मनमें उदवेग अजाणयो ए ऊपन्यो सा०, कोइ पूरव कर्म विशेष थकी इहां नीपन्यो सा० ॥७ ॥ ते माटे करी ए आपास पूवो तुमे जातने सा०, ते पिण मन केरी वात केहशे मातने सा०॥ पठे जोई कारण कार्य विचारी चिन्थी सा०, केहवो घटे तेहने उंजंन देज्यो शुज रीतथी सा० ॥९॥ तव अज्ञ बहुअर वात सुणी विप्रम थई कुमरजी, जिहां वेगो शालिकुमार तिहां ततरुण गई ॥ कु० ॥ देखे मुख नूर ते सूर जिशो वावल थकी कु०, यली अंगीतने आ कार विलोकीने ठकी कु० ॥ १० ॥ बोलाथी घरी बहुनेह सुस्नेह वाक्ये करी कु०, कहो पुत्रजी प्राणायार एशी चिंता घरी कु०॥ व्यापार वणिज घर हाट उचाट न ताहरे कु०, लेहणा वेहणानी यांत ते सघषी मादरे कु० ॥ १ ॥ तुज देखी अगम भालोच ते सोच पि या घरे कु०, तुज मुख देखी विलगीर ज्ञाजन पिण नवि करे कु०॥ न करे चिली सकल शृंगार हारादिक नवि गमे कु०, करे रुदन धरी मन उःख दिवस सा विनिने ॥ १ ॥

द्वा मांटे एवढो दुःख पापे ठे एहने कु०, कोइ वीगे होय अपगय कहीजे तेहने कु०॥
 पिण सपत्नीनि समकाल कसो किम मीजीए कु०, मीर परे एक तार प्रियाजुं की
 जीए कु०॥ २॥ ए प्रनुतायंत महेच्यतणी ठे बालिका कु०, सुखलीणीमां शिखार वच
 न प्रतिपालिका कु०॥ परणी जं पंचनी साखें ते पालवधी जडी कु०, तेहने विण भवगु
 ण वंणी मीजीजे किम चडी कु०॥ ३॥ सुणी मातनां वयण विशेष नरेय चोख्यो फरी
 कु०, योगेंद परे धमी ध्यान वंठा मन हट करी कु०॥ कही चौधमी बाल.रसाल ए चोथा
 तट्टहागनी कु०, इम त्रिनचिजेये मन रंग कट्टरडुम रासनी कु०॥ ४॥

॥ दोहा. ॥ एहने ते राजगृहे, धर्मयोग मुनिराज ॥ समचसखा सुपरे तिहां, 'पण
 सय सागु समाज ॥ १॥ वनपावक थापे तिहां, 'ब्रह्मपनिका वेग ॥ बालिकुमर ते सांज
 छी, अधिक लदे संगेग ॥ २ ॥ त्रिम रसयति सवि नीपने, घृत मिले रस होय जेम ॥
 तिम बालिनर वेगगमं, सागु संगेगजुं प्रेम ॥ ३॥ वेई तास वयामणी, हय ग्य वेसी हे
 न ॥ पणित बटु पणियागरी, गुरु वंदन ततज्वेव ॥ ४॥ पंचिं अणिगम सागनी, वंदे सम
 तानीप ॥ वेदाना अमृतधी अधिक, निसुणे सुगुरु समीप ॥ ५॥

॥ शत्रु १५ मी. ॥ (दस्तिनागपुर वर जलु ए देशी.)

मानव जय षति दोहिलो, जब जमतां तयल संसार रे ॥ आयकेंद्र उचम कुले,
 पंचेद्विप पूर्ण उदार रे ॥३०- पंचेद्विप पूर्ण उदार, सुषो जवि प्राणिया तसनेह रे ॥ स
 सनेह सुगुण सुविज्ञास, केहे मन रंगशुं मुनि एह रे ॥१॥ ए श्रांकली ॥ धर्म श्रवण अति
 दोहिलो, दोहिलो सरदयो विन रे ॥ सुदम विचार सुली करी, हठ जे करे ते विपरीत
 रे ॥४०॥ सु०॥२॥ वचन विरोध करे जिके, जिन प्रवचनना जे गूढ रे ॥ बहुल संसारी ते
 ह्ये, जय जमल करे मतिमूढ रे ॥३०॥ सु०॥३॥ सावद्याचार्य तशी परे, वनी जिम ज
 माली निर्गंध रे ॥ एरेक वचन उडायेते, पाम्या संसारनो पंथ रे ॥१०॥ सु०॥४॥ सद्
 हने धर्म आरे, ते यित्ला इले जग जीव रे ॥ आदरी विषा श्रयजूं करे, ते दुःख लेहे
 शाली सारे रे ॥१०॥ सु०॥५॥ आदरवां वन दोहिलो, मुनियरनां पंच प्रमाण रे ॥ धैर्य
 परी जे आरे, ते पाने पद निरवाण रे ॥१०॥ सु०॥६॥ जन्म जरा जय रहितेते, स्या
 नरु नियमेशिर रुरे ॥ केवलज्ञानमयी सदा, तिसां षडर धमर विदुरे ॥१०॥ सु०॥७॥
 रमं विद्वान् जेइने, एए नाथ विजगनेर तामरे ॥ किरि संसारमे भावना, नरुवा
 नरेके बांघे तामरे ॥१०॥ सु०॥८॥

ज्ञानव्रथा ज्ञानधमना, कला मूल सयल सरार १ ॥ कणा मुणुणा ॥ व्रत वाप्य वाप्य जी
 वनी, रक्षा करणी ते नित्यं रे ॥ मन वच कायाश्री करी, क्या वीज विश्वाधी पवित्र रे ॥
 व ॥ मुणुणा ॥ हिंसा करे ते दुःख लेहे, न लेहे सुख कविय जिगार रे ॥ सुभूम ब्रह्मद्वज
 साग्निवा, हिंसाश्री नरक मजार रे ॥ हिंणा मुणुणा १ ॥ ए पहिलो व्रत सागुनो, वीजे मृया
 यावनो त्याग रे ॥ क्रोध लोभ ज्ञय हास्यधी, जूवो न कहे महाजाग रे ॥ जूणा मुणु ॥ १ ॥ २ ॥
 जूठे यमुगाजा जूठ, नरके गयो देव प्रकोप रे ॥ ते जणी सत्यज बोलयो, जिमं प्राण
 हारित्तनो लोप रे ॥ जिणा मुणुणा १ ॥ ३ ॥ अणवीधो लेयो नही, तृणमात्र ते सायुने कोय रे ॥
 चोरीश्री दुःख नीपजे, हुंरुक परे शान्धमें जोय रे ॥ हुं ॥ मुणु ॥ १ ॥ ४ ॥ चोथुं व्रत चोरके
 निते, पावनुं मननी शुद्धि रे ॥ नारी रूप न देखुं, लेखवुं उपजनी बुद्धि रे ॥ जिणा मुणु
 ॥ १ ५ ॥ कुंरुकि नंदिंण जे, भईव्रक अशुंमार रे ॥ विजयमुनीश्वर तिम वली, रहने
 मि प्रमुख भणगार रे ॥ १ ० ॥ मुणुणा १ ६ ॥ नारी देखीने चढ्या, पावा बढ्या पुण्य प्रयोग रे
 ॥ ते जणी नवगडे करी, व्रत पालयो धरी उपयोग रे ॥ व्रणा मुणुणा १ ७ ॥ तृण तूसमात्र न
 राखयो, परिग्रह ममताश्री धीठ रे ॥ परिग्रहश्री नरके गया, नवनंदन सागरधोठ रे ॥
 नणा मुणुणा १ ८ ॥ गत्रिचोजन वंडयो, त्रिविधे त्रिविधे थड धीर रे ॥ ए मुनि व्रत विवरी

कथां, श्यावंगे ज्ञाये षड् बीररे ॥द्या०॥मु०॥१ ए॥ साधुतणी सुणी देशना, समज्यो चि
ज शाधि महंतरे ॥ अलिक पवारथ ए सहू, कंदे साधु ते सयलो तंतरे ॥क०॥मु०॥२०॥
गुरु चांरी परे आविया, रथे बेसो शाशिकुमाररे ॥ बोधे उद्धासे जिन कहे, पन्नरमी
वाल उबाररे ॥५०॥मु०॥२१॥

॥ दोहा ॥ जज्ञाने प्रणमी कंदे, सांजल मोरी मात ॥ साधु बचन सुणते लही, ची
ती सयली यात ॥ १ ॥ स्वारथियो संसार सवि, परस्वाथिं नहि कोय ॥ विविच विटव्न
वेरना, जीय सयलने जोय ॥२॥ पतः ॥ शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥ वृक्षंकीणफलं त्यजंति
विहगा शुक्लतरः सारसाः; निर्गंधकुसुमं त्यजंति मधुषा दग्धवनान्तं मृगाः ॥ निर्द्वयंपुरु
षं त्यजंति गलिघ्न प्रष्टेनृपं सेवकाः; सर्वः स्वार्थवदाजनोऽभिरमते नो कस्य को वद्वज्रः
॥१॥ जायार्थः—पक्षीउ फल पिनाना वृक्षनो, सारस पक्षी मूकाइ गएला सरोवरनो, ज
मराउ निर्गंध पूजनो, मृगो वज्रता यन्नो, गणिका निर्धन पुरुषनो अने सेवको राज्य
प्रष्ट राजानो त्याग करे ठे. ए प्रकारे सर्वे स्वार्थने वदयठे. जो के, तेउ एकेरुनी उपर हेत
साते ठे, तथापि यास्तविक रीते जोतां कोइ कोइनुं बहालुं नषी. ॥१॥ ते माटे अनुमति दि
यो, मया करीनि धार ॥ संयम लेई तिह परे, टालूं नव संताप ॥३॥ सुणी वपण संश

ग पढी, नञकेंदर विचार ॥ घतनी चात किशी केंद, वाअक शाजिअुमार ॥४॥

॥ डाल १६ मी. ॥ (निड्डी येरण डुर रही. ए वेदी.)

नञ रुके नली नानिद्यु, शील सांजल होतुं मुणुण मुपूत्र के ॥ आलाखन सम
सही, नुजरी उं दो मुज परनो मूत्र के ॥ न० ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ यप लपु ताहरी विचार
तु, नुज वपिता हो ते पिण सवि चाल के ॥ संतानादिक पिला नही, ते मटे हो जूठ हव
द निहाल के ॥ न० ॥ २ ॥ नीतिमें पिला इम सांजत्रयो, यप पहिलीचिं हो विद्या अन्त्यास
के ॥ बीनी यप सुल विज्ञसवां, बीनी यप हो व्रत प्रहण थायास के ॥ प्र० ॥ ३ ॥ यतः
॥ मनुपुत्रवृत्तम. ॥ प्रथमे नाडिता विद्या, हीतिये नाडितं धनं ॥ तृतीये नाडितो धर्मः,
गनुं कि करिष्यमि ॥ १ ॥ आवाधः—जो तं पहेली ययमां विद्या संपादन न करी, बी
नी ययमां धन संपादन न करुं धनें बीनी ययमां धर्मसाधन न करुं; तो चोपी यय
मां नुं शु करीश ? पथान धर्मसाधन करगानो अगसर तो बीनी ययमां व. तो त नीति
नञन बहुंयीनि डाल करगां कम तैयार पयो दुं ? ॥ १ ॥ ते जणी वडपणमें तुमे, आवक
वत हो परगयो धंडं धार के ॥ निरनिगारे पालतां, सुख लदाए हो अति दिव्य
दारीर के ॥ न० ॥ ४ ॥ वाअरणे व्रत ते प्रहे, जम होये हो इःय सवल संसार

क ॥ सावा पीवा पिण नही, वनी न हुए हो कोइनों आधार के ॥ न० ॥ ५ ॥ यौव
 नमे जेहन नही, कानादिक हां न खिये वली दीख के ॥ मान तजी मयुकर परें, मध्योने
 ॥ नमे तवा ज्ञाग्य क ॥ न० ॥ ६ ॥ तूं तो सुखमें ऊबख्यो, नवि जाणें हां संवकने स्वाम
 ॥ नुमं, पुत्र साधनां हो मुजन कहां श्रव के ॥ देवजोग तुम पास ठे, अधिको किशो हो
 सग्य पामवा तव क ॥ न० ॥ ७ ॥ तव कहे शान्तिकुमर इशुं, संयमथी हो लहिये सुखवास
 क ॥ मापं नाप न संपंजे, वली कोइनी हो करवी नही भाश के ॥ न० ॥ ८ ॥ सुणि नञा
 चित्त रितिये, बात ऊंडी हो कहे कवण प्रकार के ॥ तात परें ए पिण सही, ठंभी जाशे
 हो ए सवि घरवार के ॥ न० ॥ ९ ॥ कहे सुण पुत्र तूं चित्थी, वत वोहिजां हो मुनियरनां
 तंत के ॥ मेल दांत लोहमय चणा, चावंतां हो अति तेह दूरंत के ॥ न० ॥ १० ॥ गंगा सन
 मुग चलयो, रत्नाकर हो तरयो निज बांह के ॥ यापथी नरया कोपला, जिम डुनर हो
 तिम संयम चाह के ॥ न० ॥ ११ ॥ पंच महाप्रत पातयां, वली टालया हो वेताजीज दोप
 के ॥ पैचागाने यलथी, निरवांच हो करयो तस पोष के ॥ न० ॥ १२ ॥

के ॥ संपत्ती पंजर पश्यो, जोवे वृष्टण लाग ॥३॥ चित्तमें चित्तवते श्रके, उपनी बुद्धि मनूरा ॥
 तमें जेहंउंनु प्रति शिवस, ऐश्वरी परि वृष ॥ ४॥ हृदये हृदये शिव सुख, वंदनानी धरं
 ॥५॥ अनुक्रमे अनुमति ज्ञेयते, यरगुं संयम हेव ॥५॥ जिम जिम पराणीती मुदा, निम
 निम तनु निदान ॥ निवति धरी ते दिन पका, ठंने धरी सुज्ञान ॥६॥ प्रथम दिवस मो
 निण तजी, तिलं तय लाप्यो शर ॥ वांक सकुत ते में क्रियो, ते शख्यो प्रस्ताव ॥७॥
 दिन बीजे बीजे प्रते, उंडण कंध प्रपंच ॥ ते शिखर विद्वलित वदनश्री, चिते ए शो
 संघ ॥८॥ योत्रे दिन श्रीजी तिमज, ठंरी तरुणी जाम ॥ तव सधली चिज चितेवे, अ
 यो गुं ए करे आम ॥ ९ ॥ अनुक्रमधी ए वंशे, अमने सद्वि प्रतार ॥ जावीश्री बल
 रोपनी, चारे नहि विगार ॥१०॥

॥ दाल १३ मी. (हरियां मन लाग्यो. ए देशी.)

एहरे ते पत्ता गृहे, सतीप सुनत्र विख्यात रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ पतिने स्नान
 कराते, चिज सांजसियो बाल रे ॥ स्नेही सुण मोरा ॥ एहरे ॥ १॥ ए भांकणी ॥ नर
 मसती बन करे, नपनधी नीर प्रसाह रे ॥ स्नेया ॥ गती मांहे जागीयो, विरह दावान
 ल साह रे ॥ स्नेया ॥ २॥

भण प्रते, गंक्ष धिता गुन कांय रे ॥ स्नेही सुण कांता ॥ ए० ॥ ३ ॥ आठे मांहे अप्रणी, मा
 हरा परतो मंद रे ॥ स्ने० ॥ शालिकुमर सरिखो प्यठे, बांधव कृदि प्रचंद रे ॥ स्ने० ॥ ए०
 ॥ ॥ तव घोत्री सा सुंदरी, कंत प्रते गरजोड रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ तुम परस्तादे
 मातेर, गदिय न कोय ठे सोड रे ॥ स्ने० ॥ ॥ ५ ॥ शालिकुमर बांधव अठे, अप्रज अति
 हि निख्यात रे ॥ स्ने० ॥ स्नेहश्रुती पासं रहे, देव स्वरूपी तात रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ ६ ॥ नृप
 भदिर श्राव्या पत्नी, कोई श्रयो धिज्ञान रे ॥ स्ने० ॥ मौनपणे वेसी रहे, जिम योगीसर
 ध्यान रे ॥ स्ने० ॥ ॥ ७ ॥ जोगतणी नृप्या नही, योग प्रदण मन टेय रे ॥ स्ने० ॥ (दिन दिन
 ऐक्यी प्रते, ठंढ ठे सुविनेकरे ॥) जोजन पाणी नधि रूजे, न रुचे नृत्य कृणमेय रे ॥
 ॥ स्ने० ॥ ॥ ८ ॥ रमणी कृदि सवि तत्री, विषयादिक सुख जोग रे ॥ स्ने० ॥ मासानंतर ते
 हंय, लेंदो संयम योग रे ॥ स्ने० ॥ ॥ ९ ॥ ते दुःख चिंतमं सांजे, साले सात्र समान रे ॥
 स्ने० ॥ माटीना जाया पये, पीयरमां दो मान रे ॥ स्ने० ॥ ए० ॥ १० ॥ नित नित श्रात्रू
 पण नयां, नग नयां गव उदार रे ॥ स्ने० ॥ हेज परी कुण चापडो, आये शुभ तिथि चार
 रे ॥ स्ने० ॥ ॥ ११ ॥ कुण कंशेदो मुज बहिनडी, सायतमं सो चार रे ॥ स्ने० ॥ केहने बांध
 दुं रागडी, पणि पणि करी मनुहार रे ॥ स्ने० ॥ ॥ १२ ॥ हेय किशंथी श्रमे देखंशुं, शुभ

अहं नवीन रे ॥स्ने०॥ बहने नोजन पिरस्तिने, लेखवशुं जाववीन रे ॥स्ने० ॥ ए०
 ॥१॥ श्री पीयाने कपे, सागरे मुहृषी घाय रे ॥स्ने०॥ बांधव विल पीयर कीशो, जेद
 पी विसुही गाय रे ॥स्ने०॥ ए०१॥ ए डःख मुजेने इण नवे, कदो किम विसरे कंत रे
 ॥स्ने०॥ तिण दुःखपी मुजे नयणार्थी, नीर ऊरे ठ एकांत रे ॥स्ने०॥ ए०॥ १५॥ तव घनो
 बह गोरडी, बांधव दुःख ते साच रे ॥ स्नेहो सुण कांता ॥ पिण कायर शिर सेहगे, तु
 ज भप्रज सुण वाच रे ॥ स्ने० ॥१६॥ जे न्यागी जगमें अया, ते किम करेय विचार रे
 ॥स्ने०॥ जेद रिचार करी रथा, ते कायर शिरदार रे ॥स्ने०॥ ए० ॥१७॥ वाज्या छपर जे
 एयो, तार दिसे किम कोय रे ॥ स्नेही सुण स्वामी ॥ बांधव दुःख उपर तिसो, कंत व
 सन विम होय रे ॥स्ने०॥ ए० १८ ॥ तव कहे प्रीतम सांजलो, मुज बांधवनी यात रे ॥
 स्ने०॥ पारन यय युवनी जगी, बंदे ते अखियात रे ॥स्ने०॥ ए० ॥१९॥ कवडी एकने मू
 यने, करे विमातण पीश रे ॥ कोडिगेने धन परिहरे, मुज बांधव सुजगीश रे ॥स्ने०॥
 ए०॥२०॥ खजडीन पर मात्तीयां, जाजियां मलिमय जोय रे ॥ स्ने०॥ ए अश्विनाले
 पनतपो, तेयो मिलि विधि होय रे ॥स्ने०॥ ए० ॥२१॥ रात दिवम नपि जाणतो, रावि
 नादि पश्य रिणार रे ॥स्ने०॥ ते टीका उन पापज मने मल लय का रे ॥ स्ने० ॥

तु न संरिप्ती हितवाञ्छिका, भवर न नार। होय ॥स०॥ जे तारे जयजत्र थकी, सबज स
 ज्वाई सोय ॥स०॥ध०॥६॥ में ताहरो यच मानीयो, सुपरे भरी संयोग ॥स०॥ हित येग्या
 ड्यो क्षेत्री, टाढ्यो मन उच्येग ॥स०॥ध०॥३॥ यय वली जादो येगथी, वलथी इन्द्रिय
 हीन ॥स०॥ व्याधि जरा जव लागदो, तय सधि चाते दीन ॥स०॥ ध० ॥८॥ अथिर संसा
 रमें ए सट्ट, मिळियो ठे संबंध ॥स०॥ संध्या राग तणी परे, अथिरठुं दो प्रतिबंध ॥ स०
 ॥ध०॥१॥ यतः ॥ शिगरिणीचूचम. ॥ श्रियो विदुल्लोला कतिपयदिनं योयनमिदं, सुलं
 दुःखाक्रांतं यपुरनियतं व्यायिचिपुरं ॥गृध्यावासःपासः प्रणयतिमुगं श्चैर्येनिमुगं, असारः
 संसारः स्तद्विचनियतं जागृत जनाः ॥१॥ ज्ञानार्थः—इक्ष्मी धीजलीना चमत्कार जेची
 चंवल ठे, या जुयानी केटला विस रंढ्यानी ? मुग ठे ते, दुःखथी व्यास ठे, निथे था
 दाशिर व्याधिप्रस्त ठे, गृहस्थाश्रम पास जेयो ठे, स्त्रीनुं सुख अस्थिर ते अने था संसार
 असार ते ! ते कारण मोंट ह लोकां ! निथे तमे इहां जागृत थाठ ॥ १ ॥ यननो पिण
 मय कारमां, ते तो दीगो पगतक ॥स०॥ तें इले चंगे माटी वही, जोय थिचारी दक ॥
 स० ॥ध० ॥१॥ नर नच पार्मी चंतीय, तो सीऊं मयि काज ॥स०॥ तप संयम मंगो
 गभी, लक्ष्मि अचिचल राज ॥स०॥ध० ॥१॥ नाग भनंता नीपन्यो, ए सगपण संयोग

॥सण॥ विषयारस वाहे धंके, जोगधिया बहु जोग ॥सण॥ ध० ॥११॥ तृप्तो जीव अयो
 नही, अचिरतिथी कोइ काज ॥सण॥ तेहजणी तुं सुंदरी, सुपरे हृदय निहाल ॥ स० ॥
 ध० ॥१३॥ वचन सुणी पियुनां तवा, कहे ते सुजज्ञ नाम ॥ प्री० ॥ तुम सांश्रे माहरे स
 ही, करयो उचम काम ॥ प्री० ॥ कहे करजोडी कंतने ॥१४॥ ए चांकणी ॥ पंचनी साखे
 पालव प्रलो, ते किम मूक्यो जाय ॥ प्री० ॥ ते जणी संयम माहरे, लेवो तुमचे सहाया ॥
 प्री० ॥ क० ॥ १५ ॥ तव बोझी साते सती, अनोपम करी झालोच ॥ प्री० ॥ सतीय सुजज्ञ
 नी परे, अमचो पिण झालोच ॥ प्री० ॥ क० ॥ १६ ॥ अवर न को आधार ठे, अमचे इले सं
 सार ॥ प्री० ॥ तुम सांश्रे तेह कारणे, लेइशुं संयम चार ॥ प्री० ॥ क० ॥ १७ ॥ घनो कहे साची
 तुमे, पतिवृत्ता वत परिपान्न ॥ स० ॥ संगतिथी सरये अयां, व्रत लेवा उजमाल ॥ स० ॥
 क० ॥ १८ ॥ त्याग कियो तिले तुरतमें, परिग्रहणो नदी पार ॥ स० ॥ चोथे उब्ढासे अढार
 मी, जिन कहे धन्य परिवार ॥ स० ॥ क० ॥ १९ ॥

॥ दोहा ॥ अत्र ते घनाशाहने, रुक्मिणी परिमाण ॥ हय गय रथ गृह इट तिम,
 पंच पंच शत मान ॥१॥ पांचशे प्रवक्ष्ये परगढां, पत्रशे चर ग्राम ॥ याणोत्तर एक सहस्र
 त्रिंशत् सोऽस्य घनं महात्मनः ॥ १॥

कंचन कळो सुप्रकार ॥२॥ तपन क्राड निधिमं गृहे, तपन क्राड अयसाया ॥ तपन क्राड व्याजे
 गये, कर्म मंख्या इम थाय ॥४॥ लक्ष्मणे कोणार तिम, धान्यतणा परिपूर्ण ॥ इत्यादिक
 सवि ऊळिने, वंदी धेने तूर्णे ॥५॥ सुरमणि श्रांते भवर पिण, रत्नगदि रमणीक ॥ नय
 निधि परिग्रह सकलने, तूर्णपरे तेजे ते ठीक ॥६॥ सपरिवार धनो तदा, संयम लेया काजा ॥
 चित्तो जो मुज जाग्यथ्री, ममयसरे जिनराज ॥७॥

॥ दान १७ मी. ॥ (वेवे मुनियर वंदरण पांगस्था जी. ए. देसी.)

एदये तिहां पुण्यप्रयोगे भाविया जी, जिनपति वीर जिनंद विख्याते रे ॥ समयस
 राण केये सुपरे रच्यो जी, तेजे करी दिव्य साक्षाते रे ॥ एदयेणा ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ चोत्रीदा
 अतिशय सुंदर शोभता जी, अष्ट महाप्रातिहार्ये उद्दाम रे ॥ सहस जोयणो इंड्वज
 तिहां जी, श्रांते तिम धर्मचक्र श्रजिगमरे ॥ एणा ॥२॥ विगंडे विराजे मणि कड्याणथ्री
 जी, कोडीडा रत्न विचित्र मुंतेजे रे ॥ मणिमय सिंहासन शोभे घणुं जी, तत्र त्रय अ
 मर धरे धनी क्षत्रे रे ॥ एणा ॥ ३ ॥ चोवीडा चामर वीजे देयता जी, नामंभज तरणि सहस
 सम नुरे रे ॥ वाक्य विराजे चिहुं दिदि वारणे जी, देय विनिमित्त जज्ञथ्री पुरे ॥ ए०
 ॥४॥ चोचिह संघ संगंथ पगिख्या जा, ममवसरणंमं श्री जिनराजे रे ॥ धर्म सिंहास

ने मेघ तणी परे जी, वरसे वचनामृत जयि दित काजरे ॥ ए० ॥ ५ ॥ परपद वारे श्राये
 प्रेमशुं जी, बांदीने वेसे विनयथी तामरे ॥ सांजले सुपरे शिवसाधन ज्ञणी जी, देशना
 श्रुत गुण श्रुतिरामरे ॥ ए० ॥ ६ ॥ आरामिके दीधी जाइ वधामणी जी, जूपति श्रेणि
 कने अति उड्ढासरे ॥ सांजली नृप दरिपित अइ तेहने जी, 'कनकरसनादिक द्विये सुविला
 सरे ॥ ए० ॥ ७ ॥ धनोदाह सांजला आव्या जन प्रते जी, धरणे कहे सीधां वंडित काजरे
 ॥ जेहनी अनिलापा मन हूती यणी जी, ते प्रभु पाउ धख्या जिनराजरे ॥ ए० ॥ ८ ॥
 संयम लेतां बिलंब न कीजीए जी, एहवो फिरी मिलवो जोग तेदूररे ॥ साहिव थापी
 वीर जिएंदेने जी, कर्मने हणवा थाउ शूररे ॥ ए० ॥ ९ ॥ कंत वयण सुणी संयम साथवा
 जी, प्रमदापिण अइ अतिहि उजमालरे ॥ सातकेत्रे धन सधलो वावरी जी, दान प्रमुख
 पिण अतिदि विशालरे ॥ ए० ॥ १० ॥ पडया तिम उधा 'कुत्री हाटथी जी, देई धन लक
 प्रमित तेणिवाररे ॥ तिम यलो काश्यपने तेडाविने जी, कशाप्र समरावे स्त्री भरतार
 रे ॥ ए० ॥ ११ ॥ सहस पुरुष निर्याहक शिविका जी, मंभावे तिहां सिंहासन सुप्रमाणरे ॥
 साजन सधला ततकण भाविया जी, कहे मुख देण्यो तुम कड्याणरे ॥ ए० ॥ १२ ॥ अ

नयकुमर पिण आर्यी इम कंक्ष जी, धन्य धन्य धप्रोटाह सुजाण रे ॥ धन्य धन्य ए. प
 रिकर रामातणो जी, पतिव्रता विरुद ते एह प्रमाण रे ॥ ए० ॥ १३ ॥ ए वय ए धन एहवी
 श्रंगनाजी, तर्जनि जे लेय संयम नार रे ॥ ते तो न्यायेत्री दिगरमणी चरे जी, इम सहु
 जेपे नरने नार रे ॥ ए० ॥ १४ ॥ बाजां तिहां बाजे विविध प्रकारनां जी, जय जय बोले
 चारण जाट रे ॥ वान धराये नरसे तेहने जी, मिलिया तिहां नर नारीना घाट रे ॥ ए०
 ॥ १५ ॥ धनोदाह संयम लेवा संचरे जी, प्रमदायी सोहे जेदयो इंद रे ॥ दाल उगणीडा

मी चोथा उब्दासनी जी, कही इम लुय जिनविलेयें श्रमंद रे ॥ ए० ॥ १६ ॥
 ॥ दोहा. ॥ यात मुष्णी धनातणी, जे ए लेवे दील ॥ श्रागे स्त्री सांथे श्रधिक, मुष्णी
 सुज्जवा शील ॥ १ ॥ परिग्रह सधलो परिहरी, उंढी माया मोह ॥ संयम लेवा संचरे, जि
 म रण भूमि 'जोह ॥ २ ॥ शालिग्रह चित चितेये, जूउ धनानी यात ॥ वचन थकी वा
 मी करी, चाड्यो करी श्रखियात ॥ ३ ॥ हुं एकेकी दिनप्रते, उंढू रमणी जेह ॥ कायर
 धंन जे कळो, तेहमां नही संदेह ॥ ४ ॥ जो ठोडणनो मन थयो, तो तिहां किशो विलंब
 ॥ इम चिंती ज्ञा कने, भाये श्रति श्रविलंब ॥ ५ ॥ पय प्रणमीने चीनेये, में तुम वयण

प्रमाण ॥ तो ते हवे तुमं माहरो, वंठित करो सुजाण ॥ ६ ॥ धत्रे पिण धण वयण्णथी,
गेड्यो सयल संसार ॥ ते माटे हुं पण हवे, ठंमीश विषय विकार ॥ ७ ॥ माता मोटम
मन करी, दियो संयम थादेश ॥ वीर समीपे व्रत ग्रही, टावूं सयल किलेश ॥ ८ ॥ जज्ञ
चित्ते एहने, किण्णि विध राखुं गेह ॥ वद्धिन वनेवी विहुं मिड्यां, सहचारी ससनेह
॥ ९ ॥ तो पिण वचन कहातणो, किम राखीजे हाम ॥ रोईने घर राखीये, कीजे स्वा
र्थिक काम ॥ १० ॥ यतः ॥ अनुदुवृत्तम् ॥ अपमानं पुरस्कृत्य, मानं कृत्या च प्रष्टतः ॥
स्वकार्यं साधयेद्धिमान्, कार्यव्रंशो हि मूर्खता ॥ ११ ॥ नावार्थः—अपमानने आगल करीने
अने मानने पावल करीने बुद्धिमान पुरुष पोतानुं कार्य साधे, परंतु कार्यनो नाश कर
यो, ए तो मूर्खपणुं ठे. ॥ १ ॥

॥ दाल २० मी. ॥ (अरुणिक मुनिवर चाड्या गोचरी. ए देशी.)

जज्ञ वलतीरे शालिकुमर जणी, गद गद स्वरथी वाणी रे ॥ रडती वोलि रे पुत्र
में तादरी, बात हृदयतो ज्ञाणी रे ॥ जज्ञणा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तूं ज्ञाणे ठे रे संयम आद
रुं, पिण कोश खबर न राखे रे ॥ माताने आधार ते तुज यिना, अवर किशो तूं वाखे रे
॥ जज्ञ ॥ २ ॥ बालपणामां रे मनमां जाणती, पुत्र होशे जव मोटो रे ॥ बृहस्पण मुजने

तत्र पालशे, माहरे कंठ न चोटो रे ॥ ज० ॥ ३ ॥ बत्रीश वडुने रे बालक भावशे, ते शालं
 बन भाशे रे ॥ दैवे यात न को पूरी करी, धूं जाणे इम जाशे रे ॥ न० ॥ ४ ॥ यतः
 ॥ भाषां वृत्तम् ॥ भयटितयटितानि घटयति, सुघटितघटितानि जर्जरीकुरुते ॥ विधिरे
 यत्तानि घटयति, यानि पुमाद्विय चितयति ॥ १ ॥ प्राचार्यः—दैव जे ठे, ते जेम तेम घडेली
 ची जेने सारी बनाने ठे थने सारी रीते गवारी मगरेली ची जेने खोखरी करी नांखे
 ठे ! मांटे दैव ची जेने तेची ज बनाने ठे के, जेनो पुरुष पण विचार न करी शके ! थया
 त दैवनी थकल शक्ति ठो ॥ मादरो दैव रे थायु अधिक कखो, जे दुःख देखण वेठी रे ॥
 नाग कंचुकी परे तु ठंढे ईहां, तुज विरहानले पेठी रे ॥ न० ॥ ५ ॥ कोव न बालक पावल
 ताधरे, जे भाखंवन कीजे रे ॥ पुरयकृत फल सवि भावी मीढ्यां, दोष ते केदने दीजे रे
 ॥ न० ॥ ६ ॥ नय मसवाढा रे उवरे ऊथखो, बालपणाथी पोव्यो रे ॥ ते कोइक दिन केरे
 कारणे, नवि जाणुं इम होयो रे ॥ न० ॥ ७ ॥ ए बत्रीशे रे सुंदर गोरडी, शे बोपे तूं ठंढे रे ॥
 सुखुनीनीने रे खीजयया जणी, एवढो शे इठ भंढे रे ॥ न० ॥ ८ ॥ ए कोगर जंनार घने
 जखा, तेधने कक्षे धूं कीजे रे ॥ तेह थकी थमे विधिं वीन्युं, पिण तूं तिल नवि नीजे
 रे ॥ न० ॥ ९ ॥ तुज विरहे एक दण ते मुज प्रते, बरस समाणी प्राशे रे ॥ तो कंढे कुमर

भुजने तुल्य विना, जनम सपल किम जाओ रे ॥३०॥ १० ॥ ताहर तांन जे दीक्षा ग्रही,
 ते तुजने एहे पापी रे ॥ तु केहेने सोपी दीक्षा ग्रह, ते केहे मुज मति आपी रे ॥ ३०
 ॥११॥ माता जोइ रे संयम आचरो, निज मुख साधन देते रे ॥ यिल माता तीरथ मोडो
 कथो, जिन शिवमत सेकेते रे ॥३०॥ १२ ॥ यतः ॥ अनुदुवचुनम् ॥ प्रस्तरः प्रतिमां मूढ,
 वृषा पर्माधर्मवसि ॥ धर्मलक्षणं यद्विचिन्तु, त्रीसंध्यं जनन्ये नमः ॥२॥ ज्ञावार्थः—ह मू
 र्ख! तु धर्मने माटे पायाएनी प्रनिमाने फांगट पूजे ठे ! जो तहारे धर्मबडे कार्य होय,
 तो द्रण संथाए (सवारे, बपोरे पने सांजे) पांनानी माताने नमस्कार कर. ॥ २ ॥
 पातपणो जो रे तुजने सांजे, ज्ञानयकी एली बेला रे ॥ तो मुजने तू ठोडल वारता,
 न करे मुग्धी रइला रे ॥३०॥ १३ ॥ तुज बिहे पर पिंजर पंखीयां, प्राण प्राहृणा थाओ
 रे ॥ ए धन प्रमुख सवे रयामी विना, राजनुवनमां जाओ रे ॥३०॥ १४ ॥ गोद विगाई रे
 तुजने पीनवु, जननी मूकी म जायो रे ॥ वीशमी ढाले रे जिन केहे नेद्वयी, कहे शो
 न केहे मापो रे ॥३०॥ १५ ॥

॥ रोहा. ॥ शांति केहे रे मातजी, साच कही सवि यात ॥ मरण समय द्याचे
 पके, तुल कठो मुखशात ॥१५॥ यन्मोदं जिन मृगयते, लीये मिद उलाय ॥ तिम त्रम

माने जन प्रणे, सेठ चाने ननहाल ॥२॥ जरा आयशे भोग्यी, तनु उपवेशे गेग ॥ पंचेचिय
 यत्र हागडो, तन नही धर्म भयोग ॥ ३ ॥ यतः ॥ डाईननिकिडीतकृमम ॥ यानर स्वस्त्र
 मिडे दारीरमकडे पायत्राग दूरनो, गावडेडिय दानिगप्रनिता याचविरोयायुषः ॥ पालम
 श्रेयणि तावेधेयदित्रनेः कलंघयधमंथिमः, संक्षिंते चुयेने द्वि कूपखनने प्रत्युयमः कीदृदाः
 ॥१॥ नावायः—७थां मूरी, आ दारीर स्वस्थ अने रोग विनानुंठे, वृढाग्रस्या वेगडी ने,
 इडियेनी दानि कायमंत्र येने आयुष्य ज्ञानुंठे; त्यां सूची माणसोप पोताना आत्म क
 दयाणने पथं धर्मोद्यम करयो जोडतः परंतु गर लाया पवी वूयो लोदवानो उयम क
 र्यो, एं कयो? नकामो! ॥१॥ ते जलो अतुसंत धो क्रो, जिम संजाई माप ॥ वीर व
 नन शिवमं भरी, पनुयानं मा वाप ॥५॥ एके धत्रीडिो मिडी, कामिनी करे विचार ॥
 कंज हनु मोड्यो अंठे, नेया भंयम नग ॥६॥ मागुडी गुपं कळो, परगट यात विचार ॥
 विण ननि माने वचन नग, आपन्ननी तगना ॥ ६ ॥ नीति गंथी नांखीयो, स्वामीडूं
 परी मंड ॥ केत विना डां कान्ता, ए धन नृपण, गेड ॥७॥
 ॥ दात ३१ मी. ॥ (निराचो विनन्य य. वाग के नाथ निहायजां र लो. एं वडी.)
 माशिया तय यडी, नाग मिलो कंठ नाहन र लो, मा० अति आयुलथी ताम के

पालय साहिने रे लो ॥ सा० किम जावो ठो ठोडि के मोहन साहरा रे लो, सा० अ
 मे किम ठोडुं एम के पालव ताहरा रे लो ॥ माहरा वालमा रे लो ॥१॥ ए आंकणी ॥
 सा० तुमशुं अमचो नेह के पूरव प्रीतथी रे लो, सा० लाग्यो अविहड नेह के जिम ठो
 ह प्रीतथी रे लो ॥ सा० घोयौ ते न घोयाय के अति घणा नीरथी रे लो, सा० प्रीत
 वनी एक रंग के जिम जज खीरथी रे लो ॥ मा० ॥ १ ॥ सा० शुं अम ठोडण काज के प
 रथी प्रेमथी रे लो, सा० के अमे भावी अत्र के अलवे एमथी रे लो ॥ सा० अमचापि
 ए माचाप के ठे घरमां सुखी रे लो, सा० अमने सांघ्यां जेह के शुं करवा डःखी रे लो
 ॥ मा० ॥ ३ ॥ सा० तुमे अम मस्तक मोड के अमे तुम वाणही रे लो, (सा० तुमची आ
 णा जेह के कदि लोपी नही रे लो) सा० सुपरे पालो स्नेह के निरयाही सद्दी रे लो ॥
 ॥ सा० सापुरिस्सानी रीति के राखो हेजथी रे लो, सा० अंगीकृत निरधार न मूके खीज
 थी रे लो ॥ मा० ॥ ४ ॥ सा० जुठ इश्वर अर्थांग उमादेवी धरी रे लो, सा० कृण एक मात्र
 विचाल न मूके ते परी रे लो ॥ सा० मस्तकमे तिम गंग धरे बहु यद्वथी रे लो, सा० अं
 गीकृतेने काज न मूके प्रयद्वथी रे लो ॥ मा० ॥ ५ ॥ यतः ॥ वसंततिलकावृत्तम् ॥ अ
 द्यापि नोश्चतिहरः किञ्चकालकृष्टं, कर्मोच्चिन्नानिघराणि क्रियन्ते ॥

उरसह वाड्यासि, भंगीकृतं मुकुतिनः परिपालयन्ति ॥ १ ॥ जावाथः-शिय हलु सुयी
 कालकूट केरने वोडी देतो नथी, काचवो (कळयावतारमां) जे ठे, ते पृथ्वीने पोतानी
 पीठे धरी राले ठे अने समुद्र उरसह एयी वडवानल अग्निने सहन करेवे ! माटे ज्ञाना
 पंक्ति पुरुषो, अंगीकार करेलाने त्याग करता नथी. ॥ १ ॥ सा० आश्रित माटे सर्प कंठे
 झूपण कियो रे लो, सा० कालकूट निप उट ग्रही जकण कियो रे लो ॥ सा० लक्ष्मीने
 जुट कुण्य उज्जगे जालेवे रे लो, सा० मोरली मयुरे नाव सुसावे झालेवे रे लो ॥ सा०
 ॥६॥ सा० कक्षो पियुजी तुमे उट अथा वो डा जली रे लो, सा० अमचा मनमं होदा
 दती वल्लभ घणी रे लो ॥ सा० कोइक दालो दोय सुयोग करी मुखे रे लो, सा० के को
 ५ देइ आधार पळे जाग्यो मुखे रे लो ॥ सा० ॥ ३ ॥ सा० वैचप्रयोगे एम जो मति तुमची
 फरी रे लो, सा० नत्रि दीधी वली तेमज केहने वीकरी रे लो ॥ सा० पुत्रतणी तो होदा
 पूरी किहांधी पडे रे लो, सा० वैच संगथे जोर कितीपरे नीचडे रे लो ॥ सा० ॥ ५ ॥ सा०
 ते जणी बाल वे चार हुंथ अमने यदा रे लो, सा० ते आधार उदार होदो अमने तदा
 रे लो ॥ सा० पळे मुखे लेजो दीगळ कडुं हुंथाजथी रे लो, सा० यदया तदया बोल न
 वोदूं जाजथी रे लो ॥ सा० ॥ ७ ॥ सा० यय भ्रमची लघु देखि यया नथी आवती रे लो,

सा० जे जिनथरममें सार कही ठे ते वती रे लो ॥सा० वलि तजवो अत्रिमान सिखें
ते ए वकी रे लो, सा० ते तुमे राखयो चिच के नृप भाव्या थकी रे लो ॥सा० ॥१० ॥
सा० विनयमल जिनथर्म थमे पियु सांजडयो रे लो, सा० माताने विजगोर करंतां ते
गड्यो रे लो ॥सा० जोयो हृदय विमास ए साची वातडी रे लो, सा० रमणिने कुण
करे हेत कंता विण इम नडी रे लो ॥सा० ॥१॥ सा० पंचनी साखे हाथ प्रह्यो ते नि
रवहो रे लो, सा० जाशुं जाशुं एम के मुखथी शू कडो रे लो ॥सा० शुं तुम लाग्युं जू
त के ब्यंतर आथम्यो रे लो, सा० के शूं जडकी सान के कथन न को गम्यो रे लो ॥
सा० ॥२॥ सा० इम वचीशे नारि विविध बचने करी रे लो, सा० समजवे निज नाह
के सुपरे सुंदरी रे लो ॥ सा० नवि चेदाणो नाह के नेद न राखीयो रे लो, सा० पावो
पिण तस उतर एक न जाखीयो रे लो ॥सा० ॥३॥ सा० तव आकी ते नार गई सासू
कने रे लो, सा० पाय नमीने वात कडे सवि शुच मने रे लो ॥सा० नित्य एकेकी त्या
ग करंती कामिनी रे लो, सा० आज तो संपंजी तेम तजे कां जामिनी रे लो ॥ सा०
॥४॥सा० जे बली कौय उपाय होवे ते दाखवो रे लो, सा० उल्ले गडे गणेश ह्ये
शो नाखवो रे लो ॥सा० ए एकवीशमी दाल चोथा उड्ढासनी रे लो, सा० कही जिनवि

जो पद के नचन विलासनी रे लो ॥माण॥१५॥

॥ दोहा ॥ मातांय गुत स्नेहथी, विनिध कख्या विलाप ॥ तिम न्यी पिण सयली
मनी, दाख्या कला कलाय ॥१॥ शालिनत्र नयि जेदियो, मन नचथी महिगण ॥ शील
सत्राहने डी करे, मनमथ नयनां वाण ॥२॥ तव माता कहे ताहरे, डोले मन थालोच ॥
शालि कहे संयम जणी, डे कहे सयल संकेच ॥ ३ ॥ माता चिते मुज थकी, अनुमति
हिम क्याय ॥ ५ ॥ पिण घरमां नयि रेदे, मही गनुंदरी न्याय ॥४॥ एहेंय गीजत्र देव तय,
कहे जजने थाम ॥ अनुमति थो दीक्षा तणी, शालिनणी सुगकाम ॥५॥ तय जत्र म
न इत्र करी, कहे यण तुम सुग जेम ॥ तिम कगे भति थनिलंबथी, सदा रहो तुज जेम
॥ ६ ॥ तडा नेंडं जेटणा, पदांती थ्रणिक पाम ॥ करजोडी कामल स्वर, एम करे थ्र
दाग ॥७॥ शालिकुमर संयम प्रंध, उंकी मगल संगार ॥ ते जणी वत्रादिक संय, थापो
जी डणिवार ॥८॥ मुणि थ्रणिक विस्मित थयां, कहे जजने वाण ॥ उद्यत्र दीक्षानां प्र
थिक, थमं घरथुं डण वाण ॥९॥ रजोहरण पटथां निहां, देडं लक दीनार ॥ कुतियव
णारी थ्राणीया, तडांय निणिगार ॥१०॥

॥ दाग ३३ मी. ॥ (देखी कुंयगदान्नी.)

श्रेणिक सवि परिवारशुं रे, आवे शालि आगार ॥ सनेही साजना ॥ उछंने श्राणं
 वशुं रे, बेसारे तेलिवार ॥ सनेही साजना ॥१॥ ए आंकणी ॥ शा माटे संयम प्रहो रे,
 आ यौवन वय मांह ॥सण॥ जोगविये लक्ष्मी जली रे, रहो मुज वांहनी वांह ॥सण॥१॥
 शालि केहे तव रायने रे, तुमे कह्यो ते सवि साच ॥स०॥ जन्म मरण जययी सदा रे,
 राखी सको केहो वाच ॥सण॥ ३ ॥ श्रेणिक केहे एहथी सवे रे, जय पामे सवि जीव ॥
 सण॥ अरिहंत विण नवि एहनो रे, जय वारण ते सदैव ॥सण॥४॥ शालि केहे ते जयज
 णी रे, टालवा जिठं चारित्र ॥सण॥ तव श्रेणिक शालिज्जने रे, नमण करावे पवित्र ॥
 सण॥५॥ पूजा श्री जिनराजनी रे, विरेचे सत्तर प्रकार ॥स०॥ अष्टायिक उष्टव करे रे,
 खरचे दाम अपार ॥सण॥ ६ ॥ अनुकंपादिक अतिघणा रे, देवरावे तिणिवार ॥सण॥ का
 श्यपने तेहे तदा रे, दे तस लक्ष् दीनार ॥सण॥ ७ ॥ चार अंगूल वरजी सवे रे, समरावे
 शिर केश ॥सण॥ तव जज्ञ रोती प्रकी रे, पालवे महे सुविशेष ॥सण॥८॥ घोड सुयासित
 नीरथी रे, धूपे घूपे तास ॥सण॥ तिथि परेवे ए देखशुं रे, पुत्रना केश प्रकास ॥सण॥ ९॥
 रत्नकरंने थापिने रे, राख्या यतने तेह ॥सण॥ उष्टव दीक्षानो तिहां रे, श्रेणिक करे सस
 नेह ॥सण॥१०॥ पुनरपि ज्ञान कराबिने रे, वल्बानरण विशेष ॥सण॥ पहिरावे प्रेमे करी

रे, पुष्पदाम सुविशेष ॥स०॥?॥ शालिकुमरने सिंहासन रे, शिविका माह यस्तार ॥स०॥
 बत्रीशे नारी तिहां रे, बेठी करी क्षिणगार ॥स०॥?॥ सहस पुरुष वहे शिविका रे, दो
 नित शुचि करि गात्र ॥स०॥ आगल हय गय रथ जला रे, तिम बली नाचे पात्र ॥स०
 ॥?॥ बंदीजन जय जय करे रे, बोले विरुद सुचित ॥स०॥ योजित्र राजे अति घणां रे,
 सोदय गावे गीत ॥स०॥?॥ दान देवे याचक प्रते रे, जे मागे ते तास ॥स०॥ एहेये गौ
 जत्र देयता रे, उद्यय करे उब्दास ॥स०॥?॥ राजगृही रत्नियामणी रे, क्षिणगारी सवि
 तेद ॥स०॥ आकाशे देवडंडुनी रे, राजे ध्वनीधी अंबेद ॥स०॥?॥ उत्र घरे शिर ऊ
 परे रे, मेघानंदर देव ॥स०॥ चामर अति सोहामणां रे, वोजे विधित्री देव ॥स०॥?॥
 श्रेणिक सेचन गज चढी रे, चाले परिकरजुन ॥स०॥ अवर दिशे गौत्रज्जनी रे, देव स्व
 रूप प्रयुक्त ॥स०॥?॥ मणिमय शिविकामं तिहां रे, पावल जत्रा मात ॥स०॥ मेघतणी
 परे वरसती रे, वसुधकी अधिक विख्यात ॥स०॥?॥ इत्यादिक आनंदरे रे, चाढ्या
 शालिकुमार ॥स०॥ धनोशाह पिण कुब्जिरी रे, आची मिढ्या तिलियार ॥स०॥?॥
 द्यूमें जिम मिमरो मिढ्ये रे, ह्येयं अधिक संतज ॥स०॥ तिम शालिचंडन तिले संम
 रे, धत्राथी यथ्यां हेत ॥स०॥?॥ समवरण आढ्या वही रे, महांटा कगीय मंढाल

॥ १० ॥ उत्रादिरु देव्या कर्मा रे, कुत्ररिया तिले ठाण ॥ १२ ॥ पंचाभिगम ते
सागर्भी रे, पेंदे सवि नर नार ॥ १३ ॥ रामांचिन हरपित तवारे, धत्रो शालिकुमार ॥ १४ ॥
॥ १५ ॥ धेगा प्रनुने वांदिने रे, लेवा संयम नार ॥ १६ ॥ द्वात्र वावीशमी जिन केहे रे,
पोष्य उद्धास उदार ॥ १७ ॥ १८ ॥

॥ दोहा. ॥ तव श्री वीर जितेसरू, देदाना ये सुप्रकार ॥ श्रेणिक प्रमुख सकल
तिहां, सुखे चितयथो सार ॥ १९ ॥ द्वात्रिंशद् धत्रो तदा, मणे संयम शील ॥ अहासुहं इम
उचरे, वीर वचन रस ईश्व ॥ २० ॥ कुण ईशाने आविने, क्तारे श्राप्तरण ॥ ते सधलां न्ना
प्रदे, उचितपणाथी तूर्ण ॥ २१ ॥ पंचमुष्टि केरे लोच जय, शालिकुमार अइ धीर ॥ सजल
नयनथी तव केहे, न्ना वयल गंभीर ॥ २२ ॥ यतना करजे जात तुं, आलस तजजे दूर ॥
पूर्णे पराक्रमथी भरे, संयम मार्ग सनूर ॥ २३ ॥ चास्त्र चिंतामणितणां, करजे कोडि यत
न ॥ फिरि फिरि नथी पामनो, एह अमुख्य रत्न ॥ २४ ॥ जो उंड्या व जोगेने, वियसम
जाणी भत्र ॥ तो रये लाजच राखतो, सुंदर लदी अन्यत्र ॥ २५ ॥ तिम धत्राने पिण
कडे, दीग्य वचन सुविज्ञास ॥ पुत्रो सुन्नचा प्रमुखने, न्ना ये सावादा ॥ २६ ॥ पतिवृता
तुमे पदमिणी, धन धन तुम अगतार ॥ पति संयोग संयम प्रद्यां, पालजो निरतीचार ॥

॥१०॥ चर धर्म विधिं संर, आंध नीर नर्त्तक ॥ चांदी कंद शीला विया, महा ममता
मम नीक ॥ १० ॥ नीर वाग गर्वांग, शीला शिला रूप ॥ अपानि ह्ये उपदिने, देवता

अतिष्ठ अत्र ॥११॥

॥ बाल २३ मी. ॥ (नुमीया गिगि डिग्वर सोदं. ए देवी.)

नीर मधुमी नाली जंपे, गुणे परमत् चार रे ॥ ह्वय विकसित करी निगुणे, धन
आनि पणपार रे ॥ नीर ॥ ए श्रान्कणी ॥ चाग्नि उपर मुणो उपनय, राजग्रहिमें दे
म रे ॥ धर्मोपार्थर मुगुणा नियमे, ज्ञेय मी तम चंग रे ॥ नीर ॥ पुत्र चार सुरूप रुडा,
धनपाने धनेय रे ॥ धनोपाने नर्त्ता धनगदत, कर तातनी सेव रे ॥ नीर ॥ परणा
विया ते पुत्रेन तय, दोगे धर्म मन गण रे ॥ एक दिवसे रात्रि समये, चिंतये मदाजाग रे
॥ नीर ॥ सकल नगरं मुजने पूं, कार्य काम लोक रे ॥ नातिमें पिण सह माने, नच
न न कर कोक रे ॥ नीर ॥ ह्व मजने कालपरमं, अथवा कोडक काज रे ॥ ऊपने मुज
पानलो मनि, शकटा पूण गय रे ॥ नीर ॥ वाग्य जाली नार घग्ना, मांयवा निर
धार रे ॥ विनाग्या विण नार मांय, र्ग मांये गवार रे ॥ नीर ॥ यतः ॥ मालिनी
नूतन, ॥ धर्म शकमडा नवा र्गना वायं ताने, र्गणतिग्नाया गतनः र्गमंतेन ॥ अति

रत्नसकृतानां कर्मणाभाविपत्ते, भवति हृदयदाही शब्दयतुद्वयो विपाकः ॥१॥ जावार्थः—
 काम करनारा माणसने काम करतां, जो कदि सारुं अथवा नरसुं जे धाय, तो तेनी प
 रिणती पंन्ति पुरुषे यत्रथी अथवाथी जोइए. कारण के उतावदथी करेला कामोनो
 विपाक, ज्यां सूधी ते संबंधी विपत्ति रहे ठे, त्यां सूधी हृदयने वाले ठे अने एक शब्दय
 सरखो साले ठे. ॥१॥ प्रजाते सवि सयण पोयी, तेडि बहुअर चार रे ॥ पांच पांच कण
 शालि केरा, दिये करी मनोहार रे ॥वी० ॥७॥ मागीए जव अमे तुमथी, देजो ए कण
 पंच रे ॥ चार बहुने शीख सुपरे, दिये जोई संच रे ॥वी० ॥८॥ चारे बहु कण लेइ चा
 ली, पहेती निज निज वाम रे ॥ बडी चित्ते एह कणथी, सीऊशे शो काम रे ॥ वी०
 ॥ १० ॥ मागशे तव अन्व देशुं, नांखी ये इम जाणि रे ॥ वीजीये कण नरु कीधा,
 स्वसुर हस्त प्रमाण रे ॥वी०॥१॥ वीजी चित्ते तातजीए, दीधा कारण कोय रे ॥ यत
 न करीने गुप्त स्थानक, राख्या युगते सोय रे ॥वी०॥२॥ लघु वधु मनमें विमासे, व
 वारुं एह वीज रे ॥ पीये जइ कृप्यकरने, दीये करी घणी रीऊ रे ॥वी० ॥३॥ ए
 पांचे कण सुपरे करीने, वाक्यो शुभ वाम रे ॥ कण हुने तव सर्व लेई, राख्यो कोइ

* खेती करनारने.

ग्राम रे ॥ वी० ॥१॥॥ निम कल्यो निम तिया कीषो, वीजनी प्रउ वृद्धि रे ॥ वली वीजि
 वरस प्राचे, खेच लेडी समृद्धि रे ॥ वी० ॥१॥॥ वीज सघलो तिहां वाव्यो, प्रउ बहुली शा
 लि रे ॥ वरस पांचलगे एम करतां, कण घया अतराल रे ॥ वी० ॥१॥॥ नरी कोवा करी
 मुज, लपु ययु मन रंग रे ॥ पांच वरये फिरी तेज्यो, कुटुंब सत्रि चतरंग रे ॥ वी० ॥१॥॥
 वडी बहु बोलायि वेगे, मागे कण ते पंच रे ॥ तय तुरतमें प्राणि दीधा, करी नहीं
 खलखंच रे ॥ वी० ॥१॥॥ सुसरो कहे ए कण न माहरा, करो सपथ सुसंग रे ॥ तव कहे
 में नांलि दीधा, एह अवर अन्नंग रे ॥ वी० ॥१॥॥ वयण निखुली स्वसुर कोप्यो, कहे
 राखी रीदा रे ॥ वाण लीपणतणो कारज, केरे तुं निश दीश रे ॥ वी० ॥१०॥ उखिता
 तस नाम देई, राखी गृहने दार रे ॥ हवे वीजी ययु बोलावी, मागे कण तिखिवार रे
 ॥ वी० ॥१॥॥ ते कहे में नरु कीया, सुणी कोप प्रकास रे ॥ अक्रिका तस नाम थापी,
 करी रांयण तास रे ॥ वी० ॥१॥॥ वीजी प्रते तेडी तिवारे, थायो प्रणमे पाय रे ॥ तेह
 कण यत्तने करीने, दीए अति उछाद रे ॥ वी० ॥१३॥ स्वसुर पूठ कदो बहुजी, कण अ
 नर के तेह रे ॥ ताम कहे ययु तेह निअय, इहां नहीं संवेह रे ॥ वी० ॥१४॥ रक्षिका तस
 नाम थापी, सांप्या मयल अंगार रे ॥ लपु बहुपे लाडशी तव, मागे कण सुप्रकार रे ॥

जोतां घणी वाट जी, मु०॥ अह निशि करता उच्चाट जी ॥सु०॥ तेह आव्या पुण्य पसा
ये जी, मु०॥ नाम लेतां आणंद थाये जी ॥सु०॥३॥ वंदन सामग्री कीजे जी, मु०॥ घनके
रो लाहो लीजे जी ॥ सु० ॥ तुमे सोल सजो शिणगार जी, मु०॥ पहिरो वली वेडा सफार
जी ॥सु० ॥४॥ घणे दिवसे चूपण काढो जी, मु०॥ आज हृदय अयो मुज ताढो जी ॥
सु०॥ सामग्री वंदणकेरी जी, मु०॥ केर सुतने स्नेहे नलेरी जी ॥सु०॥ ५ ॥ एहेवे घनो
शाखि सुसाध जी, मु०॥ वंदे वीरने निखाध जी ॥सु०॥ मोगे शील गौचरीने काज जी,
मु०॥ मासखमणनो पारणो आज जी ॥सु०॥ ६ ॥ कहे वीर सुणो वड वात जी, मु०॥
मात हाये आहार सुख्यात जी ॥ सु०॥ सुणि शाखि मुनीश्वर हरखी जी, मु० ॥ घना
साथे इरजा निरखी जी ॥सु०॥३॥ तेह गौचरिये तिहां जावे जी, मु० ॥ निज माताने घ
रे भावे जी ॥सु०॥ खी बेठी तनु शिणगारे जी, मु०॥ पिण पति नवि नुलख्यो त्यारे जी
॥सु०॥६॥ आदर तव किणही न दीधो जी, मु०॥ बलि, आहार, न मिढ्यो तिहां सीधो जी ॥
सु०॥ घनो शाखिअइ विचारे जी मु०॥ वीरवचने हृदय संजारे जी ॥सु०॥७॥ तव ति
हांथी पावां वलिया जी, मु०॥ पिण किणही तेह न कलिया जी ॥सु०॥ मारगमें मिली
महियारी जी, मु०॥ विनयानत थइ सुपियारी जी ॥सु०॥ १० ॥ देखि शाखिने उद्धसित

पाये जी, मु०॥ तस लक्ष्यमें छरल न माये जी ॥मु०॥ निरुसीत वदने इम बोले जी, मु०
 ॥ बोद्धे दो दर्शो एम अतोले जी ॥मु०॥ ११ ॥ ते साधुना पड्या पूर्या जी, मु०॥ नचि रा
 ख्या कांइ अथूरा जी ॥मु०॥ बहोरनि स्थानक आवे जी, मु०॥ वीर वांदी अधिके जाये
 जी ॥मु०॥ १२ ॥ तिहां गमनागमन आलोचे जी, मु०॥ करजोर्ढा धीरने पूजे जी ॥ मु० ॥
 तुमे मात कही हती स्वामी जी, मु०॥ दधि दाता ए अन्य पामी जी ॥मु०॥ १३ ॥ तव
 वीर कंदे तुम माता जी, मु०॥ पूर्य जयनी सुखियाता जी ॥मु०॥ १४ ॥ सुणि शास्त्रि तहत्ति वि
 काशो जी, मु०॥ शालि मुनिचरे जेद अन्त्याशो जी ॥मु०॥ जुठे पूर्य जयहुं गोयालजी, मु०॥
 चोर जी, मु०॥ निज पूर्य जय चिच धारे जी ॥मु०॥ वस्त्र खंन न मिलतो साजो जी, मु०॥ (गत
 इले जय न गाणो नृपाल जी ॥मु०॥ १५ ॥ वस्त्र खंन न मिलतो साजो जी, मु०॥ खीये पग
 जये) मुज अत्र न मिलतो ताजो जी ॥ मु० ॥ भा जय रत्नकंबल लीयां जी, मु० ॥ पूर्य जये परि
 लही नांवी दीयां जी ॥मु०॥ १६ ॥ पायसात्र ते डुल्लेहो पांयो जी, मु० ॥ मनयंत्रित दिन सचि
 अमे आयो जी ॥ मु० ॥ इह जंय दिव्य ज्ञान कर्मां जी, मु० ॥ इह जंय बलि लक्ष्मी
 सीयां जी ॥मु०॥ १७ ॥ गन जंय एक कवडो न पाई जी, मु० ॥ इह जंय बलि लक्ष्मी
 पाई जी ॥ मु० ॥ एक साधुना दान प्रतांग जी, मु० ॥ ए पाण्यां मुग्य बडवांय जी

मुण॥१७॥ घन घन जिनयर्म आधार जी, मुण॥ जेहथी सुख लहीए सार जी ॥ सु० ॥
चोवीशमी चोपे उब्बासे जी, मुण॥ दाल सुंदर जिन इम ज्ञासे जी ॥ सु० ॥१८॥

॥ दोहा. ॥ वीर नर्मनि विनयथी, ते बिहुं मुनि शिर ताज ॥ मासखमणनो पार
णो, करे तनु 'जाटक काज ॥ १॥ शालिन्त्रघ्नो मिली, करे वैराग्य विचार ॥ काया
वस काचां थयां, करिये अणसण सार ॥२॥ जाहुं देता जे ज्ञणी, तेह तो काज न था
य ॥ ते माटे वोशिराथीए, साथीये शियसुख ठाय ॥३॥ प्रत्युपे श्री वीरने, प्रणमी मांगे
शीख ॥ अणसण तुम थाणा थकी, थादरिये जिम इय ॥४॥ वीर कहे जिम सुख होवे,
तिम थाराथो हेव ॥ बिलंब न करयो एहमें, हे 'सुरप्रिय स्वयमेव ॥५॥

॥ दाल २५ मी. ॥ (निंदा न कीजे कोइनी पारकी रे, ए देशी.)

आज्ञा लही श्री वीर जिणंदनी रे, हरख्या मनमें साधुजी ताम रे ॥ त्रिण्य प्रद
क्षिणा देयने रे, वांटे विधिथी जिन अन्निराम रे ॥आज्ञा० ॥ १ ॥ ए थांकणी ॥ पुनरपि
पंच महाव्रत ऊचरे रे, थालोइ सपल अतिचार रे ॥ गौतमादिक अणगालने रे, विधिं
खमाये चारंवार रे ॥ आ० ॥२॥ चंदनवाला प्रमुख महारासी रे, तेहं गुं पिण खामे टाजी

१. जाई अथांन गरीले जाहुं थापवा माटे जाहार करे. २. देवावुषिय.

दाढ्य रे ॥ गीतमस्वामीनि साधे क्षेत्रेने रे, चढ्या धेनारे थइ निर्मळ्य रे ॥ आण ३ ॥ वा
 म शिलाने पडिलेदी तिळां रे, कीया संधारा अणसण काज रे ॥ चार आहारने पचल्या
 प्रेमशुं रे, चारे डारणां करे कृपिाज रे ॥ आण ४ ॥ लाख चोरादी जीवायोनिने रे, खोसेने
 गमाये शुज ज्ञान रे ॥ इतु मित्र सये सरिखा गले रे, त्रिकरण राखेनि डक ज्ञान रे ॥
 आण ५ ॥ पादोपगमन अणसण आदग्धो रे, जायळीबळगं करि जोर रे ॥ काया बोदाराची
 काची जाणिने रे, इडिने यदा कीधां वेग्वी चोर रे ॥ आण ६ ॥ मक्ने मदिरा सम जाणी जो
 डिया रे, राग ठेपने राख्यां ते करी दूर रे ॥ प्रयत्नो जय टालोनि निर्नय थया रे, खेलेते
 समता गंगेने ॥ आण ७ ॥ सुमति गुपतिने चिजमांदि धरी रे, ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानना चार रे
 ॥ आत्म स्वरूप प्रते अयगादता रे, मन धरे ध्यान तिळां अचिकार रे ॥ आण ८ ॥ एद्वे
 ज्ञानये सामग्री मज्जी रे, बहु चत्रीडोने लेड साध रे ॥ श्रेणिक नृपने माथे तडीया रे, जे
 ट्या ज्ञाने श्री जगनाथ रे ॥ आण ९ ॥ वाजिंत्र वांज निविथ प्रकारनां रे, गाजंत घन मम
 श्रंघर नाद रे ॥ अधिक नुछयत्रो आची वांद्या रे, मनमांडी वगती अति आड्दाव रे ॥
 आण १० ॥ भार्यानि वांदे जिनयग वींगं रे, विधिंजुं चिजत्रो धर्मिय उड्याम रे ॥ सातु म
 वंने निरखे ग्वांनिंजुं रे, डालिनड तिळां नचि देग्ये पाल रे ॥ आण ११ ॥ वत्त मुनिवरं

पिण दीठा नही रे, उपन्यो मनमें ज्ञाने विदलेप रे ॥ शुं किहां ध्यानादिकने लेयने रे,
वेग हुंसे ते गुन स्थल देखे रे ॥आण॥१॥ पूवे करजोडी जिनपति वीरने रे, शालिज्ज
पन्नो ठे किय ठाम रे ॥ गीरे वृत्तांत सवि विवरी कह्यो रे, जिहां लगे पहोत्या अणसण
काम रे ॥आण॥२॥ ततक्षण ज्ञा सुणि विलखी थई रे, रुदन करे तिहां असराल रे ॥
डःखयी बाजी धरणीए पडी रे, तिम क्ली तिहां वत्रीझे बाल रे ॥आण॥३॥ दवमांही
बाज्या पंखी फडफडे रे, तिम तरफडे विरहे नार रे ॥ चोथे उड्हासे ढाल पचवीशमी
रे, केहे जिन स्नेह बंधन ते असार रे ॥आण॥४॥

॥ दोहा. ॥ ज्ञा बहुभर तेडिने, चाली चतुरांगेग ॥ रुदन करंती रानमें, पुत्र वि
रह उवेग ॥ १ ॥ पगमें खूचे कांकरा, कांटा ठेस अपार ॥ कष्ट घणो खमती थकी, पहा
ती ते चैनार ॥२॥ गिरि उपर चढी लडथडी, देखी पोढ्या दोय ॥ अस्तक देश धरणी ठ
ली, मूर्छांगत थइ सोय ॥३॥ पवने पामी चेतना, देखे पुत्रनुं रूप ॥ मांस रुधिर शोषी
तपणे, अति कुदय अस्थि सरूप ॥४॥ दाहाकार करे तिहां, पुत्र विरहयी तेह ॥ आ दो
कट ते भावख्यो, अहो पुत्र गुणगेह ॥५॥

॥ ढाल २६ मी. ॥ (घर भावो रे मन मोहन घोटा. ए देदी.)

ज्ञेय नीचन तु नखनं येदा, तु मायार मतीय वेदा ॥ तु कुत्रमंरुण माहरे वेदा,
 तु हितकरण मदीय वेदा ॥ हसि मेलोनि मन मोहन वेदा ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ तु मुज
 भायद नांक वेदा, उरक विन मु गाम वे० ॥ तुज सम अयर न माहरे वे०, भाशानो
 विमराम वे० ॥ ३ ॥ तु कुत्र अयर दिनमणी वे०, तु सुकुलीन मुजात वे० ॥ तु कोम
 लनिन कारक वे०, गुण गुण मातनी यात वे० ॥ ३ ॥ हु मनमांही जाणती वे०, मल
 दो नार वे चार वे० ॥ हांश धरी पडितान्तुं वे०, कडुं सफल अयतार वे० ॥ ४ ॥ तु
 तो आंगणे आचीयो वे०, कण्या मातनी सार वे० ॥ पिणा में तुजने न जाणीयो वे०, हु
 नृनी त्रिनिगार वे० ॥ ५ ॥ ए दुःख मुजने घणां थयां वे०, वाऊथा ऊपर वूण वे० ॥
 तु इणि रीते इहां ग्यां वे०, ते दुःख टांजडा कृण वे० ॥ ६ ॥ ते तर करी काया वही
 वे०, किरी गयां नृज भाकार वे० ॥ आंगणं आळ्यो न उतून्यां वे०, नचि पडितान्त्यो ल
 गार वे० ॥ ७ ॥ हु गुणधीन अन्यागणी वे०, मुजने पडो धिक्कार वे० ॥ कडुपडुम परे
 आंगणं वे०, आळ्यां न जाणयो निगार वे० ॥ ८ ॥ धन धन ते तुज माचडी वे०, मदि
 धारी गुणगंइ वे० ॥ पुत्र नयांतर नूनळ्यां वे०, माचो तेह संनेह वे० ॥ ९ ॥ पूर्वे पिण
 पापमातयां वे०, संनाच्यां हतां भेत वे० ॥ भा तंन पिण नृम नांजित वे०, हित धर्मी व

पि वियो संत वेण॥हण॥ १० ॥ जांहुं जाणुं तेहने वेण, तो थापूं परमांदि वेण ॥ वहिन क
रिने तेतनुं वेण, संभुं तम उछांदि वेण॥हण॥ १ ॥ तुज विरहानल दाह्यी वेण, दुःखणी तुं
इण हाज वेण॥ वचनमृत जलथी करी वेण, वारो करिय संजाल वेण॥हण॥ ११ ॥ एकण
वार धोलाचिने वेण, पुरो भम मन कांड वेण॥ गोद विवाइने वीनवुं वेण, पाय नमुं कर
जोड वेण॥हण॥ १२ ॥ प्राण हुंसे हवे प्राहुणा वेण, तुं अणवोले इणियार वेण॥ वचन वे
थार जे बोलसो वेण, ते अम थोसे आधार वेण॥हण॥ १३ ॥ इणिपरे विविच विलापथी वेण,
हवन कथ्या असराल वेण॥ चौथे उद्धासे गबीशमी वेण, कही जिनविजये दाल वेण॥ १४ ॥

॥ दोहा ॥ इणिपरे ज्ञाये घणा, कथ्या विदेश विलाप ॥ निरखी निरखी शासि
ने, प्रति पामे संताप ॥ १ ॥ तेह काया तेह चातुरी, ते तनु तेज सुवास ॥ तपथी दाऊया
वेसिने, ज्ञा प्र उदास ॥ २ ॥ ज्ञा विलविसते थके, तब वत्रीशे नारि ॥ प्रीतमने दे
मी करी, करे पिजाप अपार ॥ ३ ॥ शिर कूटे कर मुष्टिथी, हृदय पठाडे हेय ॥ हाहारव
मुनथी केहे, एं गुं कीपुं केव ॥ ४ ॥

॥ गल २७ मी. ॥ (चांदलियोने कायो रे हरिणी आग्रमी रे, ए बेचीः)

नाहजिया निहेजारे केम बोलो नहीरे, अमथी तुमे इणियार ॥ वार वरसथी आ

त्र तुमे मिट्यां रे, किम न करो पिगु सार ॥ ना० ॥ १ ॥ ए श्रां कणी ॥ अमे तो निगुण ॥ न
 गुण कंतजी रे, तुमे ठो सुगुण नियान ॥ अमे तो तुमचो पादय जे प्रलो रे, तेदुनो ले
 राख्यो रे मान ॥ ना० ॥ २ ॥ तुमे अम मस्तक सुगट शिरोमणी रे, अमे तुम चरणनी ले
 ह ॥ तुमे तो मेघ सयन कनुना सदी रे, अमे तो पश्चिम निशि त्रेह ॥ ना० ॥ ३ ॥ तुमे तो
 मानसरोवर हंस ठो रे, अमे तो मंरुक तुड्य ॥ तुमे तो वैदूर्य चिंतामणी सारिखा रे,
 अमे तुं कवडीने मूड्य ॥ ना० ॥ ४ ॥ तुमे गज सरिखा गुणथी गाजतारे, स्वानोपम अमे
 एह ॥ सिंद परे ड्यर तुमे साहिवा रे, अमे गृगाल सेरह ॥ ना० ॥ ५ ॥ ते जणी अमने म
 हेर करी हवे रे, निरखी नयण निहाल ॥ अमे डुःखीयांने देखी दया करो रे, जीवदया
 प्रतिपाल ॥ ना० ॥ ६ ॥ अमे चूड्यां ते वेला अति घणुं रे, नयि जाणया तुम कंत ॥ तेह गु
 नह अम पड्यो ते प्रीतमा रे, खमज्यो तुमे सतिमंत ॥ ना० ॥ ७ ॥ मातालीने अमने अय
 गुणीं रे, नयि बोळो इणि वार ॥ ते विरहानल दाऊया ऊपरे रे, कंतजी कां दियो खार
 ॥ ना० ॥ ८ ॥ हवे अमनें तुम दक्षिण दोहिलो रे, देख्यो आज्ञा कंत ॥ वेहलो मंलो कर
 वा श्रावियां रे, अयधारा गुणवंत ॥ ना० ॥ ९ ॥ पडिलाअ्यानी होश दती घणी रे, करवा
 हाथ पर्यात्र ॥ ते तो अमचा पूर्ण नवि पडीं रे, ए ए कर्म विर्वात्र ॥ ना० ॥ १० ॥ लाठो

भ्रमन पीसरसो नही रे, जीवता लंगे जार ॥ भ्रंगण आख्या पिल नवि उलग्या रे, त
 भ्रम कर्म कंगार ॥ना०॥१॥ तुमं तो वावपणाथी प्रीतडी रे, पालो पूरण प्रेम ॥ वचन
 विरोध न कीधा कोयथी रे, सहजं चितव्यो खेम ॥ना०॥२॥ हवे इण वेला बोलावो
 गुथे रे, एटते लास पसाय ॥ भ्रमचो जीवित सफल हुवे मही रे, कड्डुं गोंद विठाय
 ॥ना०॥३॥ इणि वेसांय भणवोड्या रहो रे, ते भ्रम जीवित शक्य ॥ अंत समय अथ
 गुणथो जे करे रे, ते तो मरणने तुड्य ॥ना०॥४॥ कर दोय जोडी खोजा पाथरे रे, का
 मिनी तेह धत्रीश ॥ पिल नवि जेद साधु शिरोमणी रे, शांतित्रिमुनि मुजगीश ॥ना०
 ॥१५॥ नयन उपाडी पिल जोई नही रे, माता जामिनी कोय ॥ चोये उड्ढासे दाज स
 जावीरामी रे, जिन कहे धन धन सोय ॥ना०॥६॥

॥ दोहा. ॥ एहवे भजनपटुमार तिम, थो थेरिक नूयाल ॥ रुदन करंतां देखिने,
 समजाये तिल ताल ॥१॥ शो डःल करवो एहनो, एणे अजुवाड्यो वंदा ॥ जिनदासन
 शो ज्ञारियो, ए उजम अयंतस ॥२॥ धन धन ताहरी कूयने, प्रसव्यो पुत्र रतत्र ॥ जो
 भी येणो जागतो, मच्छ कता संपन्न ॥३॥ वीरतणी तूं जारजा, वीर प्रसव सादात ॥ जो
 धीरत पर चिगंभे चतुर, तूं यइ जगन विख्यान ॥४॥ पुत्र जमाईं विडं जले, गाख्यां

आत्म काज ॥ तेहजणी दुःख जोडि दे, धरी आनंद समाज ॥५॥ तय नञा धजा प्रते,
 बांदे विविध प्रकार ॥ धन धन तुम भवताग्ने, इम कहे वारंगार ॥६॥ रडती पडती रो
 वती, पावी नली प्रवीण ॥ नहु वत्रीशे लेयने, भावी दुःखनरी वीन ॥७॥ वीर पासे वन
 भादखां, श्रावकनां सुविधेक ॥ न्यु सद्धित पाजे विधे, आत्मथी अतिरेक ॥८॥ पोणे
 पात्र प्रसन्न मन, सेये श्रीजिनयर्म ॥ तप जप दक्ति सम करे, आराधे शिवशर्म ॥९॥
 अंते भगसण आदरी, पहेती ते सुरलोग ॥ महाविदे सीऊशे, पामी केवलयोग ॥१०॥

॥ द्वाज २८ मी. ॥ (वर्तमान दारसननो स्वामी. ए देशी.)
 हेते वत्रो धर्म धुंग्यर, जालिन्न मुनिराया जी ॥ करी मंत्रेपण काया गाली, ध
 मंथान मन द्याया जी ॥ हंवेण ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ एक मागनां भणमण पाली, दोप
 सेये परजाली जी, वत पचग्याण सुपरे मंचाली, उचम सदगति जाली जी ॥ ३० ॥३॥
 काम कोय मद मछर वंर्या, सयणशुं स्नेद न मंर्यो जी ॥ मन मंत्रीनि पकडी वंर्या,
 श्री जिनवचन न वंर्या जी ॥ ३१ ॥ पुन्यावय अधिक करी पहेन्या, मयाग्रमिद वि
 माने जी ॥ जालिन्न वत्रो देड मुनिवर, देव थया शुत्र थाने जी ॥ ३२ ॥ ४ ॥ तंत्रीग
 सागर भापु भनोपम, जोगवडो जनी रीते जी ॥ अन्यांन्ये अहमिश्येण ते, रंहे व पृगण

प्रातः जी ॥१०॥५॥ तिहार्यं चर्वा नरनव तं लक्ष्मि, क्षेत्र विदेह मऊर जी ॥ इन्द्रकुञ्जे
 पतयत वईने, नोगवशे सुग सार जी ॥१०॥६॥ गुरु देवान सुली संयम लेई, पालशे
 निरतीचार जी ॥ अंतं कवज्ञान लहने, पहाचंशे सुगति मऊर जी ॥१०॥७॥ सतीय
 युगशक्ति भाठ ले, चारित्र सु मने पाजी जी ॥ अणसण करि सुरलोकं पहेल्यां, निज
 अतम अशुभाली जी ॥१०॥८॥ एकावतारी ते सुविचारी, जही मानव अयतार जी ॥
 संयम संगे निर्मल रंगे, लक्ष्मि शिव श्रोकार जी ॥१०॥९॥ देखो दानतणां फल प्राणी,
 पत्ताशादे पाग्या जी ॥ संपद लक्ष्यो सवि गंमं ठामे, कीचां सधलां कामा जी ॥१०॥१०॥
 १०॥ 'वांगयमें मधिको बुद्धिमें अधिको, व्यापारे बहु दाम जी ॥ 'कलाकुशल अति
 'शूरपणो तिम, 'परदेशे पन घाम जी ॥१०॥११॥ 'नृप पुत्री परण्यो निज नयत्री, 'बू
 ऊषो अयला दास्ये जी ॥ ए आठे मचरिज घन्नाने, कवियल सयल प्रकासे जी ॥१०॥१२॥
 ॥१२॥ पडकं चरित्रिः ॥ पंदास्पवृत्तम् ॥ सौत्रानृतमग्रं विविधाथ बुद्धयः, क्रयेमृदादेरपि
 हेमसिद्धयः ॥ कला सुकौशलयमतीव शूरता, श्रियोविदेशेपि सुलैकसंगता ॥१॥ अरि
 प्रियानर्मगिरावृताव्रति, यणिगजनत्येपि नृपत्यसंपदः ॥ इमानि यन्ये नितरामनुत्तरा, न्य
 षायपिस्पष्टरालिगिष्टरे ॥१॥ जावायं:-? सर्वोचम वांगयोनुं हित चिंतयन, २ चिन्तय

प्रकारनी बुद्धियो, ३ माटी खरिदवामां पण (तेजमतूरी नीकजवाथी) सुवर्णासिद्धियो,
 ४ कजाठिभे विपे कुशलपणुं, १ घणुंज डारातन, ६ परदेदाने विपे पण सुणे सुले लट्ठमी
 यो मज्जवी, ७ स्वीनी मडकरी रूप वाणुंधी व्रत लेयां अने ८ यणिक जन गतां पण,
 राजानी दोलत; ए आणे हम्मेशां धन कुमरने विपे सर्वेणम हतां ॥ १ ॥ २ ॥ 'देवजोग
 नरजने जोगविया, 'कनक निर्मादय ते कीधो जी ॥ 'राजा श्रेणिकने किरियाणो, लेया
 अदिश दीधो जी ॥ ३ ॥ 'राजमान अपमान ते जाण्यो, ए आश्रय अतोडे जी ॥
 चारे धनूत शालिकुमरने, महुको पंफित बोसे जी ॥ ४ ॥ यडुकं चरित्रे ॥
 स्वर्गोपजोगीनृपतिकयाणकं, सुवर्णनिर्मादयमचूनस्रगादिवत ॥ नरेडमानेप्यपमानचित
 नं, शालेर्महाश्रयमिदंवनुष्टयं ॥ ३ ॥ जायाश्रः—? स्वर्गनो उपजाग करवा, २ राजाने क
 गियाणुं गणनुं, ३ फूलनी मानादिकनी पंचे सुवर्णने निर्मादय गणनुं अने ४ राजाना मा
 नेने अपमान गणनुं; ए चार वानां शानिनडेन विपे मद्धोटां आश्रयकागक हतां. ॥ ३ ॥
 अनुचरं दानमनुचरं तपो, हानुचरं मानमनुचरा यथाः ॥ धन्यम्यशांतिश्रुगुणाभनुतराः,
 अनुचरं धैर्यमनुचरंपदं ॥ ४ ॥ नायाश्रः—सर्वोत्कृष्ट दान, सर्वोत्कृष्ट तप, सर्वोत्कृष्ट मान, स
 र्वोत्कृष्ट यश, सर्वोत्कृष्ट धैर्य अने सर्वोत्कृष्ट पद एतले सर्वार्थसिद्ध विमान; ए सर्वं यत्र

कुमरना अने शालिन्नुमरना सर्वोत्कृष्ट गुणो होता. ॥४॥ एह धर्मा शालिन्नुत्तणा गु
ण, स्वल्प बुद्धिशी गायत्री ॥ रसना पावन निर्मल गुणधी, ज्ञान अनंता पाया जी ॥
६॥१५॥ श्री जिनकीनिस्तूरीश्वर विरचित, संस्कृत चरित्र निहाली जी ॥ ए अधिकार
रच्यो में सुदर, निज गुरु वयण संनाली जी ॥ हण ॥ १६ ॥ अधिको उजो रत्नस पणारी,
कुटिलबुद्धि संकेते जी ॥ ते मुज मित्राड्कड होज्यो, कहुं निज आतम हेते जी ॥ हण ॥ १७ ॥
श्री तपगुणपति तेज दियाकर, श्री विजयकामासूरि राया जी ॥ तस पट्टांवर दिनमणि
सांप्रति, श्री विजयदयासूरि पाया जी ॥ हण ॥ १८ ॥ तेह तणो आदेश लहीने, रास रच्यो
ए रुडो जी ॥ चौराशी ठावे संपूण, चार उड्हासशुं जोड्यो जी ॥ हण ॥ १९ ॥ संवत स
सरसो नषाणुं, वरये आधण मासे जी ॥ शित दशमी गुरुवार अनोपम, सिद्धियोग सु
विलासे जी ॥ हण ॥ २० ॥ दानतणां फल उत्तम जाणी, देजो दान विलासे जी ॥ दान
मनावीशमी जिनविजये, कही चोथे उड्हासे जी ॥ हण ॥ २१ ॥

॥ दोहरा. ॥ दान पंच जिन दाखियां, अनय सुपात्र उत्तंग ॥ अनुकंपा उचितादि
तिम, कीनिदान मन रंग ॥ १ ॥ अनय सुपात्रे मोक्षफल, शेष त्रिणय सुख जोग ॥ लहि
ये दाननले गणो. दप्तिस्त सपल संयोग ॥ ३ ॥ यतः ॥ आर्यावृत्तम. ॥ अनय सुपलंदाणं,

अणुकेया उधिय क्विचिदाणाई ॥ इतिवि मोस्को नलिच, तिद्विनि सुस्काडय दिवत ॥१॥
 जागार्थः-अन्नपदान, सुपात्रदान, अनुकंपादान, वनितवान अने कीर्तिदान; ए पांच प्र
 कारना दानमां प्रथमनां वेदान पण मोक्षने आपे वे अने वाकीनां व्रण दान पण सुख
 नोगादिकेने आपे वे ॥१॥ अन्नपदानथी सयल सुख, पाम्या गांतिजिणंद ॥ पात्रदान
 थी परम पद, श्री श्रेयांत कुमरेव ॥३॥ अनुकंपाथी पिण अधिक, जश पाम्या जगमां
 द ॥ मुज नोज विक्रम करण, प्रमुख नृपति मोघाह ॥ ४ ॥ ते माटे नवि जन तुमे, वे
 ग्यो दान मुपात्र ॥ नरनयो ए लानेवे, शुचि करण निज गात्र ॥४॥

॥ दान ३७ मी. ॥ (दीवो दीवो रे वामाको नंदन दीवो. ए देशी.)
 श्री गुरु देव प्रसादे पूरण, वंदित इहित पाया ॥ दान कष्टपडुम रास रचंते, आपो
 र अधिक नुपाया रे ॥ मे दानतणा गुण गाया ॥१॥ ए श्रांकणी ॥ जिम कष्टपडुम वंदित
 पूरे, तिम ए दानकल दाना ॥ दानादिक अधिकार अनापम, ठायथी मुख्याता रे ॥मं०
 ॥३॥ मंगलानरण त मूल मनोहर. मुनय न र्पठ प्रकाम ॥ वचन युक्ति ते स्कंय विरा
 ने, नाग शाखा नुद्वहाम रे ॥मं०॥३॥ नव नव रूप दालने रचना, प्रतिशाखा प्रतिज्ञा
 मे ॥ वोक्य पत्र मदा नवपत्रन. मक पुण्य मुगां रे ॥मं०॥ ४ ॥ अत्र फल ते तस अ

धेनो यद्देवो, रीज्जव्यो ते स्वाह ॥ श्रोता पर्यी विविध जातिना, स्वाद ग्रहे अथ मादरे
 ॥१०॥ १॥ शुक ते गुरु वता समञ्जु, कञ्चकुमनो स्वामी ॥ ते पासेयी फल मागीजे,
 आतमने हित कामी रे ॥१०॥ ६॥ ए फल स्वादनयी दुःख जावे, लहिये मंगल माचो ॥
 देशी विविध प्रकार विपियुं, स्व स्वस्थो करी गावो रे ॥१०॥ ३ ॥ श्री तरगञ्ज गुरेश अ
 नोपम, श्री विजयदेवस्योरदा ॥ गौतम जंबू वयर समोवड, गुणथी तेह सुण्णिदा रे ॥१०॥
 ॥०॥ तस पट्टे श्री रिजयामिह गुरु, मुनिजन करय चंदा ॥ गुणमली गेहल जूवर ऊपम,
 शय सत्त सुयकंसा रे ॥१०॥ १० ॥ मेदपाट पति राला जगतलिह, प्रनिचोधी जडा ली
 पो ॥ पर सापेटक नियम करावी, धायक सम ते कीवो रे ॥१०॥ १० ॥ तास शिष्य
 सुविदित मुनि पुंगय, बुध गजविजय सयाया ॥ शांति मुथागम परम महोदधि, उचम
 सुपत उपायो रे ॥१०॥ ११ ॥ तस मेवक कोचिद शिर शेवर, हितविजय गुरु राया ॥ पट
 रसन द्वागम जलनिषिंमं, बुद्धि जिदाज तराया रे ॥१०॥ १२ ॥ तास शिष्य पंक्ति जि
 न सिधूर, नालपिजय मत ज्ञाया ॥ तास मनीषं विबुध जिनविजये, गिरुथाना गुण
 गाया रे ॥१०॥ १३ ॥ श्री महावीरने वारे मनोहर, पंच पुरुष मु कहाया ॥ लब्धियपात्र श्री
 भौतम गलधर, सुदे च्जनय मुहायो रे ॥१०॥ १४ ॥ माने दगारलानइ सदाबन्दि, कयवन्ना

श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 १ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 २ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ३ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ४ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ५ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ६ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ७ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ८ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 ९ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥
 १० ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ इति तिस्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ ३४ ॥

अगाढी आश्रय आपनार सदृहस्थोनी नामावलि.

॥१३॥ अमदावाद.

- २७ शा वाज्ञाजाई उगनलाल.
 १० शा पुरुषोत्तमदास गुलाबचंद मेहेता.
 ७ पारि० पानाचंद ऊंवेरचंद.
 ५ पारि० विनुवनदास जगजीवनदास.
 १ नावत्तार लड्डुजाई भूषरदास.
 १ धी प्रायजैनधर्मप्रवर्तक सजा.
 १ पामोद.
 १ पन्याम उमेदविजयजी मोतीविजयजी.
 १ शंजार.
 १ माउ मालेरचंद मोलामिह.
 १ कतिजोष्टवेदर.

- १ मेहेता पुरुषोत्तम अमरालिह.
 १ खंनवा.
 १ शा प्रेमचंद कुंवरजी.
 १ जेतलसर.
 १ वकील अन्नेचंद कालिदास.
 ३ दीवचंदर.
 १ गांधी शवचंद जुगजदास.
 १ शा दरखचंद हरिचंद.
 १ माणानाचंद तजकचंद.
 १ देह.
 १ मेहेता हेमचंद गुलाबचंद.
 १ परमपूर.

- १ मोदी कर्णचंद गोपालजी.
 १ घोराजी.
 १ रा० ज्ञानदाजी स्वजी.
 १ धूलिया.
 १ शंभू मयाराम कुंजनाथ.
 २ पूना.
 १ शा शिवनाथ मुंबाजी.
 १ " नाराचंद नाथाजी.
 १ यालापर.
 १ शा इंद्रनाथ ब्रह्मीचंद.
 १ " मुंबई.
 १० शंभू लालजीनाई चांपगिरह.
 २ " तेजगिरह श्रीमगिरह.
 १ " दीगजी हंसराज.

- १ " रामजी रामजी.
 १ " देवकरण ऊंवेरचंद.
 १ (शा मगनलाल जीगराजनी मारफत.)
 १ शा मगनलाल जीगराज.
 १ शंभू प्रेमचंद रायचंद.
 १ शा मगनीराम चक्तिवास.
 १ शंभू ऊंवेरवास हरजीवन.
 १ " तलकचंद माणिकचंद.
 १ शा शुकराज बठराज.
 १ " मोहनलाल हेमचंद.
 १ शंभू मोतीचंद देवचंद.
 १ माग्याही अचलजी चलाजी.
 १ शंभू चंदनलाल ऊगनाथ.
 १ शा लालजी केशवजी.

